



भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31—जनवरी 6, 2006 (पौष 10, 1927)
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31—JANUARY 6, 2006 (PAUSA 10, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400005, दिनांक 13 दिसंबर 2005

सं. बैं.प.वि. एआरएस. सं. 8631/08.21.002/2005-2006--भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित लेखा परीक्षा फॉर्मों को वर्ष 2005-2006 के लिए तथा भारतीय स्टेट बैंक की अगली वार्षिक साधारण बैठक होने तक बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है :

- (1) मैसर्स बी. एम. चतरथ एंड कंपनी, कोलकाता
- (2) मैसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, मुंबई
- (3) मैसर्स जी. एस. माधुर एंड कंपनी, नई दिल्ली
- (4) मैसर्स आर. जी. एन. प्राइस एंड कंपनी, चेन्नई
- (5) मैसर्स एम. एम. निसीम एंड कंपनी, मुंबई
- (6) मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कंपनी, नई दिल्ली
- (7) मैसर्स विनय कुमार एंड कंपनी, इलाहाबाद
- (8) मैसर्स एम. चौधरी एंड कंपनी, कोलकाता
- (9) मैसर्स लक्ष्मीनिवास एंड जैन, हैदराबाद
- (10) मैसर्स पात्रो एंड कंपनी, भुवनेश्वर
- (11) मैसर्स कन्वालिया एंड कंपनी, नई दिल्ली
- (12) मैसर्स के. पी. राव एंड कंपनी, बंगलूर
- (13) मैसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, कोलकाता
- (14) मैसर्स वर्धमान एंड कंपनी, चेन्नई

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 29-सी.ए./लॉ/डी.-47/2005--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् द्वारा, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संदर्भ संख्या 2/1991 में दिनांक 2 अगस्त, 2003 वाले अपने आदेश, जो दिनांक 5 अगस्त, 2005 के आदेश के द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 के रूप में संशोधित किया गया, के अनुसार यह आदेश किया है कि श्री ए. एल. घईल, एफ. सी. ए., मैसर्स ए. एल. घईल एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 307, हाजुरी चैम्बर्स, सलाबतपुरा, मेन रोड, सूरत-395003 (सदस्यता सं. 006875) को, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के साथ पठित धारा 21 के अधीन अन्य अवचार का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से छह माह की अवधि के लिए हटा दिया जाए। तदनुसार, एतद्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री ए. एल. घईल का नाम दिनांक 1 फरवरी, 2006 से छह माह की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान वह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबन्धानानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

डा. अशोक हल्दिया

सचिव

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400 001, दिनांक 7 दिसंबर 2005

संदर्भ : वयबनिवि सं. 1--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को आयोजित बैठक में केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी सहकारी गारंटी निधि विनियमावली को इसके द्वारा निरस्त करने का प्रस्ताव रखा और निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किया :--

प्रस्ताव पारित किया

“कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बोर्ड ने इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी सहकारी गारंटी निधि विनियमावली को निरस्त करने के लिए दिनांक 14 अक्टूबर, 2005 के कार्यपालक निदेशक के ज्ञापन में निहित प्रस्ताव का अनुमोदन किया है”।

सी. कृष्णन

कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ.(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत तथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 18 के अनुसरण, अक्टूबर 2005 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400 008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
नई दिल्ली सर्कल 9% राहत बाण्ड 1999					
डीएचएन-004371	रु. 70,000/-	चांद कुमार तनेजा और जीवन बाला तनेजा (कोई एक या उत्तर जीवी)	-	चांद कुमार तनेजा और जीवन बाला तनेजा (कोई एक या उत्तर जीवी)	पीडीओ/डीटी/एलएन-5/2005 दिनांक 08/10/2005
डीएचएन-005631	रु. 80,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

सूची "ख"
कोलकाता सर्कल
9% राहत बाण्ड 1999

सीए एन-002982	रु. 1,00,000/- (एक लाख रु. केवल)	रेवती रंजन चौधरी (स्वर्गीय)	-	श्री सुधीर कुमार चौधरी (दावेदार)	फाईल संख्या आई-2562 महाप्रबंधक के आदेश दिनांक 14-10-2005 (डायरी संख्या) एल.सी.ओ. 29/2005-06 दिनांक 17.10.2005
सीए एन-003604	रु. 1,00,000/- (एक लाख रु. केवल)	रेवती रंजन चौधरी (स्वर्गीय)	-	श्री सुधीर कुमार चौधरी (दावेदार)	-वही-
नई दिल्ली सर्कल 9% राहत बाण्ड 1999					
डीएचएन-007090	रु. 5,00,000/-	के. तनेजा और राम कृष्ण तनेजा (कोई एक या उत्तर जीवी)	-	के. तनेजा और राम कृष्ण तनेजा (कोई एक या उत्तर जीवी)	पीडीओ/डीटी-4/2005 दिनांक 06/08/2005

जे. एम. बाबा
सहायक प्रबंधक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली -110066, दिनांक

सं. 2/1959/डीएल.आई./एकजम/89/भाग-II--- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त --- दिल्ली --- ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची - 1

क्र.सं.	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि
1.	मै० सी एम वाई के प्रिन्टक लि०, लिंक हाऊस, सैकण्ड फ्लोर,	डीएल/23769	1.12.03 से 30.11.06
2.	मै० मांगार्ड शम्मार इंडिया लि०	डीएल/7161	1.6.04 से 31.5.07
3.	मै० इन्टेक्स टेक्नोलॉजिज इंडिया लि० डी-18/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली	डीएल/20843	1.8.03 से 31.7.06
4.	मै० एनकॉन इन्टरनेशनल स्कूल, मयूर विहार, फेज-1, अपॉसिट उना एन्कलव, नई दिल्ली	डीएल/24573	1.10.02 से 30.09.05
5.	मै० एन जी पी इन्डस्ट्रीज लि०	डीएल/8826	1.7.04 से 30.6.06

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यंगत हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्दाता/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सूरज शर्मा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डीएल.आई./एकजम/89/भाग-II----- जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2) (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -----
-----केरल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक-----के स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची-I

क्र.सं.	स्थापना का नाम	कोड सं०	छूट की अवधि	
			से	तक
1.	मे० जोसको रबरस, 8/50, मुलालिगल, कालीकट	केआर/केके/11644	01-09-04	31-08-07
2	मे० जोसको एजेन्सीस, 8/50, मुलालिगल, कालीकट	केआर/केके/11645	01-09-04	31-08-07
3	मे० जोसको फुर्टवियर, 8/50, मुलालिगल, कालीकट	केआर/केके/11996	01-09-04	31-08-07
4	इबेबेजर प्रेस प्रा० लि०, त्रिचुर	केआर/केसी/19512	01-08-04	31-07-07
5	मे० जिया मोटरस प्रा० लि०, कोच्ची	केआर/केसी/10360	01-03-04	28-02-07
6	मे० हरबन ऑफसेट प्रिन्टरस, त्रिचुर	केआर/केसी/15816	01-08-04	31-07-07

7	मे० हिली क्रास हास्पिटल, कोट्टियाम	केआर/3894	01-03-03	28-02-06
8	मे० साराथा ओटोकोरस, कोलम	केआर/16600	01-03-03	28-02-06
9	मे० साराथा मोटरस, कोलम	केआर/12416	01-03-03	28-02-06
10	इबेबेजर प्रिन्टरस, त्रिचुर	केआर/केसी/13820	01-08-04	31-07-07
11	मे० असिस्ट (आई) प्रा० लि०	केआर/केसी/19353	01-08-04	31-07-07
12	मे० कावेरी प्लास्टिक्स प्रा० लि०	केआर/केसी/15770	01-07-04	30-06-07
13	मे० कावेरी पोलीमरस	केआर/केसी/19593	01-07-04	30-06-07
14	मे० पोबस बेट्टी कनटेनरस लि०	केआर/4711	01-01-94 01-01-97 01-01-00 01-01-03	31-12-96 31-12-99 31-12-02 31-12-05
15	मे० होटल रिजेंसी, त्रिवेन्द्रम	केआर/12777	01-02-04	31-01-07
16	मे० कावेरी पेट एण्ड पॉलीफोरमरस प्रा० लि०	केआर/केसी/19577	01-07-04	30-06-07
17	मे० टैक्सन रबरस (अपनी शाखाओं के साथ)	केआर/केके/17717	01-02-04	31-01-07
18	मे० कैसिनो रबरस फैक्ट्री (अपनी शाखाओं के साथ)	केआर/केके/11670	01-09-04	31-08-07
19	मे० ए आर एस सॉफ्टवेयर इंजि० प्रा० लि०	केआर/16643	01-01-04	31-12-06
20	मे० स्पोर्ट्स लक्ष्यद्विप ऑफिस, कोच्ची	केआर/12373	01-03-04	28-02-07
21	मे० ट्रस्ट रबरस, त्रिचुर	केआर/13602	01-03-04	31-01-07
22	मे० प्रसन्न इंडस्ट्रीज, त्रिचुर	केआर/19408	01-02-04	31-01-07
23	मे० सोफिसटिकेटेड टेस्टल इन्स्ट्रुमेंटेशन सेंटर, कोच्ची	केआर/15152	01-03-04	31-01-07
24	मे० ए यो टी एम सी सेरेमिक इंप्रोडियन्टस प्रा० लि०	केआर/15865	01-09-03	31-08-06
25	मे० केरला फुटबियर ट्रेडरस, केलीकट	केआर/11848	01-03-95 01-03-98 01-03-01 01-03-04	28-02-98 28-02-01 29-02-04 28-02-07
26	मे० सनैरका हेल्थ प्रा० लि०, कोच्ची	केआर/19515	01-02-04	31-01-07
27	मे० प्राइमस ग्लोबस प्रा० लि०, कोच्ची	केआर/19195	01-02-04	31-01-07
28	मे० पिटको इंडिया, कोच्ची	केआर/19305	01-02-04	31-01-07
29	मे० चिन्मया विद्यालय, कोच्ची	केआर/8559	01-12-03	30-11-06
30	मे० फ्रन्टलाइन पोलीमरस प्रा० लि०, मालापुरम	केआर/14757	01-02-02	31-01-05
31	मे० मालाबार कैंसर सेंटर, थालासेरी	केआर/18113	01-01-04	31-12-06
32	मे० टीसन पोलीमरस लि०, त्रिचुर	केआर/19497	01-02-04	31-01-07
33	मे० जेम ट्रेडरस प्रा० लि०, त्रिचुर	केआर/19377	01-02-04	31-01-07
34	मे० पट्टनाकाड कायर मेटस एण्ड मेथन को-ओप सोसायटी लि०	केआर/13130	01-12-96 01-12-99 01-12-02	30-11-99 30-11-02 30-11-05
35	मे० टाटा टेटली लि०, कोच्ची	केआर/15781	01-12-03	30-11-06

क्र.सं	स्थापना का नाम	कोड सं०	छूट की तिथि	
			से	तक
1	सुबोधय कैमिकल्स लि०	एपी/31646	01-10-04	30-09-07
2	मै० तेजस्वनी इंडस्ट्रीस वाडालामूडी, गुन्डूर	एपी/27849	01-02-97	31-01-06
3	मै० स्मार्टकैम टेक्नोलॉजिजस लि०	एपी/20479A	28-02-02 28-02-05	27-02-05 27-02-08
4	मै० ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव	टीएन/एसएल/474 28	01-05-03	30-04-06
5	मै० श्री नाचामल कॉटन मिल्स लि०	टीएन/एसएल/350 80	01-10-03	30-09-06
6	मै० जेम होस्पिटल इंडिया प्रा० लि०	टीएन/56038	01-09-04	31-08-07
7	मै० सुगुना पोल्ट्री प्रोडक्ट्स लि०	टीएन/45640	01-07-04	31-08-05
8	मै० प्राइम कोटन टेक्सटाइल	टीएन/33780	01-12-03	30-11-06
9	कैथानूर सर्वोदया संघ	टीएन/12396	01-09-04	31-08-07
10	मै० सी आई बी आई एक्सपोर्ट्स	टीएन/45169	01-10-04	30-09-07
11	मै० श्री निधि एपारेल् प्रा० लि०	टीएन/45433	01-06-04	31-05-07
12	मै० पेरिमालम मैट्रिकुलेशन हायर सैकण्डरी स्कूल	टीएन/एसएलएम/ 21631	01-01-05	31-12-07
13	मै० एक्साईड इंडस्ट्रीस लि०	टीएन/एसएलएम/ 35062	01-07-03	30-06-06
14	मै० सुप्रीम एरोमेटिक्स प्रा० लि०	टीएन/पीसी/620	01-06-03	31-05-06
15	मै० दि स्वान इलेक्ट्रिक कं० प्रा० लि०	टीएन/एमबी/172 61	01-07-01 01-07-04	30-06-04 30-06-07
16	मै० एम पी नाचीमूथू एण्ड जगन्नाथन पोलिटेक्नीक	टीएन/एसएल/ 21625	01-01-02 01-01-05	31-12-04 31-12-07
17	मै० कैम्ब्रीज मैट्रिकुलेशन हायर सैकण्डरी स्कूल	टीएन/एसएल/ 34569	01-12-04	30-11-07
18	मै० पनटादेशवाहा आटो पार्ट्स लि०	टीएन/40886	01-04-04	31-03-07

19	मै० एम ए रामाराव एंड कं०	के.एन/13503	01-09-95 01-09-98 01-09-01	31-08-98 31-08-01 31-08-04
20	मै० केनरा इंजिनियरिंग कॉलेज	के.एन/20538	01-12-01 01-12-04	30-11-04 30-11-07
21	मै० सुरेश ग्राफिक्स प्रा० लि०	के.एन/11644	01-11-95	31-10-04
22	मै० सोफिया हाई स्कूल	के.एन/8971	01-03-93	28-02-02
23	मै० होसा डायग्नोस्टिक्स	के.एन/12615	01-04-97 01-04-00 01-04-03	31-03-00 31-03-03 31-03-06
24	मै० महिला को ओप बैंक लि०	के.एन/10465	01-03-95 01-03-98 01-03-01	28-02-98 28-02-01 28-02-04

अनुसूची - 1

क्र.सं.	स्थापना का नाम	कोट सं०	छूट की अवधि	
			से	तक
1	मे० केरला स्टेट इलेक्ट्रिकलस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि० केंद्रिय कन्ट्रोलस डिविजन	केआर/केसी/12346	01-07-03	30-06-06
2	मे० सेल्युलर ग्रोथ निधि लि०	केआर/केएनआर/18150	01-12-04	30-11-07
3	मे० डी भाई एच लि०, कांची	केआर/केसी/19860	01-09-04	31-08-07
4	मे० इलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोलस एण्ड डिसचार्ज सिस्टमस प्रा० लि०	केआर/केसी/19495	01-10-04	30-09-07
5	मे० बेली हाइड्रो पावर प्रा० लि०	टीएन/65101	01-04-04	31-03-07
6	मे० दि कृष्णा डि० को-ओ सेन्ट्रल बैंक लि०	एपी/2364	31-01-95 31-01-98 31-01-01 31-01-04	30-01-98 30-01-01 30-01-04 30-01-07
7	मे० उग्रोद्धा पब्लिकेशनस	एपी/35244	01-04-00 01-04-03	31-03-03 31-03-06
8	मे० तुलसी डिजिटल स्टूडियो	एपी/40585	01-02-05	31-01-08
9	मे० दि आर्यापुरम को-ऑप अरबन बैंक लि०	एपी/11747	01-03-99 01-03-02	28-02-02 28-02-05
10	मे० विजयालक्ष्मी इनवेस्टीसाईडस एण्ड पेरिटेसाईडस लि०	एपी/6385	01-04-96 01-04-99 01-04-02	31-03-99 31-03-02 31-03-05
11	मे० सेंट मेरीस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंट उडुपी	केएन/ 20307	01-09-04	31-08-07
12	मे० जोसको रबड (पान्डी० प्रा० लि० एण्ड इसकी शाखायें)	केआर/केके/17653	01-09-04	31-08-07
13	मे० केराफिबरेटक्स इंटरनेशनल प्रा० लि०	केआर/केसी/19462	01-10-04	30-09-07
14	मे० सोफटेक्स डिजिटल प्रा० लि०	केएन/ 16677	01-12-03	30-11-06
15	मे० सीब्यू सपोर्ट सिस्टमस प्रा० लि०	केआर/16154	01-12-03	20-11-06
16	मे० बैंकटाहारी ऑयल लि०	एपी/23350	01-11-01 01-11-04	31-10-04 31-10-07
17	मे० लक्ष्मी गणपति वाटर पम्प इंडस्ट्रीस	एपी/33745	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
18	मे० हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरिज प्रा० लि०	एपी/33337	01-04-01 01-04-04	31-03-04 31-03-07
19	मे० ए पी विकास विद्यावनम	एपी/19053	01-04-01 01-04-04	31-03-04 31-03-07
20	मे० बैंकटाहारी रिफाइनरिस प्रा० लि०	एपी/33944	01-11-01 01-11-04	31-10-04 31-10-07
21	मे० स्ट्राइडस आरकोलेब लि०	केएन/ 20192	01-11-00 01-11-03	31-10-03 31-10-06
22	मे० एफआर. मुलरस चैरिटेबल इन्स्टीट्यूशनस	केएन/ 4992	01-05-01 01-05-04	30-04-04 30-04-07

23	मै. गुरुदेव पोली प्रिन्ट	केएन/20521	01-06-01 01-06-04	31-05-04 31-05-07
24	मै० श्री रामाकृष्णा प्रिन्टिंग कॉलेज	केएन/ 20443	01-09-01 01-09-04	31-08-04 31-08-07
25	मै० मेगनम इंटरग्राफिक्स प्रा० लि०	केएन/ 20288	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
26	मै० एम आर पी एल लि०	केएन/ 20171	01-04-00 01-04-03	31-03-03 31-03-06
27	मै० जी डी एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग	केएन/ 20438	01-06-01 01-06-04	31-05-04 31-05-07

अनुसूची -1

क्र.स.	स्थापना का नाम व पता	काड नं०	छूट की प्रभावी तिथि
1.	मै० साइप्रिया चिट फण्ड प्रा०, गुन्डर	एपी/21170	1.3.9 से 28.2.02 1.3.02 से 28.2.05
2.	मै० विकास विद्या वनम, विजयवाडा	एपी/19053	1.4.01 से 31.3.04
3	मै० आन्ध्र प्रदेश प्रा० लि०, कृष्णा डि०	एपी/30161	1.3.03 से 30.6.06
4	मै० एप्रोकोरपेक्स इंडिया लि०, विजयवाडा	एपी/19400	1.10.99 से 30.9.00
5	मै० कानाका दुर्गा एप्रो ऑयल प्रोडक्ट्स लि०, विजयवाडा	एपी/16359	1.9.01 से 31.8.04
6	मै० आईवीआरसीएल इनफ्रान्स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लि०, हैदराबाद	एपी/22120	1.2.00 से 31.1.03 1.2.03 से 31.1.06
7	मै० पी एम बी इंडस. ऑटा नगर, विशाखापटनम	एपी/31792	27.3.03 से 26.3.06
8	मै० कुदरगवली पैकेजिंग प्रा० लि० कृष्णा डि०	एपी/33009	1.7.99 से 30.6.02 1.7.02 से 30.6.05
9	मै० कुसलवा इंटरनेशनल, विजयवाडा	एपी/27526	1.4.97 से 31.3.00 1.4.00 से 31.3.03 1.4.03 से 31.3.06
10	मै० ए.पी. रबड इंडस्ट्रीज	एपी/21218	1.1.98 से 31.12.98 1.1.99 से 31.12.99

अनुसूची - 1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण का प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि चारित्र्य/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारण वश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्ति होने वाली राशि से कम हो जाये तो वह किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारण वश उस नियम तारीख के भीतर नियम करें प्रीमियम का संदाय असफल रह जात है और पॉलिसी को व्यंगत हो दिया जाता है तो छूट रद्द की जाती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय के लिए किए गये व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गयी हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर इस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि सदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सूरज शर्मा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110058, 21 नवम्बर, 2005

सं. २०-१०/२००५-एस.आर. (केरल) जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो केरल राज्य रजिस्टर में नामावलिप्त हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा ।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन अप्रैल १९९४ से मार्च १९९७ तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (केरल) का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है, और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए ।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार

भारतीय विविक्तता की केन्द्रीय पत्रिका
केरल (अप्रैल 1994- मार्च 1997)
भाग I आयुर्वेद

क्र.सं.	नाम व पता	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
85817	अब्दुल सलाम पो.के. मुल्लुकुट्टी	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट	6392 19.12.94	कलादियल हाउस पट्टूर पो.आ., जिला थिरुवरूर
85818	अब्दुल सलाम पो.के. अब्दुल रहीम पो.ए.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट	6433 4.1.95	पेरिनगट्टुथोडियल इरीमिलियम पो.आ. मालापुरम
85819	अजयकुमार पो.एस. श्रीधरन पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	6429 2.1.95	'पट्टाथिल', कल्लोतिभागम पो.आ. करुणागपल्ली, कोल्लम
85820	अजयन आर. राजप्पन नायर बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	6524 29.4.94	विक्काक्के पुदेन वीडु पलविलाकोनम, पेयड पो.आ. थिस्वनन्यापुरम
85821	अजीकुमार आर. रमाचन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वेन्नाई	6574 20.12.95	चन्द्र भवन मुल्लाकोरी, पनमाना पो.आ.
85822	अजील कुमार वी.पी. वी.जी.पी. कुरुप	बी.ए.एम.एस. एम.जी.वि.वि., कोट्टायम	6734 22.01.97	एसआईबी काम्पलेक्स, क्वार्टर नं. 111/9, कश्यका रोड, जिला एनिकूलम
85823	अजीथ कुमार बी. आर. बालनपिल्लई	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	6620 3.5.96	अरुणनिवास, मुथुकुलम साउथ पो.आ., कार्थिकापल्ली, अलापुझा

85824	अजीथ कुमार के. एन.के. कुमार पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6329 29.4.94	भामा विलास मल्लय, नेल्सट्रीनकारा पो.आ. थिस्वनथापुरम ।
85825	अजीथ कुमार के. के.सी. कुरुणाकर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6434 12.1.95	'रेवयी' टी.सी.२६/२२० बेकरी जंबान, थिस्वनथापुरम ।
85826	अजीथ कुमार के.एन. के.बी. नीलाकन्धन नाम्बूद्री	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	6612 3.5.96	अव्यायम, टी.सी.६/२२५७, वलियाविला वर्दीयूरकाडु, थिस्वनथापुरम ।
85827	अजीथ कुमार एम.एल. के.भाद्यन नादर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6745 7.2.97	प्रलाविला मन्ने एथन बंगला, काझीवूर, काझीवूर पो.आ. त्रिवेन्द्रम ।
85828	अजीथ कुमार एन वी. नन्दमन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६५	6576 20.12.95	जनया नसिंग होम चालरा राउय पो.आ. कोल्लम ।
85829	अजीथ कुमार एस.एल. सुकुमारन नार के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6368 22.11.94	मणिमन्दीरम निकट होमियो कालेज नेमोम पो.आ. त्रिवेन्द्रम ।
85830	अजीथ केबी बी. ए.एल. देबी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६५	6525 20.12.95	ग्रिनलैंड, निकट वाई.एम.सी.ए. चेनगन्नुर, जिला अलापुझा ।
85831	अजीथा आई.टी. एन. कुरुणाकर नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6310 28.4.94	'सारंग' टी.सी. ४२/१०३ मुक्कोलोकल श्रीवराहम, थिस्वनथापुरम ।
85832	अजीथा के. कुरुणाकरन एन.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6337 25.7.94	बुंगलाविल हाउस वक्कोम पो.आ., थिस्वनथापुरम ।

85833	अजीथा एम. ए. एम. के. वासुदेवन	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १९६५	6528 21.10.95	वसन्धलायम, पत्तुर पो. आ. पादानिलम (वाया) अलापुन्ना ।
85834	अजीथा पी. के. कुमार पी. के. कुमार	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १९६६	6670 25.5.96	कृष्णा भवन कोनयकुन्नु पो. आ. इरिनक्काकुल, मिरूर ।
85835	अजीथाकुमारी अम्मा के. कृष्णापिल्लई के.	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १९६५	6454 26.4.95	सुन्दराविलासम विलावू(कोनम पो. आ. कस्तुबायुक्कई वाया (जिला) कोल्लम ।
85836	अजीथाकुमार टी. पी. पविथान टी. के.	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १९६६	6750 29.3.97	विल्लयेकट्टु सरुपनकुलनगरा पो. आ. चेरयला, जिला अलापुन्ना ।
85837	अम्बिका पी. पेरिकयारा पी. कुट्टन	बी. ए. एम. एस. मद्रास वि. वि., मद्रास १९६५	6589 16.2.96	धुस्यी पल्लील हाउस आर. एम. रोड, काडावनयरा पो. आ. कोचिन, एर्नाकुलम ।
85838	आनन्द पी. के. बी. पी. के. वासुदेवन	बी. ए. एम. एस. भयियार वि. वि., कोयंबटूर १९६३	6306 28.4.94	सुपुत्र पी. के. वासुदेवन कुन्नाय माना कुन्नाय लेन, धरिसूर ।
85839	आनन्दाक्षियोर के. बी. वेलायुधन के. बी.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १९६४	6402 20.12.94	लक्ष्मी निलायम पो. आ., पट्टाम्बी, जिला पलक्कड ।
85840	आनन्दराज ए. बी.	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १९६४	6425 31.12.94	अरविन्दा भवनम कल्लिमिल पो. आ. मवेलीकोरा, जिला अल्लोपे ।
85841	अनी अन्दोनी अन्दोनी के. जे.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १९६४	6395 19.12.94	कोल्लमपारमबिल हाउस रायोनपुस पो. आ. पेरुमबावूर, जिला एर्नाकुलम ।

85842	अनिल जी. गंगाधरन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.चेन्नई १९६५	6671 25.5.96	कृष्णा श्री टी.सी. ५०/६५२(१), कलाडी करमाना पो.आ., त्रिवेन्द्रम ।
85843	अनिल टी. जैकब पी.सी. थामस	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि.चेन्नई १९६६	6676 20.6.96	मदोलिल वैद्यसाभा पुल्लाड पो.आ. थिस्वला, पादमरीट्टा ।
85844	अनिलकुमार एल.पी. ए.एम. पीथायारन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६५	6592 16.2.96	तथा निवास, अजाद रोड इरिगलाकुडा नोर्थ पो.आ., भिला थरिसूर ।
85845	अनिलकुमार एम.बी. ओ. विश्वनाथन आवरी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6552 24.11.95	टी.सी. १६/१६२३, मुदवनमुल, पूजपुरा पो.आ. थिस्वनथापुरम ।
85846	अनिलकुमार पी.के. टी.एन.के. नायियार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6695 24.10.96	कलियाथ, मोरझा पो.आ. कन्नूर ।
85847	अनिया जी. बी.के. गंगाधरन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १९६६	6593 16.2.96	तलमी निवास, इरिगावूर पो.आ., थिरु- ३ (वावा), मलापुरम ।
85848	अनिया के. पी. विलम्बान	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	6600 8.3.96	मदनविला पुयेन वीडु पुन्नामुक्कु, पेरुमपुजहा पो.आ. कोल्लम ।
85849	अनिया कुमार टी. टी.पी. कुमारन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	6316 28.4.94	थक्कादियेन, एरुमेली पो.आ. कोटायम ।
85850	अनिया एन. एन. कृष्णन नाबूदिरि	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १९६४	6410 31.12.94	चुलुकुनाथ मडोम सामने लेयोला कालेज श्रीकरयम पो.आ. थिस्वनथापुरम ।

85851	अन्या सुधाकरन सुधाकरन	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९९४	6441 18.3.95	नामविषय हाउस पो.आ. परापुर, धरिसूर ।
85852	अमियनलाल पी.के. के. कुंजूराम वैद्यन	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १९९४	6358 25.10.94	'सेवासदानम्' विट्टयम वेरिनाड पो.आ. कोल्लम ।
85853	अंजलि सी. एस.पी. चन्द्रसेखरन नायर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटयम १९९५	6513 10.10.95	वैसखोम, इदावटोम पो.आ. थलयाला परम्पु ।
85854	अनु धामस धामस एम.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९९४	6390 19.12.94	वडाक्कोविला, वीडु कुमाल्लूर पो.आ., कोल्लम ।
85855	अनुपमा के.एन पी. नारायणन	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९९६	6675 20.6.96	थलाविल, पो.आ. इस्वट्टी (वाया) चयरापाट्टा, कन्नूर ।
85856	अनुपमा एस. शुनकुम	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९५	6471 28.4.95	टी.सी. xx/१९२८, करमाना पो.आ. जिला थिस्सवनथ्यापुरम ।
85857	अनवर ए.एम. एम. अहमद कुंजु तेंबा	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९५	6323 29.4.94	नूर महल, थलवा पो.आ. करुणगापल्ली, जिला कोल्लम ।
85858	आर्य आर. नाम्पथिरी राधाकृष्णन नाम्पथिरी पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९९४	6486 28.4.95	इन्नात्तरी मायम इनायु, जिला पावनमटीट्टा ।
85859	आसा के.एच. हमसा के.ई.	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटयम १९९५	6685 6.8.96	'कडिजा मजिल' साउथ आफ एस.डी.पी.वार्ड. बी.एच.एस. पल्लुथी कोची, जिला एनीक्लम ।

85860	आसलेथा आर.एस. राधवन नायर आर.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6359 10.11.94	सौपरनिका, पुनाक्कल रोड, फोर्ट, थिस्वनन्यापुरम ।
85861	असगर सी.पी. ओ.बी. अबूबाकर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6709 11.11.96	'वेनुस' वेनाड, कन्नूर ।
85862	आशा ए. आर. अणुदुरदन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १९६६	6725 16.1.97	चावडीपरमबिल वडीवेसी वार्ड, अलायुडा ।
85863	आशा धामस पी.एस. धामस	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6470 28.4.95	'अभिलाशा' ३६-रोज नगर श्रीकुरियम पो.आ. थिस्वनन्यापुरम ।
85864	आशाकरुणाकान के. करुणाकरन के	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6547 23.11.95	टी.सी. २६/२२७, रेवथी हाउस नं. १६, चेमपक्का नगर बैकरी बंस्तन, थिस्वनन्यापुरम ।
85865	अस्तीनर एम.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6399 19.12.94	मदाथिल हाउस, वालापुरम पो.आ. पुलामनयोल, मलापुरम ।
85866	अवस्थी एम.पी. जर्नयनन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १९६५	6493 25.8.95	मदाथिल पुयेन वीडु कोट्टाक्कम, पेरिनाड पो.आ. कोल्लम जिला त्रिवेन्द्रम ।
85867	अथमाश्री एस. पी.एन. सहदेवन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6462 27.4.95	इलमपलाविल हाउस, मुट्टाक्कावु नेदुम्पाना पो. आ. कोल्लम ।
85868	औन एन.वी. एम.टी. विष्णु नाम्बीसन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6313 28.4.94	"श्रीलथा" कुरुपरवु पो.आ. जिला कन्नूर ।

85869	बबिया पी. सुन्दन पी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६४	6346 26.7.94	कुन्दकुलानगरा हाउस, पो.आ. वेल्लीपरम्बा, कोझिकोड ।
85870	बाबू राज ऐलर पी. वासुदेवन नायडूथीरी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6490 25.8.95	पेसर इल्लम कन्नीपरम्बा पो.आ. मादूर (वाया) कोझिकोड ।
85871	बाबुकृष्णन जी.के.जी. आनन्दन नाथियार के.सी.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६६	6613 3.5.96	वेनापील हाउस, पनायुला पो.आ. (वाया) एम.एम. बाजार, कन्नूर ।
85872	बीना कुमारी एस. सीया लक्ष्मी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	6564 24.11.95	आनन्द विहार, मुंडाक्कल मिडल कोल्लम, थिलवनथापुरम ।
85873	बीना जी.के. वी. केसवन नायडूथीरी	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मोडे.वि.वि., चेन्नई १९६६	6689 16.8.96	'पंचवटी' पो.आ.शेरपुरम, (वाया) आनन्दाश्रमम, कसारगोड ।
85874	बेथिन सिंह जी. गोविन्दा हरिसिंह	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6426 31.12.94	गोविन्दा पयमम, कराविला पो.आ. (वाया) दबाकादु, कोल्लम ।
85875	भारयी के. कुन्दीरामण	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६५	6521 11.10.95	मुराली निवास, ममियूर, मुल्लयूर पो.आ. त्रिपुर ।
85876	बिजी जोहन पी. जोहन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6468 28.4.95	"संतोषी भवन" मुलावना, कुन्दा, कोल्लम ।
85877	बिजीमोल एम.एम. वाई. मजीद कुंजु	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6554 24.11.95	बिजी डाले वडकोविला पो.आ., कोल्ला ।

85878	बिन्दु एम. पी.एन.नमोधन नायर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १९९६	6656 24.5.96	श्रीरामोम, पुलियानुर पो.आ. कोटायम ।
85879	बिन्दु एन्ती जोस जोस जोसफ	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९५	6522 11.10.95	झामसुल्थली हाउस पो.आ. कारा, कोटुगल्लु, धरिसूर ।
85880	बिन्दु सी.आर. सी.आर. रामकृष्णन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९९६	6662 25.5.96	चन्नसीरिल, पल्लीपुरम पो.आ. चेरथला, अलापुझा ।
85881	बिन्दु जी. नायर गोपीनाथन नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९५	6560 24.11.95	ऐश्वर्या वडाकोडे कुरा पो.आ. कोटाराकारा ।
85882	बिन्दु जोस सी. सी.आर. जोस	बी.ए.एम.एस. एम्.जी. वि.वि., कोटायम १९९६	6650 24.5.96	चिटीलापुल्लि हाउस, पुरनादुस्कारा पो.आ., धरिसूर ।
85883	बिन्दु के. करुणाकरण पी.एस.	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १९९४	6442 18.3.95	डोर नं.सी XXV/1/737 एस.डी.कन्वेन्ट रोड कोनथुस्की, थेवरा कोची जिला एनकुलम ।
85884	बिन्दु के. एम.पी. करुणाकरण	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १९९६	6646 24.5.96	विथिरा, एम.जी. रोड, नेम्पारा, पलक्कड ।
85885	बिन्दु के.के. केसवा पिल्लई आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९९४	6382 19.12.94	माना निवास, साउथ मनकुडी पुल्लिकानाक्कु पो.आ. कायम्कुलम वाया, अलेप्पे ।
85886	बिन्दु एन. लाल जे.एम. लाल	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९९५	6469 28.4.95	“लैला मजिल” मंगलापौरम, थोनाक्कल पो.आ. थिस्वनथापुरम ।

85887	बिन्दु पी.आर. पी.एस. रमण	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6638 14.5.96	परामर्शित हाउस पन्थालूर, नेल्लयी पो.आ. थरिसूर ।
85888	बिन्दु पी.एस. के.एस. सुकुमारन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6317 28.4.94	लैला सदानम कोयुलम पो.आ., रानी, जिला पथनमट्टा ।
85889	बिन्दु वी. के. यशोधरन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6735 22.1.97	कंडलपील हाउस आडिनाडु साउथ, कोट्टीलकडवु पो.आ., करुणापल्ली, जिला कोल्लम ।
85890	बिन्दुमोत सी.पी. सी.के. पंकाजकान नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्नई १६६५	6495 31.8.95	चेस्वल्लील मारनाट्टुपल्ली पो.आ. कोट्टायम ।
85891	बिनोद सिडनी सिडनी सैमुल	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६४	6409 31.12.94	“सिडनी” ३१/१४६१, जवाहर रोड, वट्टीला, कोवी ।
85892	बिनोय डी. दास देवदासन जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6385 19.12.94	“वर्षा” पो.आ. पट्टाम्बी पलक्कड ।
85893	बिन्दु के.एस. सिवरामपिल्लई एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6546 23.11.95	कृष्णागिरी, वेट्टुरोड कनीयापुरम पो.आ., थिरुवनन्थापुरम ।
85894	चन्द्र लेखा ए. आनन्दा भाई अम्मा	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6353 5.9.94	टी.सी.३६/७०७, सुदर्शन पेतमथली, क्ल्लाकडवु पो.आ. जिला थिरुवनन्थापुरम ।
85895	चन्द्रसेखरन कर्था के.एन. आर.आर.कुञ्जुनी कर्था	बी.ए.एम. केरल वि.वि. १६६०	6417 31.12.94	श्री पूरनाथरायेसी पजवन्नोर, थरिसूर ।

85896	चन्डी जॉर्ज के.सी. जॉर्ज	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6740 7.2.97	कनियमपाडी, फैक्ट्री वार्ड अलप्पुजहा, जिला अलाप्पुडा ।
85897	विद्यबरा बाबू एम. सी. मुथमपेरुमल पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६७	6743 7.2.97	मेले वीडु, निकट श्री मुथरामन कोईल, नेडुमगाड पो.आ. त्रिवेन्द्रम ।
85898	विद्यरा एस.बी. ससिसेखरन नायर के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6451 26.4.95	लाली निवास, कोट्टुकल पो.आ. बलरामपुर (वाया) थिस्वनन्यापुरम ।
85899	विज्रा दास के. सथ्यदास	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6693 19.9.96	'सथ्यालायम' नजकानल, कृष्णापुरम पो.आ., ओविरा, जिला अलाप्पुडा ।
85900	दारली जेम्स के. के.आर. जेम्स	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6318 28.4.94	कोचिन हाउस वाडकल, अलप्पुजहा, जिला अलाप्पुडा ।
85901	दीपा चन्द्रन सी.के. चन्द्रसेखरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6713 23.11.96	'दीपास' कलब हिल मनन्थवाडी पो.आ. वायनाड ।
85902	दीपा जॉर्ज टी.के. जॉर्ज	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6418 31.12.94	थेरुवथ दीपम थाय सिंह रोड, पेट्टाह पो.आ. थिस्वनन्यापुरम ।
85903	दीपा के.सी. ए.के. कृष्णा दास	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6684 6.8.96	'कोरिय' पो.आ. मुन्दपुरम्बा, मालापुरम ।
85904	दीपा पी.एस. ए. पौनप्पन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6496 31.8.95	कनैश कोटेज वडा-कोविला पो.आ. कोल्लम ।

85905	दीपा एस. सदासिवन पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6475 28.4.95	दीपा भवन, वट्टामोन, मयरा पो.आ. पुनलुर, जिला कोल्लम ।
85906	दीपा वी. विश्वनाथन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6669 25.5.96	आमबाडी, एलई पो.आ., जिला कोटायम ।
85907	दीपा विजयन आर. जी. विजयन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6688 16.8.96	लक्ष्मी भवन, मेयला कोडलुमल्लूर वाया अंचलाम, जिला थरिसूर ।
85908	दीप्ति जे.सी. के. जयदेवादास	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6596 26.2.96	रविमंगलम, मारु साउथ अलुपकाडु पो.आ.
85909	दीप्ति टी.आर. टी.एन. रामाचन्द्र पाणिकर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6739 7.2.97	धोणील वेस्ट हाउस थोडुपुजहा ईस्ट पो.आ., जिला इडुक्की ।
85910	देवराजन एस. कृष्ण	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6535 21.10.95	किन्नक्के कलाप्पाक्कल चिट्टर, पुष्परियाराम पो.आ. थोडुपुजहा, इडुक्की ।
85911	देवी प्रसाद पी. संवरण पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6531 21.10.95	पूलाकुशी हाउस किन्नक्कोथ पो.आ. कोडुवल्ली कोन्निकोड ।
85912	दिव्य रविन्द्रन एन. रविन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6601 3.5.96	टी.सी. ६/२६४६, 'श्री दिव्यम एतनकोनम गार्डनस, वेल्तायमबलाम, त्रिवेन्द्रम ।
85913	दुशनथन वी. वासुदेवन पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6327 29.4.94	मदाथिलशिकाथु वीडु कुम्मल पो.आ. कडाक्कल (वाया) कोल्लम ।

85914	जी.पी. सिंघी के.पी. पुरुषोत्तम नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6555 24.11.95	'औषधि फोर्ट (वेस्ट नाई) थिरुवनन्थापुरम ।
85915	गण्डूर के. अली के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6375 5.12.94	कोरोय हाउस, चेन्नैपुर पो.आ. वङ्गकड जिला मालापुरम ।
85916	गंगा बी.एस. एन. सोमन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6478 28.4.95	"श्रीभवनम्" पुथियाविला साउथ पेट्टोली मार्केट पो.आ. अलायुझा ।
85917	गंगा डी.एस. के.के. देवराजन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6423 31.12.94	थिरुमुट्टम, अगस्थियाकोडु, अंवल पो.आ., जिला कोल्लम ।
85918	गंगा के. इन्द्रनाथन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6387 19.12.94	कनकश हाउस पलाटुकुन्ना, ओलुर पो.आ. थरिसूर ।
85919	गीता सुकुमारन के.आर. सुकुमारन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6319 28.4.94	कार्थिका भवन कोट्टाक्काकोम, पेरिनाड पो.आ. कोल्लम ।
85920	गीथा भासी ए. भास्करन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६४	6722 2.1.97	'गीथालायम' करम्कोडे पो.आ. जिला कोल्लम ।
85921	गीथा भास्कर आर.बी. जी. भास्करा पिन्लई	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6315 28.4.94	आर.बी. कोटेज, महादेवेश्वरम किलिमनूर, थिरुवनन्थापुरम ।
85922	गीथा के. कोचुकुंजु सी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6457 27.4.95	पुथेन वीडु, मुस्क्रीनगारा कल्लायूर पो.आ. वर्कला, थिरुवनन्थापुरम ।

85923	गीथा कुमारी ए.एस. एस. सवासिवन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६४	6307 28.4.94	श्री विहार, टी.सी. ७/१०३१, मरुथनकुडो कंजीयामपारा पो.आ, थिरुवनन्थापुरम ।
85924	गीथा मैरी थोमस के.सी. थोमस	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६५	6467 27.4.95	टी.सी. xi/1740&1 चराचिरा कौदियर पो.आ जिला, त्रिवेन्द्रम ।
85925	गीथा आर.के. टी. केसवा पिथरोडी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6678 15.7.96	प्रदमा विहार थयमकुलानगारा चेरुपो पो.आ. थरिसूर ।
85926	गीथा वी.पी. गोविन्दन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6377 5.12.94	प्रदाथिल हाउस पो.आ. पथायमकुन्नु वाया थलासेरी, जिला कन्नूर ।
85927	गीथाकृष्णन जी. पी.एन. गोपालाकृष्णा मेल्नट्ट	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६५	6550 23.11.95	'संगथा' गुडावन्मुल पूजापुरा पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
85928	गणेश के.सी. प्रभाकरन के.सी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6432 4.1.95	'प्रभा निवास' पो.आ. नहनगट्टीरी वाया पट्टाप्पी, पलक्कड ।
85929	जोर्ज जोसफ जोसफ सेबस्टीयन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १९६४	6413 31.12.94	मेनचेरी हाउस मंजनाकड रोड, नासकल पो.आ. कोचीन ।
85930	जोर्ज पी. पोलोसा पी.सी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मंडि.वि.वि., चेन्नई १९६५	6585 12.1.95	परथुवयलिल, कौडिल्लम पो.आ. पेरुम्बलूर वाया करुणगाफल्ली, कोल्लम ।
85931	जोर्ज टी.एल. टी.एल. लेओन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६५	6540 22.1.95	थनिकल कोडनकादथ पो.आ. मुन्दूर, थरिसूर ।

85932	गिर्बा थोमस थोमस जोहन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6449 26.4.95	'प्रसाथ' आनन्दपल्ली पो.आ., अदूर, जिला पाथनमडीट्टा ।
85933	गिर्मी जोहन पी. जोहन जी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6372 5.12.94	पदमीलाथिल हाउस पुन्नापरा पो.आ. अलाप्पुडा ।
85934	गिगीमोल पी. डी. पप्पाचन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6641 14.5.96	इडुथुराक्कल हाउस मुलमकुन्नाथुकावु, त्रिवूर ।
85935	गिल्ल ज्योथि आर.एन जी. नेसमोनी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6492 25.8.95	टी.सी./१३/५२७, के.वी.५३, कलाविहार लेन, कुन्नुक्की पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
85936	गिरिश कृष्णन टी. ए. कृष्णकुटी नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६५	6691 19.9.96	थेटोथ हाउस, पो.आ. पूप्पथी (वाया) पोथ्या, थरिसूर ।
85937	गिरिश कुमार बी. के. भारतन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटयम १६६६	6505 9.10.95	सरामबिक्कल पैलेस पंडालम पो.आ., पाथनमडीट्टा ।
85938	गोविन्दकुट्टी मेनन आर.एस. मेनन ए.जी.एस.	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६५	6370 22.11.94	म.नं. वी/८३८, पैलेस रोड, मट्टनवेरी, कोवी जिला एर्नाकुलम ।
85939	हरीन्द्रन नायर आर. पी. राखन नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6419 31.12.94	'हरि कृष्ण' पेरुमपडुथूर पो.आ. नेयट्टीकारा वाया, थिरुवनन्थापुरम ।
85940	हंरिकुमार जी. के.जी. गोपालकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६५	6568 24.11.95	लक्ष्मी निवास, पो.आ. नेडुमकुन्म कोटयाम ।

85941	हसन ए.पी. पारीथ ए.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6352 5.9.94	अट्टपुथ, उदुबन्नूर पो.आ., थोडुपुझा इदुक्की ।
85942	हेमालथा एन. एन. नीलकन्तन पोर्टी	बी.ए.एम.एस. एम.जी.वि.वि., कोटयम १६६६	6716 23.11.96	'उपासना' पंडासम, पाथनमडीट्टा ।
85943	हेनेथलाल डी.एल. विवाकरण एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6431 4.1.95	लाल भवन, पर्याक्कुझी ओचीरा पो.आ., कोल्लम ।
85944	इन्दिरा पी.वी. अध्युथा वरियर के.वी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6321 29.4.94	पुथियेय्य वरियम थचिनगनादम पो.आ., पट्टीकड (वाथा) मालापुम ।
85945	इन्दू के. पी. कृष्णकुट्टी नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	6621 3.5.96	कृष्णेन्दु, टी.सी. २८/१०४५, श्रीकन्नेश्वरम, फोर्ट पो.आ., थिरुवनन्थापुरम ।
85946	इन्दू एस.आर. एन. सोमन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6314 28.4.94	'श्रीधला' कोक्कथामंगलम पो.आ., चेथला, जिला अलापुझा ।
85947	इन्दू वी. एन. अप्पुकुट्टन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6474 28.4.95	पल्लीयडिल हाउस कलानागरा भगोम चावरा पो.आ. कोल्लम ।
85948	इन्दू वासुदेवन एम. वासुदेवन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6450 26.4.95	'सन्ध्या रागम' आश्रम वेस्ट, कोल्लम ।
85949	इन्दूलाल यू. पी.एन. उन्नीयप्पन मूथयु	बी.ए.एम.एस. भरथियार वि.वि., कोयम्बटूर १६६३	6335 23.6.94	ब्रह्मा विहार मन्नासाला पो.आ., अलापुझा ।

85950	इवी थोमस टी.बी. थोमस	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६४	6366 22.11.94	अन्नीवीटील ऊरामना पो.आ., मुवट्टुजहा (वाया) एर्नकुलम ।
85951	जएदुल्लिना एम. पोल मार्टिन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6558 9.10.95	अचिला मैशन मारुथडी पो.आ. कोल्लम ।
85952	जगदीश कुमार के.पी. एम.पी. बालाकृष्णा नरार	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टयम १६६४	6412 31.12.94	'सक्ते' अलीयुर पो.आ. जिला कोन्निकोड ।
85953	जयमोन टी. जार्ज टी.बी. वरयेस	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टयम १६६५	6498 9.10.95	थोट्टुपुरम थजुवकुन्नु पो.आ. एर्नकुलम ।
85954	जैन ई.बी. ई.के. विश्वम्बर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टयम १६६६	6595 26.2.96	इट्टुनागप्पाडी हाउस क्लाडी पो.आ., जिला एर्नकुलम ।
85955	जेम्स सिरिक के.जे. कुलदिल्ला सिरिक	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6566 24.11.95	कनियारकय रामापुरम पो.आ., कोट्टयम ।
85956	जसीला टी.बी. टी.के. बुखारी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6565 24.11.95	धामरास्सेरी हाउस इदप्पल्ली नोर्थ पो.आ. कोची, एर्नकुलम ।
85957	जशी दिनाकरन के. दिनाकरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6615 3.5.96	करीपरम्बा, कुट्टीक्कल्ले पो.आ. तल्लिपरम्बा, कन्नूर ।
85958	जया मोहन पी.डी. मोहनन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टयम १६६६	6653 24.5.96	'सरोज साउथ फोर्ट मल्लिकारा, अलापुझा ।

85959	जयचन्द्रन एन एन इन्दिरा	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6736 22.1.97	नटदुवल्ली हाउस, किङ्गुथनी, पो.आ. थनीसेरी, थरिसूर ।
85960	जयादत्तन पी. सुकुमारन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6545 23.11.95	पुलाक्कल हाउस कुडलाम्बेरी पो.आ., पलक्कट ।
85961	जयगोपालन के.जी. गोपालकृष्णन के.पी.	१६६५ बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6632 14.5.96	कोलाथट कलाक्कल हाउस, पौनोर पो.आ. वाया परापर, थरिसूर ।
85962	जयकुमारी टी. धनराम	बी.ए.एम.एस. एम.जी.वि.वि., कोटायम १६६५	6501 9.10.95	विजय भवनम्, कोटायिला, मनमपुत्रहा पो.आ. कटपपनाट्टु एस. कुन्नाथूर, कोल्लम ।
85963	जयलक्ष्मी एम पी. मधु (जयन नायर)	१६६५ बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	6549 23.11.95	"स्वाधी", टी.सी. 11/3038 गट्टोम पो.आ., थिस्वनन्थापुरम ।
85964	जयलक्ष्मी एल भास्करन नायर वी.आर.	१६६५ बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि.	26.4.95	पुलियूरवाडु चोंग्यकोन्नो पो.आ. थिस्वनन्थापुरम ।
85965	जयन डी. के. दामोदरन	१६६५ बी.ए.एम.एस. एम.जी.वि.वि., कोटायम १६६५	6502 9.10.95	मल्लायु धेक्काथोल इरु साउथ क्रोकिड पो.आ. अलापुझा ।
85966	जयन एम.एन वासुदेवन नाम्बूदिरि एम.एन.	१६६५ बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६४	6357 13.9.94	मेलै नरिण्टा मना, पो.आ. करल मना वाया वेरुपुलेम्बेरी, पलवाट ।
85967	जयप्रकाश एल.बी. डी. बहलायन	१६६५ बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	6640 14.5.96	"अम्भगम" अयोम्भेपारा पो.आ. (वाया) पोथेउकोडे, थिन्चनन्थापुरम ।

85968	जयरीना बी. जी. भास्करन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6649 24.5.96	उया निवास, कलाककोट्टु पो.आ. भृथाकुलन, कोल्लम ।
85969	जयश्री ए. टी.पी. बालाकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6466 27.4.95	आनन्दा भवन इन्स्टीट्यूट पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
85970	जयश्री एम.एस. एस. नारायणा पिल्लई	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6556 24.11.95	टी.सी. ४/२२४१, कोयुमारक्कल कुलमकोनम, कौदियार पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
85971	जयश्री पी. ए.वी. रामनाथन नायर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6667 25.5.96	गोविन्दापुरथु भवनम सी.एम.सी. VII निद्रुम्बराकाडु वेरयला पो.आ. अलापुझा ।
85972	जेनसन टी.जे. टी.बी. जैक्ब	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६५	6510 9.10.95	थोल्ट हाउस, कन्दक्काडावु पो.आ. कोवी त्रिला एनर्क्लम ।
85973	जेरोम वी. कुरियन वी.एम. कुरियन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६५	6499 9.10.95	वालमपरमपल हाउस विल्लुनी पो.आ. अपूकारो, कोटायम ।
85974	जिगीशा पी.पी. पी.जे. एरुसोयस नाम्बूद्री	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6629 14.5.96	पैक्काट्टुमना किङ्गपीलीकारा पो.आ. (वाया) कट्टूर, थरिसूर ।
85975	जिगीमोल आर. के.वी. राजप्पन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6648 24.5.96	राज निवास, सी.एम.सी. १६ चेथला पो.आ. अलापुझा ।
85976	जिजी जोस सी.बी. जोसफ	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६३	6311 28.4.94	वीरमकुडी, इलमलुम, कूराली, जिला कोटायम ।

85977	जोशी मलियाकेल एम.ए. इयोनी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6533 21.10.95	मलियाकेल हाउस पो.आ. पुणेन पीडिका, धरिसूर ।
85978	जोशी के.वी. के.एम. वासुदेवन	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६५	6581 12.1.95	कुनीकुलय हाउस पेरिनजनम पो.आ., धरिसूर ।
85979	जुल्लासनी पी. श्रीधरन टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6416 31.12.94	धेक्केनएमदाथिल पो.आ.पिनारयी (वाया) थलासैरी, जिला कन्नूर ।
85980	जुली माईकल सी.सी. माईकल	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6635 14.5.96	चिरियनकनदाथ हाउस थलोर पो.आ. धरिसूर ।
85981	ज्योधि के. पी. उनीकुञ्ज मेनन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6634 14.5.96	कन्नाथेरी हाउस अरिपुर पो.आ. धरिसूर ।
85982	ज्योधि लक्ष्मी एव.. के.वी. हरिदास	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६४	6439 28.1.95	लक्ष्मी निवास, मुलाकुञ्जहा पो.आ. चेंनगान्नूर, अलापुझा ।
85983	ज्योधि प्रकाश के.एस. के.वी. सथ्यानय	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६४	6448 7.4.95	प्रकाश अस्पताल कॉम्प्लेक्स, एनीकुलम, कोव्वन ।
85984	ज्योधि आर. गंगाधरन जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6456 27.4.95	रेमा सदन, कुडलूर बलरामपुरम पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
85985	ज्योधि एस. एन. सदासिवन नायर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6733 22.1.97	नन्धुपुथेन हाउस किडनान्नूर पो.आ. मेजहुवेली वाया जिला पाथनमट्टेटा ।

85986	कृष्णकुमार आर. रामकृष्ण प्रिन्टर्स	बी.ए.एम.एस. एम.जी.वि.वि., कोटाया 9555	6508 9.10.95	वृन्दावन, चधिया, धामराकुलम पो.आ.।
85987	कृष्ण एन. नारायण एम.पी.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैड.वि.वि., चेन्नई 9555	6541 23.11.95	कार्थिका, सामने टेम्पल पोस्ट पाडो, थरिसूर।
85988	कृष्ण वी.बी. डी.टी. विश्वराम केदार	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैड.वि.वि., चेन्नई 9555	6605 3.5.96	वल्लभपरमवध पाणिकस्सेरी लोकनोवेडरम कोडुनगल्लु, त्रिवूर।
85989	कृष्णकुट्टी के.के. के.वी. कृष्ण	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. 9555	6517 10.10.95	कोडाक्कट्टल हाउस कुलभाषलावु पो.आ. (वाया), मजुवेलो, त्रिवूर।
85990	कृष्ण प्रभा के.पी. प्रभाकरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट 9558	6354 5.9.94	नोययल हाउस कलमान पो.आ. चेरपलावेरी, पलक्कड।
85991	कुन्ददु पो.के. वीरन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. 9555	6519 10.10.95	पुणेन वोट्टल हाउस पो.आ. कोरपु (वाया) कोनडोट्टी, जिला मालपुरम।
85992	कुमुम जोसफ जोसफ पो.टी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट 9558	6403 20.12.94	सामथोट्टाया हाउस कुलमान पो.आ. पामला थिरुवल्लो (वाया) जिला पाथनमट्टा।
85993	लाल के.एम. के. सिथार्थन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैड.वि.वि., चेन्नई 9555	6752 29.3.97	कन्नोली हाउस, इयामुडो पो.आ. थरिसूर।
85994	ललिता भाई एस. कृष्ण पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट 9558	6356 5.9.94	चेन्नन्नथु वीडु मुडामुरी, मन्नापो पो.आ. (वाया) इनाथु, पाथनमट्टा।

85995	ललिता बी. पी. बी. पी. अपभ्रंश व्याकरण	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १९६४	6438 28.1.95	वलिपारमविल हाउस वल्लिकुनु नोर्थ पोस्ट कडलुन्दी नगर वाया तिरुसूर ।
85996	ललिता ओ. ओ. कुमारन व्यदियार	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १९६६	6664 25.5.96	'ओथायोथ' इरुमला पो. आ. ओरक्काट्टेरी, बंगारा ।
85997	लया के. आर. के. बी. राजन	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोटयम १९६५	6506 9.10.95	कंजीराथिन कोटय्याल अरथुवजही पो. आ. अलाप्पुझा ।
85998	लयाकुमारी के. कृष्णन नायर	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १९६४	6332 4.6.94	साई भवन, पुथुवेडिकोनाम धानुवापुरम पो. आ. जिला थिरुवनन्थापुरम ।
85999	लीना बी. के. भास्करन नायर	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोटयम १९६६	6717 23.11.96	'प्रार्थना' थिरुवनगाडु थलास्सेरी-३, कन्नूर ।
86000	लीना थोमस जे. थोमस	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १९६६	6569 24.11.95	थेक्कोविला हाउस अनुपमा नगर, मुट्टुज पो. आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86001	लीना बी. एम. बी. वासुदेवन	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोटयम १९६५	6666 25.5.96	वेबोला माना वेनगनेल्लूर पो. आ. चेलाकारा (वाया) थिरिसूर ।
86002	लेखा बी. के. आर. कृष्णन नायर	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १९६९	6748 7.2.97	रामाविलास पणमकोडे पो. आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86003	सिखा मैथु मैथु पोथेन	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १९६४	6404 20.12.94	इलपुनकय हाउस वेनीक्लाम पो. आ. तिरुवत्ता, जिला पथनमतीट्टा ।

86004	लिजी एस. सिवानन्दन	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १९६४	6380 19.12.94	आन्त्या भवन, धट्टामला पो.आ. कोलम ।
86005	लवली प्रिय ई.जे. मिर्लोकस	बी.ए.एम.एस. एम.जी.वि.वि., कोट्टायम १९६६	6657 24.5.96	इलायमुट्टाल थेम्बेकुट्टु हाउस, पेरुमपानची पो.आ. चंगनाचेरी, कोट्टायम ।
86006	लिजा मेनन गोपीनाथ मेनन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६५	6527 21.10.95	पाणिमट्टी हाउस पम्बुकाग, अन्नालूर पो.आ. चलम्बुडी, धरिसूर ।
86007	मदनचन्द्रन सी.एम. माधवन सी.एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६४	6427 21.95	कैलत्याथामम अम्माकनटकारा अट्ट पो.आ., जिला पाथनमट्टेटा ।
86008	माथवा चन्द्रन बी.एल. स्वनाथा मेनन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६५	6491 25.8.95	'वट्टाथट्ट', टैगोर स्टेट टेसाभिमाती रोड, कन्नूर, कोचा, एर्नाकुलम ।
86009	मधु डी. दिनेसन के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६६	6633 14.5.96	अश्वथेनिगिल, सन्थकुलानगारा, कोलम ।
86010	मधु के.एम. के.वी. मुलीथरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६५	6536 21.10.95	कैलास मन्दिरम कोट्टाक्कल, जिला मालापपुरम ।
86011	मधुसूदनम पी.पी. कुमारन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6430 3.1.95	'पॉलेरी' कदम्बेरी कन्नूर पो.आ. कन्नूर ।
86012	मधु आर. दस रामदास के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6386 19.12.94	'पूणिमा' कल्लनगथ लेन, एम.जी. रोड, धरिसूर ।

86013	मनोहर एन. नरमल अर्मा	बी.ए.ए.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १८८३	6702 11.11.96	द्वारा रंगाराम टी.सी. १६/६२५(२) निकट कृष्णा टेम्पल, कोचर रोड, थिरुवनथापुरम।
86014	मनोजकुमार के.ए. के.के. अहमद वैद्यपन	बी.ए.ए.एस. एम.जी.वि.वि., कोटायम १८८६	6714 23.11.96	कन्यामलपरमबिल हाउस अरुण पो.आ. अलापुझा।
86015	मणि जे.आर. अनार्थन नायर	बी.ए.ए.एस. केरल वि.वि. १८८४	6407 30.12.94	राधाविहार ३/२३, निकट भार एल एल पी एस, अर्टीनाल।
86016	मणिकन्तन के.पी. एम. गंगाधरन नायर	बी.ए.ए.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १८८२	6607 3.5.96	सी.एन.एस. त्रिकुत्तमलयम मेजवाथुर पो.आ., वारा विटला, पलक्कड।
86017	मनोहर बाबू सी.एन. सी. नारायणन वैद्यार	बी.ए.ए.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १८८६	6692 19.9.96	ए.वी. वैद्यशाला रो.वां. रोड, ओट्टोपालम, त्रिना पलक्कड।
86018	मनोज एम. माधवन पिल्लई	बी.ए.ए.एस. एम.जी.वि.वि., कोटायम १८८५	6511 10.10.95	मुन्नमकीट्टु हाउस थन्थोणु पो.आ. कोल्लम।
86019	मनोज विजयन ए.वी. डी. विजयन	बी.ए.ए.एस. केरल वि.वि. १८८५	6561 24.11.95	मट्टेया मंगो, ओम्बोडलकीट्टु हाउस थन्थोणु पो.आ., थिरुवनथापुरम।
86020	मनोजकुमार के. के. कृष्ण	बी.ए.ए.एस. केरल वि.वि. १८८६	6622 3.5.96	कलथोरा हाउस मुन्नमकीट्टु, मेजवाथुर पो.आ. कसारगोड।
86021	मनु दास गोपीदास एन.	बी.ए.ए.एस. केरल वि.वि. १८८५	6485 28.4.95	“पालडी”, कोयल पराथुर पो.आ. कोल्लम।

86022	मार्तिन पी. पाल पी.के. पाल	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटदयम १६६६	6654 24.5.96	परापुल्ली हाउस काडुयास्सेरी पो.आ., थरिसूर ।
86023	मैरी स्मिथा मिलेस के. के.जे. मिलेस	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटदयम १६६६	6668 25.5.96	कोइकारा हाउस, चेम्पकास्सेरी बक्कल, अलवाड, एर्नाकुलम ।
86024	माया बालाकृष्ण बालाकृष्ण एन.एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6460 27.4.95	'चेमिकोज' टी.सी. १८/२३२६ थिलमला, त्रिवेन्द्रम ।
86025	माया गोपीनाथ टी.के. गोपीनाथ	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटदयम १६६६	6727 22.1.97	वलियावीतिल, इय्यनाट्टुकारा पो.आ. (वाया) अलानलूर, जिला पलक्कड ।
86026	माया एम. गोविन्दन नायर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6339 25.7.94	श्री शंकरा उदयनगर पो.आ. हरिपुरम, जिला कन्नूरगोड ।
86027	माया आर. शेनोय रवीन्द्र शेनोय	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6389 19.12.94	मलियाक्कल हाउस पट्टनकौड पो.आ. शेरथल्ले, जिला अत्तीये ।
86028	माया एस. ए.के. श्रीधरन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटदयम १६६६	6729 22.1.97	'श्रीविलास' अम्लागिरी पो.आ. कोटदयम ।
86029	मायादेवी आर. पी.के. चन्द्रशेखरन नायर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटदयम १६६६	6731 22.1.97	मदपुल्ली थुरावूर पो.आ., चेरथल, अलापुझा ।
86030	मायाजा के.एस. के.के. सुरेन्द्रन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6630 14.5.96	कल्लत हाउस, अलूर पो.आ. पट्टोम (वाया) थरिसूर ।

86031	मायका आर. के.के. राजन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मंडि वि.वि., चेन्नई १९६६	6663 25.5.96	'रोशिमा' परिवारपट्टा पो.आ. कक्काट्टील (वाया) कोल्लिकट ।
86032	मीरा डी. के.एम.एस. नम्पूरी	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६६	6611 3.5.96	'रजिनी' जे.एन. रोड पेरिनटलमना पो.आ., मालापुरम ।
86033	मिनी अन्टोनी पी.डी. अन्टोनी	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६६	6700 24.10.96	पोटाक्कल हाउस, मुलिनूर चलाकुडी (वाया) थरिसूर ।
86034	मिनी सी.आर. पी. रविन्द्रनाथ	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटयम १९६६	6507 9.10.95	चैलाक्कल हाउस एलनायम, वाण्टेटी पो.आ. कोयामलम ।
86035	मिनी के.वी. वैलायुधन के.ए.	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६४	6393 19.12.94	कल्लाट्टुल्लापील हाउस पो.आ. आर.वी. पुरम, अदियारा, थरिसूर ।
86036	मिनी मल्ला पी.एस. पपनसावैरु	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६४	6421 31.12.94	टी.सी. ६/७७५, पलावरथेला हाउस, वैल्लायमलम, थिरुवन्यापुरम ।
86037	मिनी एन.आर. पी.जी. नारायणा वर्मा	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६४	6333 18.6.94	द्वारा अनिल वर्मा वडाक्के मलियाक्कल एस.एन. जंक्शन, त्रिपुनिथुरा, एर्नाकुलम ।
86038	मिनी एस. मुलीधर मुलीधरन पिल्लई के.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६५	6483 28.4.95	मुवेर्नाल हाउस, वराविला पो.आ. ववाक्कावु कोल्लम ।
86039	मोहम्मद रफी एम. मोहम्मद सफी ए.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १९६५	6487 7.7.95	शीबा मणिल, आलमकोडे पो.आ. अट्टीयल, त्रिवेन्द्रम ।

86040	मोहम्मद सुलैमान के.के. सदाक़ादुल्ला मौलवी के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिक्ट वि.वि., कालिक्ट १९६६	6704 11.11.96	करीमपाककल हाउस फल्लिकुनु वनडू, मालापुरम ।
86041	मोहम्मदअली पी.के. अहमद पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिक्ट वि.वि., कालिक्ट १९६४	6401 20.12.94	'सेसिस्' पो.आ. करिप्पुर (वाया) कोनडोट्टी, जिला मालापुरम ।
86042	मोहन एन.के. केसवन एन.	बी.ए.एम.एस. कालिक्ट वि.वि., कालिक्ट १९६४	6396 19.12.94	'गीयालायम' मणिसेरी पो.आ. फलकड ।
86043	मोहनदास आर. पी.बी. रामचन्द्रन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६५	6586 12.1.95	'स्वाधी' हाउस, पो.आ. वेस्तीनाजी, फलकड ।
86044	मुहम्मद राजी के.एस. मुहम्मद कुंजु	बी.ए.एम.एस. कालिक्ट वि.वि., कालिक्ट १९६४	6336 19.7.94	मुथाग मंजिल कोडानूर, मदायरा पो.आ. कोल्लम ।
86045	मुहम्मद सफी के.एस. के.के. शमसुद्दीन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6331 17.5.94	रोस्सर'स विल्ला चेम्पन्नूर, पुनलूर पो.आ., जिला कोल्लम ।
86046	मुकेश पी.के. पी.टी. कुमार	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६५	6577 20.10.95	पलासेरी हाउस, पूवायुसेरी पो.आ. अन्नमनाडा, थिरसूर ।
86047	मुरुगा दास आर. आर. रविन्द्रन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १९६५	6659 24.5.96	कृष्णा कृपापुलीकोट्टील हाउस ट्टामंगलम पो.आ. जिला पालघाट ।
86048	ननसम्मा थप्पी थप्पी चाक्को	बी.ए.एम.एस. एम.जी.वि.वि., कोट्टायम १९६४	6334 23.6.94	राजी विल्ला, फल्लिकाचीना पो.आ. पैपड, चंगनचेरी, जिला कोट्टायम ।

86049	नरसिम्ह के. एम. माधवन नाबूदीरीपाद के. एम.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६०	6526 21.10.95	कस्तुरामना, इयविकोडे मालपुरम ।
86050	नारायण एन नरसिम्ह नाबूदीरी	बी. ए. एम. एस. डा. एस. जी. आर. मेडि. वि. वि., केम्पे १६६६	6603 3.5.96	नेल्लीयाकट्टु मना कूयट्टुकुलम, एनकूलम ।
86051	नदीया कामय एस. श्रीकृष्ण जी.	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोटायम १६६६	6645 24.5.96	'श्री सान्धी' ए. एन. पुरम वेस्ट अलापुझा ।
86052	नजर ई. नरसिम्ह कुंजु ए.	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६६	6623 3.5.96	रहीम बिल्डिंग अपाचिपारा थोलीकोडे पो. आ. थिस्वनन्यापुरम ।
86053	निशा मैरी इलेन पी. ई. केल	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६६	6476 28.4.95	पञ्चपुराकल टी. सी. ३/३०६, मुट्टडा, थिस्वनन्यापुरम ।
86054	नीशाद अली टी. पी. मोईन्नुदी	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६५	6520 10.10.95	थयापरमबन हाउस मुन्देनगारा, इन्दवन्ना पो. आ., मालपुरम ।
86055	नीशाद ई. के. पी. पी. मयन	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोटायम १६६६	6658 24.5.96	नरसिम्हा मजिल नीखेली पो. आ. (वाया) निर्मलागिरी, कन्नूर ।
86056	नुजा कस्तुरी के. कस्तुरी	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६५	6464 27.4.95	चेरुप्पुन्ना विन्ना वीडु कुडुनगविता पो. आ., नेय्याट्टीनकारा, त्रिवेन्द्रम ।
86057	पद्मगिरिसन के. संकरन वदियार के.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6705 11.11.96	द्वारा संकरन वदियार के. आयु. इरा पर्वेट निलम्बुर रोड, वन्दूर पो. आ., मालपुरम ।

86058	पदमेखानन के.पी.	बी.ए.एम.एस.	6343	कोडकट्टेरी पुथिया वीडु चलाकोडे पो.आ.
	पदमेखानन नाथियार टी.पी.	कालिकट वि.वि., कालिकट १८८४	25.7.94	पथयन्तुर, कन्नूर ।
86059	पिल्लई राधा नन्दाकुमार	बी.ए.एम.एस.	6445	एच.आई.जी. २३, पूमा नगर सामने ग्राइवेट
	नन्दाकुमार पिल्लई एस.	पूना वि.वि. पुणे १८८३	18.3.95	बस स्टैण्ड अलुवा ।
86060	प्रभा वर्मा एन.के.	बी.ए.एम.एस.	6443	परिमानटयु कोविलाकोम थिरुनाल्लूर पो.आ.
	के.सी. केला वर्मा राजा	कालिकट वि.वि., कालिकट १८८५	18.3.95	शोटल्ला अल्लेपे ।
86061	प्रभू राजन बी.	बी.ए.एम.एस.	6529	अट्टुवायलिल एथेन वीडु पट्टायानम, कोल्लम ।
	भार्गवन के.आर.	कालिकट वि.वि., कालिकट १८८५	21.10.95	
86062	प्रकासन वी.पी.	बी.ए.एम.एस.	6698	वी.पी. हाउस, पो.आ. अझीयूर, कोडिकोड ।
	कुन्हीकान्नन वी.पी.	कालिकट वि.वि., कालिकट १८८६	24.10.96	
86063	प्रकाश टी.एस.	बी.ए.एम.एस.	6342	धेक्केडाय माना (पो.आ.) चेण्णुलास्सेरी, जिला
	संकरन नाबूदिरी	कालिकट वि.वि., कालिकट १८८४	25.7.94	पलक्कड ।
86064	प्रमोद जौ.	बी.ए.एम.एस.	6465	'प्रसादम' मंगड पो.आ. कोल्लम ।
	गोपीकुट्टन नायर पी.	केरल वि.वि. १८८५	27.4.95	
86065	प्रमोद कुमार के.एस.	बी.ए.एम.एस.	6383	कराक्कट हाउस पैरामंलम पो.आ. धरिसूर ।
	संकरन के.	कालिकट वि.वि., कालिकट १८८४	19.12.94	
86066	प्रसाद एम.	बी.ए.एम.एस.	6637	श्री निलायम, वरक्कारा पो.आ. धरिसूर ।
	के.टी. अरविन्दका मेनन	कालिकट वि.वि., कालिकट १८८६	14.5.96	

86067	प्रसाद वी. काम्पथ बी.वी. काम्पथ	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6405 20.12.94	अलुगल हाउस, कवथी मुवट्टुपुजहा मर्किट पो.आ., एर्नकुलम ।
86068	प्रसन्नाकुमारी बी. एस. नाम्	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6480 28.4.95	'प्रसन्ना सदनम' पुरावरकोनम काराकुलम पो.आ. त्रिवेन्द्रम ।
86069	प्रसान्ध के. एस.के. पदनभा पणिक्कर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6340 25.7.94	कडाकल थजहथ हाउस ईस्ट वजहायूर पो.आ. मालापुरम ।
86070	प्रसोभ ए.आर. एन. राघवन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6455 26.4.95	आनन्दा भवन केलामनूर परिणल्ली (वाया) कोल्लम ।
86071	प्रवीन वी.वी. एस. विदयाधरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6673 25.5.96	टी.सी. २५/१६१४, थम्पानूर वेस्ट थिस्वनन्थापुरम ।
86072	परीथा एस. एन. संकरन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6548 23.11.95	'प्रथिषा' टी.सी. ६/२११४ संकर रोड, सत्यामंगलम, थिस्वनन्थापुरम ।
86073	परीथा टी.के. टी.बी. कुट्टी कृष्णन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6631 14.5.96	इलावथूर हाउस कैप्परम्बु पो.आ., थरिसूर ।
86074	परीथी देवदास वी. वी.के. देवदास	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6573 20.12.95	द्वारा डा. पी.एच. शाजी पूर्वथुमकडाविल हाउस पन्नगड, जिला थरिसूर ।
86075	प्रीया के.एस. एस. कोट्टुकृष्णन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6741 7.2.97	प्रिया भवन कोल्लायील पो.आ. मदथा (वाया) जिला थिस्वनन्थापुरम ।

86076	प्रेमाचन्द्रन के. के. माधवन	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6696 24.10.96	'गोथाभवन' पो. आ. मणिकोय, कन्हनगड, कसारगोड ।
86077	प्रिन्स अलेक्स अलेक्जेंडर मैथ्यू	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६४	6312 28.4.94	संकराथिल, किजखक्कुरम पो. आ., कुन्नाशा, जिला पाथनमट्टेट्टा ।
86078	प्रिया एस. ए. के. श्रीधरन	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोट्टायम १६६६	6730 22.1.97	श्रीविलास, अमलागिरी पो. आ., कोट्टायम ।
86079	प्रिया सेधर एल. वी. राजासेखरन नायर	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६६	6672 25.5.96	"नारायनीयम" इलांजी लेन, पुलिमट्टु, थिरुवनन्थापुरम ।
86080	पुष्पा रानी ए. आर. जी. अणुदुल्ल	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६५	6563 24.11.95	शिने विल्ला, कुट्टीयानी पन्थलाकोड पो. आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86081	रागेश डी. चीरन देवी चीरन	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोट्टायम १६६४	6408 31.12.94	चीरन'स हाउस मैन रोड, चल्लीसेरी पो. आ. पलक्कड ।
86082	राघवन पी. के. सी. के. कृष्ण	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६७	6742 7.2.97	चिट्टीलाक्कट्टु कोट्टुमुजहा पो. आ. कोयामंगलम वाया एनीकल्लम ।
86083	राघवन आर. के. रामचन्द्र पाणिकर	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६७	6746 7.2.97	'रामानिलायम' केसवन नायर लेन मूजपुरा, त्रिवेन्द्रम ।
86084	रघु ए. टी. पी. कृष्णा भिषादी	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६४	6348 26.7.94	रत्ना निवास, रेलवे ब्रिज रोड, चलाकुडी ।

86085	रहमथुल्ला पी. अलीकुट्टी पी.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6701 25.10.96	'खुसुनिवास' निक्ट ए. डी. सी. कोट्टाक्ल पो. आ. इडारिकोडे, जिला मलानपुरम ।
86086	राज नारायण सी. एन. सी. नारायणन चैदसर	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १६६६	6588 12.1.95	आयं वैद्योदयम वैद्यशाला टी. बी. रोड, औदयप्पसाम, एलक्कट्ट
86087	राजा हरिप्रसाद ए. टी. के. अच्युतन	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6683 6.8.96	जयहरी अष्टमोदिरा पो. आ., धरिसूर ।
86088	राजन पी. डी. एम. डेविड	बी. ए. एम. एस. केरल वि. वि. १६६७	6726 21.1.97	पल्लीविला वीडु, कुरुमानूर पाससला पो. आ. जिला थिरुवनन्थापुरम ।
86089	रजनी ए. नायर एन. अय्यप्पन नायर	बी. ए. एम. एस. केरल वि. वि. १६६४	6309 28.4.94	'रेवर्था' करियम श्रीकरियम पो. आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86090	राजेश डी. के. दिवाकरन	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १६६६	6660 24.5.96	लक्ष्मी निवास कुमारमंगलम पो. आ., थोडुपुझा ।
86091	राजेश एन. एस. एन. के. श्रीधरन	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १६६६	6661 25.5.96	नेडुमपरमबिल हाउस अय्यनकावु टेम्पल रोड, इरिन्जलाकुडा पो. आ. धरिसूर ।
86092	राजेशकुमार के. के. पी. नारायणन नाम्बियार	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6609 3.5.96	'नारायणन निवास' कोट्टायम पोयिल पो. आ. पथयाक्कु (वाया), केन्नूर ।
86093	राजीथा सेखर एस. जी. राजासेखरा पाणिकर	बी. ए. एम. एस. केरल वि. वि. १६६४	6320 28.4.94	कोईकोलील हाउस नंगीयारकुलानगारा पो. आ., अलाप्पुझा ।

86094	राजकुमार बी. एन. भास्करन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6325 29.4.94	राजेन्द्र भवन इण्डुकोने पो.आ., जिला कोल्लम ।
86095	रघुश कुमार के. के. अश्वथन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि. वेल्ह १९६६	6690 17.9.96	सिवानंदा मन्दिर कुरुभाथुर पो.आ. करीमबम (वाथा) कन्नूर ।
86096	रविकुमार के. राघवन दी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6397 19.12.94	'रत्नालयम' पंडामंगलम, कोट्टाक्कल, जिला मालापुरम ।
86097	रविकुमार जी के. गोविन्दकुलप	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १९६४	6503 9.10.95	कल्लीयनीसेरील इलीपकुलम पो.आ., रत्तीक्कल कायमकुलम, अलापुझा ।
86098	रविन्द्र टी.वी. सचिदानन्दन ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6384 19.12.94	इडक्कुनी वीरयम चण्णहुर पो.आ. थरिसूर ।
86099	रजिया के.बी. के.के.बाबू	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6436 28.1.95	कोलेमट्टुपरम्बिल हाउस पो.आ. कट्टूर, जिला थरिसूर ।
86100	रीया एस.आर. एन. सिवादासन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर १९६४	6571 20.12.95	कैथेरी वीडु पो.आ. मुन्डलौर, कन्नूर ।
86101	रघुनाथन ए.के. कोचुकुनु एन.	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १९६४	6338 25.7.94	अलपुजहा वीडु चिन्नगोली, कर्णिकप्पल्ली, अल्लोये ।
86102	रानी मैथ्यू आर.वी. मैथ्यू	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६६	6707 11.11.96	४०/१२४६, रोब डाले देवागिरी, कोझिकोडे- ८, कोझिकोड ।

86103	रेजी थोमस ई.एम. थोमस	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6598 26.2.96	महुक्कायल हाउस, कोझा पो.आ. कुरविलानाड, कोटायम ।
86104	रेजीथ ए. आनन्दन एस.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6482 28.4.95	'अधीरा' थडुथला कोटायम पो.आ., कोल्लम ।
86105	रेजुनाथ ई.के. ई.के. विजयन वैदयार	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	6755 29.3.97	इराट्टपालीयाली कलिक्कुलायिंगल, कटमाझीपुरम पलक्कड ।
86106	रेखा एम.वी. एम.एन. विजयन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6376 5.12.94	मुन्डाक्कल हाउस इलमाक्कारा पो.आ. कोची, एनक्वलम ।
86107	रेखा आर. एम.आर. रमन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6446 18.3.95	'प्रथिमा' ओल्लुकारा, जिला धरिसूर ।
86108	रेखा वर्मा वी. जी. केला वर्मा	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६३	6305 28.4.94	'लक्ष्मी' मुस्वयूरुप्पन कालेज पो.आ., कोझिकोड ।
86109	रमादेवी ए.बी. धनकप्पन पिल्लई वी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6472 28.4.95	द्वारा डा. बी.एस. प्रदीप कुमार पद्ममल्लील वीडु धामराकुडी कोट्टरकारा, जिला कोल्लम ।
86110	रेमलथु बीबी पी.ओ. मुहम्मद राबथेर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6437 28.1.95	वलिवाविला एथेन वीडु थोन्नाल्लूर, पन्डलम पो.आ. जिला पाथंममठीट्टा ।
86111	रोशन दिवान एम. सैयद दिवान	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6720 23.11.96	'ब्लू माउण्ट' कृष्णापुरम पो.आ. कायमकुलम, अलापुझा ।

86112	सविधा पी. कुन्हालन पी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6351 5.9.94	'संगीथ' पो.आ. इन्तर्नेट, (वाया) इलायुर, जिला कोझिकोड ।
86113	सचिधराय टी.पी. एन.के. एदमानभान	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६५	6590 16.2.96	शुस्थी पल्लील हाउस कडावनथरा पो.आ., कोची, एर्नकुलम ।
86114	सजनकुमार एस. सोमाराजन एस.	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6721 23.11.96	वसन्धालायम इलमपाझन्नूर पो.आ. चदयामंगलम (वाया) कोल्लम ।
86115	साजी प्रसाद जी. शलमुषु प्रसाद	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेन्नई १६६७	6754 29.3.97	गंगा भवन, कूनायल एस. परावूर पो.आ., कोल्लम ।
86116	साजीकुमार ई.ए. ई. अय्यप्पन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6543 23.11.95	सन्ध्या मालार, टी.सी. १६/१८४२-३, केसवन नायर रोड, पुजपुरा, थिरुवनन्थापुरम ।
86117	सज्यकुमार आर. राजप्पन बी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6458 27.4.95	एस.एन. विलासम, पुलिमुड जंक्शन, मुन्डाक्कल, कोल्लम ।
86118	साबू एन. राजन एन. नहराजन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6422 31.12.94	नारायण भवन अट्टारीकम, ओमाल्लूर पो.आ., जिला पाथनमठिट्टा ।
86119	सल्ली पौल यू.बी. पौल	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६५	6703 11.11.96	संस्कृतिल हाउस निकट सरकारी अस्पताल नराक्कल पो.आ., एर्नकुलम ।
86120	साम जोर्ज के.बी. जोर्ज	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेन्नई १६६६	6681 6.8.96	किन्नक्के वीडु ओडनवट्टोम पो.आ. कोट्टरकारा कोल्लम ।

86121	सन्दीप पी. पी.के. पुरुषोत्तम	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6712 11.11.96	'सरिता निवास' पो.आ. चोव्वा, जिला कन्नूर ।
86122	सन्ध्या विजयनाथन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6344 25.7.94	'कुसुम' निकट लाईन्स स्कूल कोयन, पलक्कड ।
86123	संगीया सचिदानन्द के. सचिदानन्द पई	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६५	6504 9.10.95	सोर्ट लैन्ड, ओल्ड थिरुभवा, अलाप्पुझा, थिरुवनन्थापुरम ।
86124	सनिल कुमार एम.एम. एन. बालन वैद्यार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6514 10.10.95	मनथनाथ मीथल पेरम्बरा पो.आ., कोझिकोड ।
86125	संकरन नाबूदीरी वी.एम. माधवन नाबूदीरी वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6381 19.12.94	विष्णुपुरम चेस्मूला, करिवेत्तूर पो.आ., कन्नूर ।
86126	सन्धोष कुमार के.एस. कुलजन के.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6626 4.5.96	श्रीकुमार मन्दिरम मंगलाशुकोनम कट्टावल कुडी पो.आ. बलरामपुरम ।
86127	सन्धोष के.एस. के.एस. सम्पदेवन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6534 21.10.95	कोडापुल्ली हाउस पो.आ. मिडिक्कुपुरी पेरिनोदुक्कारा, त्रिवूर ।
86128	सरीना के. पाशा पी. कमल पाशा	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6594 19.2.96	पठानयथ हाउस इडाथला पो.आ. अलुवा, जिला एर्नाकुलम ।
86129	सरीना एन. अहमद कुट्टी एन.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6355 5.9.94	पलक्कुडीथील हाउस पो.आ. मुट्टनवेरी (वाया) नरिक्कुनी, कोझिकोड ।

86130	सथीदेवी पी. एस. पद्मानभा पाणिकर एस.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६४	५428 2.1.95	'श्री गंगा' पदमिलन पो. आ. नूरानट, अल्लोप ।
86131	सथीश कुमार सी. के. वासुदेवन नाबियार	बी. ए. एम. एस. मद्रास वि. वि., मद्रास १६६३	6682 6.8.96	'प्रसन्धी, पुथानपल्ली पो. आ. गुल्लयूर, धरिसूर ।
86132	सथीसन के. माधवन के.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६४	6374 5.12.94	अन्धूर हाउस मवीचेरी, पो. आ. पुथुक्कनूर, अन्धूर ।
86133	सथ्यनारायणन के. करुणाकरन पिल्लई एस.	बी. ए. एम. एस. मद्रास वि. वि., मद्रास १६६४	6371 5.12.94	श्री राम मन्दिर मुलनकडाकोम, कोल्लम ।
86134	सथ्यनारायणन पी. के. पी. के. भास्करन वैद्यार	बी. ए. एम. एस. भरथियार वि. वि., कोयंबटूर १६६३	6642 14.5.96	लक्ष्मी निवास 'चेथाल्लूर' पो. आ. मन्नरगाट, अन्धूर ।
86135	सवी टी. एल. टी. पी. लोथन	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १६६५	6544 23.11.95	थनक्काडन हाउस, मुलायन्मथुक्कट्टु पो. आ. धरिसूर ।
86136	सेबस्टियन फ्रांसिस के. के. जे. फ्रांसिस	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १६६५	6751 29.3.97	विजयकुट्टे हाउस वेरालायम, कुन्मकुलम, जिला धरिसूर ।
86137	सीमा वासुदेवन एस. वासुदेवन	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६५	6551 24.11.95	ऊराकय हाउस पुथुक्कारा, अथुनथोले, धरिसूर ।
86138	सेधुमाधवन पी. रमण पी.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६४	6345 25.7.94	पेरुञ्जीपरमबिल हाउस पो. आ. अडवानन्द (वाया) तिरुवर, मालापुरम ।

86139	शाहीना पी. के. के. के. अब्बाकर	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6686 6.8.96	पराक्रमबलाथ हाउस इलेट्टील पो. आ. कोडुवल्ली (वाया) कोडिकोड ।
86140	शाहीराम कन्नोथ वरापरय के. ई. मुकुन्दन	बी. ए. एम. एस. मद्रास वि. वि., मद्रास १६६४	6414 31.12.94	मौमानिवास, पो. आ. पुक्कोट थलासेरी, कन्नूर ।
86141	शेक अब्दुल लतीफ के. अलवी	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६५	6524 11.10.95	कस्कुलम (नफीस मजिल) पो. आ. चलावा, जिला पलक्कड ।
86142	शान्ती जोसफ जोसफ के.	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६४	6420 31.12.94	कलीलु विला पुयेन वीडु करिकोम पो. आ. कोट्टरकारा कोल्लम ।
86143	शान्ती के. श्रीधरन के.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६४	6350 5.9.94	कन्नोथ हाउस पो. आ. कल्लावी, कोडिकोड ।
86144	शान्ती एम. जी. लक्ष्मणन एम. बी.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६४	6379 19.12.94	पंडिक्माला वलापील मेलाडी पो. आ. कन्नमकुलम कोडिकोड ।
86145	शान्ती एन. के. पी. रमण	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., चेन्नई १६६६	6679 6.8.96	'रामानिवास' कडीर पो. आ. थलासेरी (वाया) कन्नूर ।
86146	शान्तीमोन ई. पी. वासुदेवागुरुक्कल ई. पी.	बी. ए. एम. एस. मद्रास वि. वि., मद्रास १६६५	6497 9.10.95	सी. वी. एन. कलारी पो. आ. काडुपुल्लु, कोट्टायम ।
86147	शामला पडियाय इब्राहिम पी. के.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६४	6391 19.12.94	'शबनम' (पडीवाय) कालिल वेट कोडुगल्लूर, थरिपूर ।

86148	शरीनादास ए.सी. शनमुखदास	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि.वेनई १६६६	6644 23.5.96	'युवाथ' पो.आ. इरनहिकल (वाया) इलायुर, कोझिकोड ।
86149	शम्भूद खान एम. मोहम्मद बशीर एम.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6452 26.4.95	'शाजरा' स्टेशन कडावु कझाकुरोटोम पो.आ. जिला थिस्वनन्यापुरम ।
86150	शर्मिला ई.पी. करण वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6347 26.7.94	इलायदम पोयील हाउस वेनगरी पो.आ. कोझिकोड ।
86151	शमी पी. ए.ओ. पणन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6572 20.12.95	श्रीरंगम, थडक्कारा पो.आ. मवेलिकारा, अलाप्पुझा ।
86152	शीजा सी.यू. सी.एस. उन्नीवेक्कन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6636 14.5.96	चेस्वरुम्पल हाउस, मानकुलानगरा पो.आ. कोडकारा, थरिसूर ।
86153	शीजा के.के. दामोदरन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6708 11.11.96	केलावेम कन्डी हाउस पो.आ. कस्वेस्सेरी, कोझिकोड ।
86154	शीजा मेनन मेनन पी.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6394 19.12.94	श्रीवालसम कनक्कथारा लेन थिस्सूर, टेम्पल रोड, अन्वेरी पो.आ. थरिसूर ।
86155	शीला के. नैनन के.एन. नैनन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6341 25.7.94	कल्लेनपरम्बिल हाउस मुक्कुडु पो.आ. मुलावन जिला कोल्लम ।
86156	शीला एस. श्रीनिवासन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6477 28.4.95	'शीला भवन' विलभागोम, नेडुनगन्डा पो.आ. वाया कडक्कावूर जिला थिस्वनन्यापुरम ।

86157	श्रीना मोल के.एस. के.पी. सोमनाथन नायर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6617 3.5.96	एस.डी.जी.ए. फार्मसी एस. बंधेरी पो.आ. वायनाड ।
86158	शोभिया वर्मा एस. सोमा वर्मा	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6628 14.5.96	श्री निलायम, दरकरा पो.आ. धरिसूर ।
86159	शेरीसी बी. आर. भास्करन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६५	6509 9.10.95	श्रीपुरम येसर पो.आ. कोल्लम ।
86160	शेली देवनी ए.टी. दिवन्नीयसिओस	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6463 27.4.95	“अम्पियायम” नोर्थ आर्यड पो.आ. अलायुडा थिरुवनथापुरम ।
86161	शेली गोपालन ए.एन. गोपालन	बी.ए.एम.एस. देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर १६६५	6582 12.1.96	‘रंजना’ ए-७८, कनका नगर कौडियार पो.आ. त्रिवेन्द्रम ।
86162	शिमो सी.एफ. सी.बी. फ्रांसिस	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6738 22.1.97	चूरोपरमबिल हाउस एसएफएक्स चर्च रोड, म.न. xxxvj/313 कलूर, कोची, एर्नकुलम ।
86163	शिनी एस. राज धर्मा राज	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६६	6625 4.5.96	शान्ती भवन पंडित कालोनी, कौडियार पो.आ. थिरुवनथापुरम ।
86164	शिवकुमार एस. सुरेन्द्रन पी.जे.	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १६६६	6677 20.6.96	‘सौपर्णिका’ कूडल पो.आ., पाथनमरीट्टा ।
86165	शोभना एम.सी. चिन्दन वैद्यार एम.वी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6378 5.12.94	‘शोभा निवास’ कलैकोड पो.आ., चेरुथुर (वाया) कसारगोड ।

86166	श्याम प्रकाश के. के. शंकरनारायण भाई	बी.ए.एम.एस. क्रैमेटिक वि.वि., धारावाड़ १६६४	6687 16.8.96	जपदुर्लभ हाउस पो.आ. पेरिया, कसारगोड ।
86167	श्याम बी.एल. के.एस. विरवनाथन पिल्लई	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6749 29.3.97	इल्लीकुलायु हाउस वायनकम, नवकानल पो.आ. कृष्णापुरम वाया कायमकुलम, अलापुझा ।
86168	शैलजा बी. दहाब एस.ए.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6369 22.11.94	सुधुधा मन्दिरम रथिकल वेट्टूर पो.आ., वर्कला, थिरुवनन्थापुरम ।
86169	शिनी बी.	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6719 23.11.96	'आरभी, थेक्केविला पो.आ. कोल्लम ।
86170	सिजी सी.एस. श्रीसादेवन ओ.एस.	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६४	6360 15.11.94	सिजी भवन पायड पो.आ., थिरुवनन्थापुरम ।
86171	सिन्धु ए. एस. वेलप्पन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6627 10.5.96	सौपणिका, मूलाकारा मन्थी पो.आ., धरिसूर ।
86172	सिन्धु अन्दोनी सी.सी. अन्दोनी	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6728 22.1.97	प्लोट नं.
86173	सिन्धु बी. बाबू एन.	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6737 22.1.97	'सिन्धु भवन' कोडमथुल, कुथियाथोड पो.आ. चैथला, अलापुझा ।
86174	सिन्धु के. ई. राधाकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6665 25.5.96	सिन्धु निवास, कक्कात्तेरी पो.आ. विट्टाट्टुकरा (वाया), धरिसूर ।

86175	सिन्धु एम. के.एस. माधवन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६५	6512 10.10.95	सौरयमक्षित हाउस रामपुरम पो.आ. जिला कोटायम ।
86176	सिन्धु एल. एन.के. श्रीधरन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्हई १६६५	6539 22.11.95	नेडुपरमबिल हाउस अय्यनकावु रोड पो.आ. इरिक्कलकुड, थरिसूर ।
86177	सिराजुदीन पी. पी. हुसैन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., वेल्हई १६६५	6575 20.12.95	पूडिक्कल हाउस कलारी साउथ, इडारिकोड पो.आ. मालापुरम ।
86178	सिसी ए.एन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6711 11.11.96	मंजली हाउस, वुंगल, मट्टायूर पो.आ. थरिसूर ।
86179	सिवाकरन टी.एस. सुब्राह्मन्यम नाम्बूथिरी	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6330 29.4.94	थोट्टाथिलमाना पंजल पो.आ. चेलुसुयी (वाया) जिला थरिसूर ।
86180	सिवाकुमारी पी. के. अप्पुट्टन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6624 4.5.96	'वीना' विरक्कारा रोड, कैमनम, पप्पनमकोड पो.आ. थिलवन्यापुरम ।
86181	स्रीजा ए.पी. लक्ष्मण	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6349 26.7.94	'राधा निवास' पो.आ. मुन्डलु, पेरलासेरी, जिला कन्नूर ।
86182	सुधी दिवाकरन के. दिवाकरन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6614 3.5.96	'सुधी', इरुदिकल पो.आ. कोझिकोड ।
86183	सौभा के. के. नारायणन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6616 3.5.96	कविथा हाउस, पल्लीकुल्ल पो.आ. मन्नाक्कड, फलक्कड ।

86184	सोमना के.के. कुंजन के.के.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6699 24.10.96	करिकुट्टी हाउस, पो.आ.मरोट्टीचल, धरिसूर ।
86185	सोलोमन पी.सी. पी. क्रिस्टीन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6489 7.7.95	क्रिस्तुभवन, कंजीराम कुलम, थिरुवनन्थापुरम ।
86186	सोलोमन ए. एफ. अगस्तीनोब	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6747 7.2.97	पोट्टेन्नेविला सलोमन्दिरम कोडुविला पो.आ. ईस्ट कल्लाड, बिला कोल्लम ।
86187	सोमराजन बी. वासुदेवन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६५	6500 9.10.95	चक्कीपरमपिल हाउस कस्बट्टा नोर्थ पो.आ., अलापुझा ।
86188	सूरियादास के सिखन कनट	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., केन्हाई १६६५	6578 11.1.96	सुभवन, आनन्दपुरम पो.आ., धरिसूर ।
86189	श्री राज कुन्नासेरी के. संकल नाबूदीरी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6618 3.5.96	कुट्टीपुराय हाउस ममपेट्टा, ममसेरी पो.आ. मुक्कम, कोझिकोड ।
86190	श्रीजा के. पिल्लई एम.के.के.पिल्लई	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6643 14.5.96	श्री निलायम अवेरी पो.आ. धरिसूर ।
86191	श्रीजा रानी टी. के. बालकृष्णन नायर	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6523 11.10.95	'अमिलाव' अरकुरस्सी मन्नाक्कड पो.आ. पलक्कड ।
86192	श्रीकला देवी जी.जी. गंगाधरन पिल्लई एन.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6479 28.4.95	'गंगा' देवकाविता इरिन्धयम पो.आ., नेडुमनगड, त्रिवेन्द्रम ।

86193	श्रीकुमार के. श्रीधर नायर के	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि., वेल्ड १६६५	6579 11.1.96	कुनदट्टमाधम, असमनूर पेरुमबावूर, एनकल्लम ।
86194	श्रीकुमार पी. प्रभाकर उन्नीधन	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६५	6553 24.11.95	पुनीयमपरमबिल विंगोली पो. आ. अलाण्डा ।
86195	श्रीलेखा के. एल. एन. रविन्द्र नायर	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६५	6570 20.12.95	'श्रीरंग' मईलाक्कड पो. आ., कोल्लम ।
86196	श्रीलेखा एस. गोपालकृष्ण नायर	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६५	6459 27.4.95	'ज्योथिस' धुलमपरबु साउथ, हरिपद, अलाण्डा ।
86197	श्रीनिवासन के. माधवन नायर के.	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6697 24.10.96	'गीथाभवन' चेम्पड पो. आ. तिरुनगाडी मालापुरम ।
86198	श्रीविद्या के. पी. के. पी. सिवनवडुन्नर	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोट्टायम १६६६	6655 24.5.96	आयवैद्य मधोम पेरिकमना इल्लम, नेल्लिकट, बल्ला पो. आ. आनन्दाश्रम वाया, कासरगोड ।
86199	स्टीफन सी. जी. सी. बी. जार्ज	बी. ए. एम. एस. कालिकट वि. वि., कालिकट १६६६	6706 11.11.96	चक्कलाक्कल करयमाडोम पो. आ. वरनहरपील्ली थरिसुर ।
86200	सुभाष कुमार के. एन. के. एन. नारायणन आसरी	बी. ए. एम. एस. केल वि. वि. १६६६	6424 31.12.94	लक्ष्मी निवास पेरिनाल पो. आ. चेंनागानूर ।
86201	सुब्रामनियम पी. पी. एस. परमेश्वरन	बी. ए. एम. एस. मद्रास वि. वि., मद्रास १६६८	6599 8.3.96	७/८६०, वेट्टनकराक्कु निकट अय्याणन टेम्पल पो. आ., कलाण्ची, पलक्कड ।

86202	सुदीपकुमार पौल सुजान चन्द्रपौल	बी.ए.एम.एस. कलकत्ता वि.वि., कोलकाता १९६५	6608 3.5.96	अशा मन्दिर, खड्गवीडु पो.आ., जल्लोपे ।
86203	सुदर्शन पी.जी. पी.एस.जयरोज	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६४	6322 29.4.94	लिल्ली कोटेज बुडपनकुनु पो.आ., जिला थिस्वनन्यापुरम ।
86204	सुदेश एम.एस. एम.के. सदानन्दन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६६	6619 3.5.96	सन्धावीप, फलकोड आडिचनल्लूर पो.आ. कोल्लम ।
86205	सुधा के.एस. के.के. नारायणन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	6674 20.6.96	करियापील्ली हाउस पेनेकर, इलमक्करा पो.आ., एर्नकुलम ।
86206	सुधीर पी.ए. विश्वनाथन पी.	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १९६६	6651 24.5.96	कीर्थी गणेशगिरी शोरनूर, पलघाट ।
86207	सुधीर राज एन. एम. नाराजन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडि.वि.वि., चेन्नई १९६६	6680 6.8.96	कैलाय हाउस, मणि सौधम पल्लिककावीरा पो.आ. पैण्ड, थिस्वल्ला, पाथममठीट्टा ।
86208	सुदीपकुमार पौल सुजान चन्द्र पौल	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६५	6584 12.1.95	टी.सी. ११/६०६, एन- एनआरए-६४, बेकरी तेन, नयनकोड, थिस्वनन्यापुरम ।
86209	सुगाथा एस.जे. सुकुमारन जे.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6562 24.11.95	ज्योतिस, थिरुमंगलम नेय्यट्टेनकारा पो.आ. ।
86210	सुजना बालन टी. बालकृष्णन अस्सारी के.आर	बी.ए.एम.एस. कलिकट वि.वि., कलिकट १९६४	6406 20.12.94	थवलठादीयल वडावुकोड पो.आ., एर्नकुलम ।

86211	सुजीत एस. वारियर संकरन्कुटी वारियर बी.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.कालिकट १६६४	6398 19.12.94	'पदमालायम' संस्कृत कलेज रोड, त्रिपुरीयुरा, एर्नाकुलम ।
86212	सुमा आर. रवीन्दन आर.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि.कालिकट १६६४	6388 19.12.94	'कृष्णा कृपा पुलिकोट्टील हाउस कोडिकुलाम्, तट्टामालम पो.आ., पलक्कड ।
86213	सुमेधा सानु बी.आर. वामन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6567 24.11.95	सानु सदानम अयीरा पो.आ., परस्सला, थिरुवनन्थापुरम ।
86214	सुनील के.जोन के. जोन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६७	6744 7.2.97	'आनन्दा भवन' इलायु पो.आ., जिला पाथनमटीट्टा ।
86215	सुनील कुमार बी.जी. गोपालन पी.	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6484 28.4.95	'पूणियम' चेस्लेली, तुल्लीमनूर पो.आ., नेडुमगाड, त्रिवेन्द्रम ।
86216	सुनील कुमार एस. एस. सुधाकरन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6328 29.4.94	सुरेश भवन वदरा अम्बालम, पोथेनकोड पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86217	सुनीलकुमार एस. के. सुरेन्द्रन नायर	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६५	6461 27.4.95	'सुप्पी' चेन्नीलेड कुमारापुरम, मेडिकल कलेज, थिरुवनन्थापुरम ।
86218	सुनीलकुमार बी. बी.आर. वासुदेवन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि. १६६४	6326 29.4.94	नारायणविलासोम ननयुक्कडु, पोथेनकोड पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86219	सुनीया कुमारी के.के. कृष्णन नायर पी.एन.	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोटायम १६६६	6732 22.1.97	कोलथनयामु हाउस वडलुकोड पो.आ. जिला एर्नाकुलम ।

86220	सुनीधा एस. सी.के. सिवरामा पिल्लई	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6647 24.5.96	कोन्दूर, इडुमटूर, पार्थममडीट्टा ।
86221	सुनीधा एस नायर सुकुमारन नायर	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६४	6411 31.12.94	'कृष्णा निवास' मिडडीक्कल पो.आ. पेरुम्बावूर, एर्नकुलम ।
86222	सुनु विलसन पी. आर. विलसन इयीपे	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6639 14.5.96	पुलिकोट्टील, ग्रीन लेन एम.जी. कावु पो.आ. थरिसूर ।
86223	सुरेश बाबू आई.बी. आई.बी. बालन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६५	6530 21.10.95	इय्यानी हाउस, चाडूर पो.आ., थरिसूर ।
86224	सुरेश कुमार बी. भास्करन जी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6367 22.11.94	श्रीविलासम, धेवरकाड रुस्सेलपुरम पो.आ., बल्लारामपुरम (वाया), थिरुवनन्थापुरम ।
86225	सुरेश एन.पी. एन.पी. कुन्हीरमन वैद्यार	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6694 24.10.96	'इनपीस', चोम्बला, जिला कोझिकोड, वन्दरपील्ली, थरिसूर ।
86226	सुशा आर. पी.आर. रविन्द्रन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६६	6610 3.5.96	हाउस नं.५२, कौडियर गार्डन जवाहरनगर पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86227	स्वपना सी. जी. चन्द्रसेखर पिल्लई	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6435 12.1.95	अम्बालायम, पलक्कल धेवलक्कारा पो.आ. कोल्लम ।
86228	स्वपना चन्द्रन रामचन्द्रन नैल ई.	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६४	6373 5.12.94	'सोपनम' थिरुवनकुलम पो.आ. जिला एर्नकुलम ।

86229	स्वप्ना के.एस. के.बी. श्रीधरन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6559 24.11.95	स्वपन्नायम, टी.सी. १८/१०६ (१) कुन्नापुडा, अरमडा पो.आ. थिरुवनन्थापुरम ।
86230	टीना शर्मा टी. शर्मा	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6473 28.4.95	मोन इले, पट्टथनम, कोल्लम ।
86231	थाजुदीन पी.एम. पी.पी. मोहम्मद	१९६५ बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६५	6532 21.10.95	पनिक्कावीटिल हाउस पो.आ. इयत्सेरी, थलीकुलम, थरिसूर ।
86232	थरिक्कन बी. वी.के. सुब्रह्मन्यन नाम्बूद्री	बी.ए.एम.एस. भरथियार वि.वि., कोयंबटूर १९६०	6415 31.12.94	वेलुघट माना, पो.आ. कावनचेरी वाया मंगलम, तिरुत्त, मालापुस ।
86233	उमा के. संकर के.के. संकरन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १९६६	6723 2.1.97	'माया निवास' पो.आ. थय्यूर, थरिसूर ।
86234	उमा एस. पी. भास्करन कुरुप्प	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १९६५	6488 7.7.95	श्री सैलम, मनगड लेन करमाना, थिरुवनन्थापुरम ।
86235	उमेश बी.यू. वी. उपेन्द्र शैलेश	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १९६६	6652 24.5.96	'संगीथा', मन्म नगर पो.आ. पंडलम, पाथनमडीट्टा ।
86236	उन्नीकुप्पन टी. कुन्हायन	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १९६४	6400 19.12.94	थचवाक्कल हाउस पो.आ. निरामथुर (वाया) तिरुत्त, मालापुस ।
86237	वदक्कन डेल्ला स्वी वी.वी. डेविड	बी.ए.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे १९६५	6597 26.2.96	वदक्कन हाउस, पो.आ. करुमल वेलूर-त्रिचुर, जिला थरिसूर ।

86238	वासुदेवन के. करुणाकरन	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6494 25.8.95	मदाशिल वीडु अष्टमुडी, कोल्लम ।
86239	वासुदेवन नाबी ए. अलायियुर नारायणन नाबी	बी.ए.एम.एस. कालिकट वि.वि., कालिकट १६६६	6710 11.11.96	थैकट्ट माना क्लिक्कुम्पट्टुकारा ईस्ट फोर्ट पो.आ., पी.बी. नं. ७१८, धरिसूर ।
86240	वासुदेवन वी.एन. वी.एन.सी.नारायणन नाम्बूद्री	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६५	6583 12.1.96	वैदयमथाम पो.आ.मेझथुर (वाया) धरियला, जिला पलक्कड ।
86241	वीना पाणिकर एम.एस. पी.के. सुरेन्द्रनाथ पाणिकर	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६४	6308 28.4.94	'मधुरिमा', टी.सी. ३०/२०२४, अनयरा पो.आ., थिरुवनन्थापुरम ।
86242	विजयकुमार सी.ए. एम.ए. अरविन्दकृष्ण	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६७	6753 29.3.97	चथरट्टील हाउस मुरियाद पो.आ. धरिसूर ।
86243	विजयश्री के. विजयचन्द्रन	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6602 3.5.96	सुस्स्था भवन अस्पताल रोड, कोल्लम ।
86244	विकास बी.आर. वी.आर.धर्मदायन	बी.ए.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडि.वि.वि., चेन्नई १६६५	6580 12.1.96	विकास विल्लो पो.आ. रायलमोथ बडगारा, कोझिकोड ।
86245	विनिथा टी. धनकाप्पन पी.	बी.ए.एम.एस. केल वि.वि. १६६५	6481 28.4.95	'शाजी भवन' मुलम्पुडु, इरुथदूर बलरामपुरम पो.आ. जिला त्रिवेन्द्रम ।
86246	विनोद सी. एम.वी. चण्डुदयी	बी.ए.एम.एस. एम.जी. वि.वि., कोट्टायम १६६६	6718 23.11.96	मुल्लोली हाउस, वी.आर. पुरम पो.आ. चलाकुडी, धरिसूर ।

86247	विनोदकुमार एम. पी. के. मोहनन	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि. चेन्नई १६६५	6604 3.5.96	मीरा भवन परदनम, वडक्केकारा पो. आ. एर्नकुलम ।
86248	यादुनन्दन के. पी. के. पी. जी. पार्थिवर	बी. ए. एम. एस. डा. एम. जी. आर. मेडि. वि. वि. चेन्नई १६६५	6587 12.1.96	के. पी. यादुनन्दन १६/१७७७, चलापुरम पो. आ. कोडिकोड ।
86249	येमुना ए. सी. राघवन नायर	बी. ए. एम. एस. मंगलोर वि. वि., मंगलोर १६६५	6542 23.11.95	कनथील हाउस मुन्नड पो. आ. चेंगल वाया जिला कसारगोड ।
86250	योगेश पी. पी. पिलक्कल प्रभाकरन	बी. ए. एम. एस. एम. जी. वि. वि., कोट्टायम १६६६	6715 23.11.96	पिलक्कल हाउस मडक्कारा, इरिन्वे पो. आ. कन्नूर ।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार

भारतीय विविक्तता की केन्द्रीय पंजिका
केरल

भाग III सिद्ध

क्र.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
2196	अनन्थी अलियास सुदातई वरीवू पी. पी. पिटाचियाह	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि. म्हुदै १९९२	97 18.3.95	पत्नी एस. गन्धेश टी.सी. ५०/११४५ 'सरोज' धलियाल, कससा पो.आ., थिरुवनन्थापुरम ।
2197	बासकरन के. क्रिस्ताचारी जी.आर.	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि. म्हुदै १९९१	95 26.7.94	द्वारा कृष्णामूर्ति टी.सी. २७/८०१ विसराम अम्बा नगर, वनवीर, थिरुवनन्थापुरम ।
2198	चेनयीलवेल एन. बी. नन्दा गोपाल	बी.एस.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडी.वि. चैन्नई १९९४	101 9.10.95	१, वेगसेवर स्ट्रीट वडीयन विल्लई नेय्योर पोस्ट, जिला के.के. तमिलनाडु ।
2199	गणेश कुमार एस. एम. सुल्लयन्दी	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि. म्हुदै १९९१	118 19.9.96	४/६, रामयाह गौडर स्ट्रीट मृथुकामु लेन, कुम्बुम म्हुदै, तमिलनाडु ।
2200	जयचन्द्रन जी. ए. जवरील	बी.एस.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मेडी.वि. चैन्नई १९९६	120 11.11.96	६/१६-बी, रीथपुरम पो.आ. कन्याकुमारी, तमिलनाडु ।
2201	जयराम बी. एस. बालु	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि. म्हुदै १९९३	108 22.11.95	२०, कुडिवीटर स्ट्रीट अरुणकोट्टै, कामराजूर ।
2202	जोहन्सी रानी आर. ए. रत्नामेनी	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि. म्हुदै १९९१	107 21.10.95	प्रकृथि अपार्टमेन्ट ताल दूरिस्ट होम बिल्डिंग्स टमपनूर, त्रिवेन्द्रम ।

2203	जस्टिस अन्तोनी सावरी पुत्र	बी.एस.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडी.वि.वि. चेन्नई १९६४	104 11.10.95	जस्टिस भवन, थस्वई, मानवलाकुरिची, कालकुलम् तालूक कन्याकुमारी (तमिलनाडु)
2204	कविलन एन. नटराजन	बी.एस.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडी.वि.वि. चेन्नई १९६४	106 21.10.95	१३५६, एनजीओ 'बी' कालोनी तिरुनेलवेली, कट्टम्बोम, जिला तमिलनाडु।
2205	क्रमलक्कन्नन डी. एस. धर्मराज	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि., मद्रै १९६२	117 18.9.96	कामतचियामन कोईल स्ट्रीट गुडलुर वीरन आलागपुत्रु।
2206	कन्नन के.पी. के. पोन्नैयनगौदर	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि., मद्रै १९६२	116 18.9.96	कन्नन अस्पताल औदिययी, मद्रै जिला तमिलनाडु।
2207	कुमारराज जी. जी. गौधी	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि., मद्रै १९६०	114 18.9.96	३२/१५, कलियम्मा कुम्बुम, तमिलनाडु स्ट्रीट मद्रै जिला तमिलनाडु।
2208	मोहनदास एन. नटराजन	बी.एस.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडी.वि.वि. चेन्नई १९६४	102 11.10.95	६/२०, वेलीविल्ड मानवलाकुरिची पो.आ. कालकुलम तालूक, जिला कन्याकुमारी, (तमिलनाडु)।
2209	मुथुभार एन.जे. नारायणन चेतीथार जयधम्मल	बी.एस.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडी.वि.वि. चेन्नई १९६४	103 11.10.95	पुथुक्काडी स्ट्रीट मानवलाकुरिची, कन्याकुमारी, तमिलनाडु।
2210	मुथुवेल ए. अरुमुथुम वी.	बी.एस.एम.एस. डा.एम.जी.आर.मैडी.वि.वि. चेन्नई १९६४	105 11.10.95	एच-७१, पी एच IV, न्यू हजिसिंग बोर्ड कालोनी, थमिरापथी नगर, तिरुनेलवेली।
2211	नाराणी एल. एस. लक्ष्मणन	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि., मद्रै १९६०	119 25.10.96	रंगनाथपुरम कामराजापुरम पो.आ. बोडी (वाया) मद्रै।

2221	उचीमली एस. एम. संकर लिंगा कोनार	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि. म्दुरे १६८६	113 4.5.96	द्वारा आर. सुब्रामनिया कार्यालय, मीणा इल्लम जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट, शेनकोट्टाह, नेल्लाई जिला ।
2222	वेलायुधन एन. नेल्लैयप्पान एस.	बी.एस.एम.एस. एम.के. वि.वि. म्दुरे १६६१	96 26.7.94	२१, सत्ताय स्ट्रीट, कोक्कोराक्कुलम, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु ।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400 005, the 13th December 2005

No. DBS. ARS. No. 8631/08.21.002/2005-2006—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India Act, 1955 and in consultation with the Central Government, the Reserve Bank of India has appointed the following audit firms as Statutory Central Auditors of the State Bank of India for the year 2005-06 who shall hold office until the next Annual General Meeting of the bank.

1. M/s. B. M. Chatrath & Co., Kolkata
2. M/s. Khandelwal Jain & Co., Mumbai
3. M/s. G. S. Mathur & Co., New Delhi
4. M/s. R.G.N. Price & Co., Chennai
5. M/s. M. M. Nissim & Co., Mumbai
6. M/s. S. K. Mittal & Co., New Delhi
7. M/s. Vinay Kumar & Co., Allahabad
8. M/s. M. Choudhury & Co., Kolkata
9. M/s. Laxminiwas & Jain., Hyderabad
10. M/s. Patro & Co., Bhubaneswar
11. M/s. Kanwalia & Co., New Delhi
12. M/s. K. P. Rao & Co., Bangalore
13. M/s. Chaturvedi & Company., Kolkata
14. M/s. Vardhaman & Co., Chennai

ANAND SINHA
Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 19th December 2005

No. 29-CA/LAW/D-47/2005—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Gujarat has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 2/1991, ordered vide its Judgement bearing date 2nd August, 2003 corrected to as 31st May, 2005 vide order dated 5th August, 2005 that the name of Shri A. L. Ghael, FCA, M/s. A. L. Ghael Co., Chartered Accountants, 307, Hajoori Chambers, Salabatpura, Main Road, Surat-395003, (M. No. 006875) be removed from the Register of Members for a period of six months for having been found guilty of "other misconduct" under Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri A. L. Ghael shall stand removed from the Register of Members for a period of six months w.e.f. 1st February, 2006. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Gujarat.

Dr. ASHOK HALDIA
Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE AND BUDGETARY CONTROL)

Mumbai-400001, the 7th December 2005

Ref. DEBC No. 1—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government in the meeting held on 27th October, 2005 hereby resolves to repeal the Reserve Bank of India, Employees' Co-operative Guarantee Fund Regulations and pass the following resolution :

Resolved

"that in exercise of the powers conferred by Section 58(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board hereby accords approval to the proposal for repealing of the Reserve Bank of India Employees' Co-operative Guarantee Fund Regulations contained in the Executive Director's Memorandum dated October 14, 2005."

C. KRISHNAN
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS

CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 6th December 2005

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in Extra Ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended January 2005 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised :—

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
New Delhi Circle 9% Relief Bond, 1999					
DHN-004371	Rs. 70,000/-	Chand Kumar Taneja and Jeewan Bala Taneja (Either or Survivor)	—	Chand Kumar Taneja and Jeewan Bala Taneja (Either or Survivor)	PDO/DTLN-5/2005 dated 08.10.2005
DHN-005631	Rs. 80,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-
List "B"					
Kolkata Circle 9% Relief Bond, 1999					
CAN-002982	Rs. 1,00,000/-	Rebati Ranjan Choudhuri (Deceased)	-	Shri Sudhir Kumar Choudhuri (Claimant)	File No. 1-2562 GM's Order dated 14.10.2005 (DY. No. LCO 29/05-06 dated 17.10.2005)
CAN-003604	Rs. 1,00,000/-	Rebati Ranjan Choudhuri (Deceased)	-	Shri Sudhir Kumar Choudhuri (Claimant)	-do-
New Delhi Circle 9% Relief Bond 1999					
CDHN-007090	Rs. 5,00,000/-	K. Taneja and Ram Krishan Taneja (Either or Survivor)	-	K. Taneja and Ram Krishan Taneja (Either or Survivor)	PDO/DT/LN-4/2005 dated 06.08.2005

J. M. BAVA
Asstt. Manager

MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(HEAD OFFICE)

New Delhi-110066, the
No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I—

S.O. _____ whereas
the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, _____ Delhi _____ from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. CMYK Printech Ltd., Link House, 2 nd Floor, 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi	DL/23769	01-12-03	30-11-06
2	M/s. Morgard Shammor India Ltd.	DL/7161	01-06-04	31-05-07
3	M/s. Intex Technologies India Ltd., D-18/2, Okhla Indl. Area, Phase-II, New Delhi	DL/20843	01-08-03	31-07-06
4	M/s. Ahlcon International School, Mayur Vihar, Phase-I, Opp. Una Enclave, New Delhi	DL/24573	01-10-02	30-09-05
5	M/s. N.G.P. Industries Ltd.	DL/8826	01-07-04	30-06-07

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect

SURAJ SHARMA
Regional P. F. Commissioner-II

No. 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I—

S.O. _____ whereas
the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. Josco Rubbers, 8/50, Moolalingal, Calicut	KR/KK/11644	01-09-04	31-08-07
2	M/s. Josco Agencies, 8/50, Moonalingal, Calicut	KR/KK/11645	01-09-04	31-08-07
3	M/s. Josco Footwear Co., 8/50, Moonalingal, Calicut	KR/KK/11996	01-09-04	31-08-07
4	M/s. Ebebezer Press (P) Ltd., Trichur	KR/KC/19512	01-08-04	31-07-07
5	M/s. Geo Motors (P) Ltd., Kochi	KR/KC/10360	01-03-04	28-02-07
6	M/s. Hebron Offset Printers, Trichur	KR/KC/158166	01-08-04	31-07-07
7	M/s. Holy Cross Hospital, Kottiyam	KR/3894	01-03-03	28-02-06
8	M/s. Saratha Autocores, Kollam	KR/16600	01-03-03	28-02-06
9	M/s. Saratha Motors, Kollam	KR/12416	01-03-03	28-02-06
10	M/s. Ebenezer Printers, Trichur	KR/KC/13820	01-08-04	31-07-07
11	M/s. Assyst (I) Pvt. Ltd.	KR/KC/19353	01-08-04	31-07-07
12	M/s. Kaveri Plastics (P) Ltd.	KR/KC/15770	01-07-04	30-06-07
13	M/s. Kaveri Polymers	KR/KC/19593	01-07-04	30-06-07
14	M/s. Poabs Battery Containers Ltd.	KR/4711	01-01-94 01-01-97 01-01-00 01-01-03	31-12-96 31-12-99 31-12-02 31-12-05
15	M/s. Hotel Regency, Trivandrum	KR/12777	01-02-04	31-01-07
16	M/s. Kaveri Pet & Polyformers (P) Ltd.	KR/KC/19577	01-07-04	30-06-07
17	M/s. Tracksun Rubbers (alongwith its branches)	KR/KK/17717	01-02-04	31-01-07
18	M/s. Casino Rubbers Factory (alongwith its branches)	KR/KK/11670	01-09-04	31-08-07
19	M/s. A.R.S. Software Engg. (P) Ltd.	KR/16643	01-01-04	31-12-06
20	M/s. Sports Lakshadeep Office, Kochi	KR/12373	01-03-04	28-02-07
21	M/s. Trust Rubbers, Trichur	KR/13602	01-03-04	31-01-07
22	M/s. Prasunn Industries, Trichur	KR/19408	01-02-04	31-01-07
23	M/s. Sophisticated Testal Instrumentation Centre, KOchi	KR/15152	01-03-04	31-01-07
24	M/s. AVT MC Coramic Ingredients (P) Ltd.	KR/15865	01-09-03	31-08-06
25	M/s. Kerala Footwear Traders, Calicut	KR/11848	01-03-95 01-03-98 01-03-01 01-03-04	28-02-98 28-02-01 29-02-04 28-02-07
26	M/s. Sanerca Health (P) Ltd., Kochi	KR/19515	01-02-04	31-01-07
27	M/s. Primus Gloves (P) Ltd., Kochi	KR/19195	01-02-04	31-01-07
28	M/s. Fitco India, Kochi	KR/19305	01-02-04	31-01-07
29	M/s. Chinmaya Vidyalaya, Kochi	KR/8559	01-12-03	30-11-06
30	M/s. Frontline Polymers (P) Ltd., Malapuram	KR/14757	01-02-02	31-01-05
31	M/s. Malabar Cancer Centre, Thalassery	KR/18113	01-01-04	31-12-06
32	M/s. Teeson Polymers Ltd., Trichur	KR/19497	01-02-04	31-01-07
33	M/s. Gem Traders (P) Ltd., Trichur	KR/19377	01-02-04	31-01-07
34	M/s. Pattanakad Coir Mats & mathang Co-op. Society Ltd.	KR/13130	01-12-96 01-12-99 01-12-02	30-11-99 30-11-02 30-11-05
35	M/s. TatTetly Ltd., Kochi	KR/15781	01-12-03	30-11-06

SCHEDULE-1

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. Subodhaya Chemicals Ltd.	AP/31646	01-10-04	30-09-07
2	M/s. Tejaswi Industries, Vadalamudi, Guntur	AP/27849	01-02-97	31-01-06
3	M/s. Smartchem Technologies Ltd.	AP/20479A	28-02-02 28-02-05	27-02-05 27-02-08
4	M/s. Tribal Health Initiative	TN/SL/47428	01-05-03	30-04-06
5	M/s. Sri Nachammal Cotton Mills Ltd.	TN/SL/35080	01-10-03	30-09-06
6	M/s. Gem Hospital India (P) Ltd.	TN/56038	01-09-04	31-08-07
7	M/s. Suguna Poultry Products Ltd.	TN/45640	01-07-04	31-08-05
8	M/s. Printe Cotton Textiles	TN/33780	01-12-03	30-11-06
9	M/s. Kethanur Sarvodya Sangh	TN/12396	01-09-04	31-08-07
10	M/s. CIBI Exports	TN/45169	01-10-04	30-09-07
11	M/s. Shree Nidhi Apparel (P) Ltd.	TN/45433	01-06-04	31-05-07
12	M/s. Parimalam Matriculation Hr. Sec. School	TN/SLM/21631	01-01-05	31-12-07
13	M/s. Exide Industries Ltd.	TN/SLM/35062	01-07-03	30-06-06
14	M/s. Suprime Aromatics (P) Ltd.	TN/PC/620	01-06-03	31-05-06
15	M/s. The Swan Electric Co. (P) Ltd.	TN/AMB/17261	01-07-01 01-07-04	30-06-04 30-06-07
16	M/s. M.P. Nachimuthu & Jaganathan Polytechnic	TN/SL/21625	01-01-02 01-01-05	31-12-04 31-12-07
17	M/s. Cambridge Matriculation Hr. Sec. School	TN/SL/34569	01-12-04	30-11-07
18	M/s. Pantadeswha Auto Parts Ltd.	TN/40886	01-04-04	31-03-07
19	M/s. M.N. Ramarao & Co.	KN/13503	01-09-95 01-09-98 01-09-01	31-08-98 31-08-01 31-08-04
20	M/s. Canara Engg. College	KN/20538	01-12-01 01-12-04	30-11-04 30-11-07
21	M/s. Suresh Graphics (P) Ltd.	KN/11644	01-11-95	31-10-04
22	M/s. Sophia High School	KN/8971	01-03-93	28-02-02
23	M/s. Hosa Diagntha	KN/12615	01-04-97 01-04-00 01-04-03	31-03-00 31-03-03 31-03-06
24	M/s. Mahila Co-op. Bank Ltd.	KN/10465	01-03-95 01-03-98 01-03-01	28-02-98 28-02-01 28-02-04

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the establishment	Code No.	Period of Exemption	
			From	To
1	M/s. Kerala State Electricals Development Corporation Ltd. Keltron Controls Division	KR/KC/12346	01-07-03	30-06-06
2	M/s. Self Growth Nidhi Ltd.	KR/KNR/18150	01-12-04	30-11-07
3	M/s. E.I.H. Ltd., Kochi	KR/KC/19860	01-09-04	31-08-07
4	M/s. Electronic Controls & Discharge Systems Pvt. Ltd.	KR/KC/19495	01-10-04	30-09-07
5	M/s. Bailey Hydropower (P) Ltd.	TN/65101	01-04-04	31-03-07
6	M/s. The Krishna Dist. Co-op. Central Bank Ltd.	AP/2364	31-01-95 31-01-98 31-01-01 31-01-04	30-01-98 30-01-01 30-01-04 30-01-07
7	M/s. Ushodaya Publications	AP/35244	01-04-00 01-04-03	31-03-03 31-03-06
8	M/s. Tulsi Digital Studies	AP/40585	01-02-05	31-01-08
9	M/s. The Aryapuram Co-op. Urban Bank Ltd.	AP/11747	01-03-99 01-03-02	28-02-02 28-02-05
10	M/s. Vijayalakshmi Insecticides & Pesticides Ltd.	AP/6385	01-04-96 01-04-99 01-04-02	31-03-99 31-03-02 31-03-05
11	M/s. St. Mary's Industrial Training Center, Udupi	KN/20307	01-09-04	31-08-07
12	M/s. Josco Rubber (Pondy) (P) Ltd. & its branches	KR/KK/17653	01-09-04	31-08-07
13	M/s. Kerafibertex International (P) Ltd.	KR/KC/19462	01-10-04	30-09-07
14	M/s. Softex Digital (P) Ltd.	KR/16677	01-12-03	30-11-06
15	M/s. Seaview Support Systems (P) Ltd.	KR/16154	01-12-03	20-11-06
16	M/s. Venkatadari Oils Ltd.	AP/23350	01-11-01 01-11-04	31-10-04 31-10-07
17	M/s. Laxmi Ganpati Water Pump Industries	AP/33745	01-01-01 01-01-04	31-12-03 31-12-06
18	M/s. Hindustan Coca Cola Beverages (P) Ltd.	AP/33337	01-04-01 01-04-04	31-03-04 31-03-07
19	M/s. A. P. Vikasa Vidyavanam	AP/19053	01-04-01 01-04-04	31-03-04 31-03-07
20	M/s. Venkatadri Refineries (P) Ltd.	AP/33944	01-11-01 01-11-04	31-10-04 31-10-07
21	M/s. Strides Arcolab Ltd.	KN/20192	01-11-00 01-11-03	31-10-03 31-10-06
22	M/s. Fr. Mullers Charitable Institutions	KN/4992	01-05-01 01-05-04	30-04-04 30-04-07

Contd... 2

23	M/s. Gurudev Poly Print	KN/20521	01-06-01 01-06-04	31-05-04 31-05-07
24	M/s. Sri Ramakrishna Pre-Univ. College	KN/20443	01-09-01 01-09-04	31-08-04 31-08-07
25	M/s. Magnum Intergraphics (P) Ltd.	KN/20288	01-12-00 01-12-03	30-11-03 30-11-06
26	M/s. MRPL Ltd.	KN/20171	01-04-00 01-04-03	31-03-03 31-03-06
27	M/s. Gee Dee Advertising & Mktg.	KN/20438	01-06-01 01-06-04	31-05-04 31-05-07

SCHEDULE-1.

Sl. No.	Name of the estt.	Code No.	Period of Exemption.
1.	M/s. Saipriya Chit Fund Pvt. Guntur.	AP/21170	1.3.99 to 28.2.02, 1.3.02 to 28.2.05.
2.	M/s. Vikaka Vidya Vanam, Vijayawada.	AP/19053	1.4.01 to 31.3.04.
3.	M/s. Andhra Pradesh Pvt. Ltd. Krishna Distt.	AP/30161	1.3.03 to 30.6.06.
4.	M/s. Agresorpex India Ltd., Vijayawada.	AP/19400	1.10.99 to 30.9.00
5.	M/s. Kanaka Durga Agro Oil Products Ltd., Vijayawada.	AP/16859	1.9.01 to 31.8.04
6.	M/s. IVRCL Infrastructures & Projects Ltd., Hyderabad.	AP/22120	1.2.00 to 31.1.03, 1.2.03 to 31.1.06.
7.	M/s. P.S.B. Inds. Auto Nagar, Visakhapatnam.	AP/31792	27.3.03 to 26.3.06
8.	M/s. Kudaravalli Packaging Pvt. Ltd. Krishna Distt.	AP/33009	1.7.99 to 30.6.02, 1.7.02 to 30.6.05.
9.	M/s. Kusaleva International Vijayawada.	AP/27526	1.4.97 to 31.3.00, 1.4.00 to 31.3.03, 1.4.03 to 31.3.06.
10.	M/s. A.P. Rubber Industries.	AP/21218	1.1.96 to 31.12.98, 1.1.99 to 31.10.99.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./ Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable at the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

SURAJ SHARMA
Regional P. F. Commissioner-II

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE**New Delhi-110058, the 21st November 2005**

No. 20-10/2005-S.R. (Kerala) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section(1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Kerala and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:- Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Kerala) from April 1994 to March 1997 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA
Registrar

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE
KERALA (April, 1994—March, 1997)
PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BY BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
85817	Abdul Ravoof P.K. Abdulla Kutt	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6392 19/12/94	Kaladiyil House Paccor PO., Distt. Thrissur.
85818	Abdul Salam Shaheer P.A. Abdul Raneem P.A.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6433 04/01/95	Peringattuthodiyil Irim Jiliyam PO., Matappuram.
85819	Ajayekumar F.S. Sreedharan F.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6429 02/01/95	"Pattathil", Kallelibhagam PO., Karunagappally, Kollam
85820	Ajayen R. Rajappan Nair B.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6324 29/04/94	Kizhakke Puthen Veerdu Pavilakonam, Pevad PO., Thiruvananthapuram.
85821	Ajikumar R. Ramachandran Nair	BAMS Dr. MGR Med., Univ., Chennai, 1996	6574 20/12/95	Chandra Bhavan Mullakeri, Panmana PO
85822	Ajith Kumar V.P. V.G.P. Kurup	BAMS M.G. Univ. Kottayam, 1996	6734 22/01/96	SIE Complex, QTR No.111/1, Karsaka Road, Distt. Ernakulam
85823	Ajith Kumar B. R. Balanpillai	BAMS Univ. of Kerala 1996	6620 03/05/96	Arunnivas, Muthukulam South PO., Karthikappally, Alappuzha.
85824	Ajith Kumar K. N.K. Kumara Pillai	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6329 29/04/94	Bhama Vilas Maruthoor, Neyyattinkara PO., Thiruvananthapuram.
85825	Ajith Kumar K. K.C. Karunakaran	BAMS Univ. of Kerala 1994	6434 12/01/95	"Revathy" TC 26/827" Bakery Junction, Thiruvananthapuram.
85826	Ajith Kumar K.N. K.V. Neelakandan Namboodin	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6612 03/05/96	Ayyayam, T.C. 6/2217 Vallyevile Vattivoorkavu, Thiruvananthapuram
85827	Ajith Kumar M.L. K. Madhavan Nadar	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6745 07/02/97	Flavilla Maley Puthan Hunglow, Kazhivoor, Kazhivoor PO., Trivandrum.

85829	Ajith Kumar N V. Natesan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6576 20/12/95	Janatha Nursing Home Chavara South PO., Kollam.
85830	Ajith Kumar S.L. Sukumaran Nair K.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6368 22/11/94	Mani mandiram Near Homneo College Nemoi PO., Trivandrum
85831	Ajitha Baby B A.M. Baby	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6525 20/12/95	Greenland, Near Y.M.C.A. Chengannur, Dist. Alapuzha.
85832	Ajitha I.T. N. Thankappan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6370 29/04/94	"Saranga", T.C. 42/46 Mukkolakal Sreevaraham, Thiruvananthapuram.
85833	Ajitha K. Karunakaran N.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6337 25/07/94	Bunglavil House Vakkom PO., Thiruvananthapuram
85834	Ajitha M.A. M.K. Vasudevan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6528 21/10/95	Vasanthalayam, Pattoor PO. Padanilam (Via) Alapuzha
85835	Ajitha P.K. Kumar P.K. Kumaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6670 25/05/96	Krishna Bhavan Konarhukunnu PO., Irinjalakuda, Trichur.
85836	Ajithkumari Amma K. Krishnapillai K.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6454 26/04/95	Sundaravilasam Vilavorkonam PO. Kalluvethukkal (Via) Distt. Kollam.
85837	Ajithkumar T.P. Pavithran T.K.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6750 29/03/97	Thiruthokattu Ruruparikulangara PO. Cherthala, Distt. Alapuzha.
85838	Ambika P. Perikkathara P. Kuttan	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1995	6589 16/02/96	Thuruthi Palil House R.M. Road, Kadavanthra PO. Cochlin, Ernakulam.
85839	Anand P.K.V. P.K. Vasudevan	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore, 1993	6306 28/04/94	S/o P.K. Vasudevan Kunnath Mena Kunnath Lane, Thrissur.
85840	Anandakishore K.V. Velayudhan K.V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6402 20/12/94	Lakshmi Nilayam PO., Pattambi, Distt. Palakkad.
85841	Anandaraj A.V.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6425 31/12/94	Aravinda Bhavanam Kallimel PO., Mavelikara, Distt. Alleppey.
85842	Ani Antony Antony K.J.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6395 19/12/94	Kollemparambil House Rayonpuram PO., Perumbavoor, Distt. Ernakulam.

85842	Anil G. Gangatharan	BAMS Dr MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6671 25/05/96	Krishna Sree T.C. 50/ES2(1), Kalady Karamana PO., Trivandrum.
85843	Anil J. Jacob P.C. Thomas	BAMS Dr MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6676 20/06/96	Madotti Vaidyasala Pulled P.O., Thiruvalla Pathanamthitta.
85844	Anilkumar L.F. A.M. Peethambaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6682 16/02/96	Latha Nivas, Azad Road Irinjalakuda North P.O., Distt. Thrissur.
85845	Anilkumar M.V. O. Viswanathan Achari	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6552 24/11/95	T.C. 19/1983, Mudavanmugal, Poojappura P.O., Thiruvananthapuram.
85846	Anilkumar P.K. T.N.K. Nambiar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6685 24/10/96	Kaliyath, Morazha P.O. Kannur.
85847	Aniltha G. V.K. Gangadharan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6593 16/02/96	Lakshmi Nivas, Iringavoor PO Tirur-3 (Via), Malappuram
85848	Aniltha K. P. Viswantharan	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6600 08/03/96	Madamvila Puthen Veedu Punnamukku, Perumpuzha P.O., Kollam.
85849	Aniltha Kumar T T.P. Kumaran	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6316 28/04/94	Thakadivel, Erumaly P.O., Kottayam.
85850	Aniltha N. N. Krishnan Namboodiri	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1994	6410 31/12/94	Choolukonath Madom Opp. Layola College Sreekrayam P.O., Thiruvananthapuram.
85851	Aniltha Sudhakaran Sudhakaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6441 18/03/95	Nambiathi House P.O. Parappur, Thrissur.
85852	Aniyental P.K. K. Kunjuranan Vaidyan	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6358 25/10/94	'Sevasadanam', Chittayam Perinad P.O., Kollam.
85853	Anjali C. S.P. Chandrasekharan Nair	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6513 10/10/95	Vaisakhom, Edavattom P.O., Thalayola Parambu.
85854	Anu Thomas Thomas M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6390 19/12/94	Vedakkevil Veedu Kummalloor P.O., Kollam.
85855	Anupama K.N. F. Narayanan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6675 20/06/96	Thalavil. PO. Eruvatty (Via) Chapparapadava, Kannur

85856	Anupama S. Shunmukorn	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6471 28/04/95	T.C. XX/1988 Karapana PO Distt. Thiruvananthapuram.
85857	Anvar A.M. M. Ahamed Kunju Lebbe	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6323 29/04/94	Noor Mahal, Thazheva FC Kannagapally, Distt. Kollam
85858	Anya R. Nampoothir Radhakrishnan Nampoothiri F.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6486 28/04/95	Ennasser Mediam Ezhathu, Distt. Pathanamthitta.
85859	Asa K.H. Hansa K E	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6685 06/08/96	'Kadila Manzi' South of S.D.P. Y. B.H.S. Palluruthy, Kochi, Distt. Ernakulam.
85860	Asaletha R.S. Raghavan Nair R.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6359 10/11/94	Sowparnika, Punneackkal Road Fort, Thiruvananthapuram
85861	Asghar C.P. O.V. Aboobacker	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6709 11/11/96	'Venus', Vengad, Kannur
85862	Asha A R. Appukuttan Pillai	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6725 16/01/97	Chavadiparambil Vazhicherry Ward, Aleppuzha.
85863	Asha Thomas P.S. Thomas	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6470 28/04/95	"Abhilasha", 39-Rose Nagar Sreekariyam PO., Thiruvananthapuram.
85864	Ashakanunakaran K. Kerunakaran K.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6547 23/11/95	T.C.26/827, Revathy House No.16, Chempaka Nagar Bakery Junction, Thiruvananthapuram.
85865	Asselinar M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6399 19/12/94	Medathil House, Velapuram PO., Pulemanthole, Malappuram.
85866	Aswathy M.P. Janardhanan Pillai	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6493 25/08/95	Medathil Puthen Veedu Kottackakam, Perinad PO., Kollam.
85867	Athmasree S. P.N. Sahadevan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6462 27/04/95	Distt. Trivandrum. Elamplavil House, Muttaikavu Nedumpana PO., Kollam.
85868	Aun N.V. M.T. Vishnu Nambeesan	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6313 28/04/94	"Sreeletha Kuthuparambu PO., Distt. Kannur.

85860	Babitha P. Surendran P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6346 26/07/94	Kundukulangara House, PO Velliparamba, Kozhikode.
85870	Babu Raj Peroor P. Vasudevan Nambudhiri	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6490 25/05/95	Peroor Iliam Kanniparamba (PO), Mavoor (Via), Kozhikode.
85871	Belakrishnan V.K.V. Anandan Nambiar K.C.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6643 03/05/96	Vengayil House, Panapuzha PO, (Via) M.M. Bazar, Kannur.
85872	Beena Kumari S. Seetha Lekshmi	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6564 24/11/95	Anand Viher, Mundakkal Middle Kollam, Thiruvananthapuram.
85873	Beena V.K. V. Kesavan Nambudhiri	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6689 16/08/96	'PANCHAVATI, PO. Haripuram, (Via) Anandesramam, Kasaragod.
85874	Beviri Singh G. Govinda Harisingh	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6426 31/12/94	Govinda Padmam, Varavila PO, (Via) Vavvakavu, Kollam.
85875	Bharathi K. Kunhiraman	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6521 11/10/95	Murali Nivas, Mamlyoor, Guruvayoor PO., Thrithur.
85876	Biji John P. John	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6468 28/04/95	"Santhosh Bhavan" Mulavana, Kundera, Kollam.
85877	Bijimol M.N. Y. Meleed Kunju	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6554 24/11/95	Biji Dale, Vadakevillu PO., Kollam.
85878	Bindhu M. P.N. Nannadham Nair	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6656 24/05/96	Sreeragam, Puliyanur PO., Kottayam.
85879	Bindu Ancy Jos Jos Joseph	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6522 11/10/95	Elamthuruthil House PO. Kara, Kodungallur, Thrissur.
85880	Bindu C.R. C.R. Ramakrishnan	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6662 25/05/96	Chandraseeril, Pallipuram PO, Cherthala, Alappuzha.
85881	Bindu G. Nair Gopinathan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6560 24/11/95	Alswanya, Vadacode Kura PO., Kottarakara.
85882	Bindu Jose C. C.R. Jose	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6650 24/05/96	Chittilappilly House Puranattukkara PO., Thrissur.

85833	Bindu K. Karunakaran P.S.	BAMS M.G. Univ., Kottayam. 1994	6442 18/03/95	Door No.C. XXV/727 S.D. Convent Road Konthunuthy, Thevara Kochi Eranakulam Distt. Chithira, M.G. Road, Nemmara, Palakkad.
85834	Bindu K. M.P. Karunakaran	BAMS M.G. Univ., Kottayam. 1996	6646 24/05/96	
85835	Bindu K.K. Kesava Pillai R.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6382 19/12/94	Mena Nivas, South Mankuzhy Pulitikanakku PO., Kayamkulam Vla, Alleppey.
85836	Bindu N. Lai J.M. Lai	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6469 28/04/95	"Lila Manzil," Mangalapuram, Thonakkal PO. Thiruvananthapuram.
85837	Bindu P.R. P.S. Ramar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1996	6638 14/05/96	Paraparambil House Pant hallow, Nellayi PO., Thrissur.
85838	Bindu P.S. K.S. Sukumaran	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6317 28/04/94	Leela Sadanem Karikulam PO., Ranni, Distt. Pathanamthitta.
85839	Bindu V. K. Yesodharan	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6735 22/01/97	Kandalayil House Adinadu South, Kattikadavu PO., Karunagapally, Distt. Kollam.
85890	Bindumol C.P. C.K. Pankajakshan Nair	BAMS Dr MGR Med., Univ., Chennai, 1995	6495 31/06/95	Cheruvallil Marangattupilly PO., Kottayam.
85891	Binod Sydney Sydney Samuel	BAMS M.G. Univ., Kottayam., 1994	6409 31/12/94	"Sydney" 31/1491, Jawahar Road, Vyttila, Kochi.
85892	Binoy D. Das Devedasan G.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6385 19/12/94	"Varsha" PO. Pattambi Palakkad.
85893	Binu K.S. Sivaramapillai N.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6546 23/11/95	Krishnagiri, Vetturood Kaniyapuram PO., Thiruvananthapuram.
85894	Chandra Lekha A. Ananda Bhal Amma	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6353 05/09/94	T.C.36/707, Sudarsan Perumtham, Vallakkadavu PO., Distt. Thiruvananthapuram.
85895	Chandrasekharan Kartha K.N. R.R. Kunjunnai Kartha	BAM Univ. of Kerala, 1990	6417 31/12/94	Sree Poornathrayessi Pazhayannore Thrissur.
85896	Chandy George K.C. George	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6740 07/02/97	Kanlampady, Factory Ward Alappuzha, Distt. Alappuzha.

85897	Chidhambara Batu M. C. Muthamperumal Pillai	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6743 07/02/97	Mele Veedu, Near Sri Mutharammar Coll, Nedumangad PO., Trivandrum
85898	Chithra S.V. Sasisekharan Nair K.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6451 26/04/95	Lady Nives, Kottukal P.O. Belaramapuram (Via) Thiruvananthapuram.
85899	Chitra Das K. Sathyaadas	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6893 19/02/96	'Sathyalekshmi' Njakenal, Krishnapuram P.O., Oachira, Distt. Alappuzha.
85900	Darby James K. K.R. James	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6318 28/04/94	Cochin House Vadeckal, Alappuzha, Distt. Alappuzha
85901	Deepa Chandran C.K. Chandrasekharan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6713 23/11/96	'Deepas', Club Hill Mananthavady P.O., Wayanad.
85902	Deepa George T.K. George	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6418 31/12/94	Theruvathi Deepam Bhagath Singh Road, Pettah PO. Thiruvananthapuram.
85903	Deepa K.C. A.K. Krishna Das	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6684 06/08/96	"KEERTHI" P.O. Munduparamba, Malappuram.
85904	Deepa P.S. A. Ponnappan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6496 31/08/95	Kanesh Cottage Vadakkavila P.O., Kollam.
85905	Deepa S. Sadasivan P.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6475 28/04/95	Deepa Bhavan, Vattamon, Mathra P.O. Punalur, Distt. Kollam.
85906	Deepa V. Viswanadhan Pillai	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6669 25/05/96	Ambady, Palai P.O., Distt. Kottayam.
85907	Deepa Vijayan R. G. Vijayan	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6688 16/08/96	Lekshmi Bhavan, Methala Kodlungalloor (Via) Anchapalam, Distt. Thrissur.
85908	Deepthi J.C. K. Jayadevadas	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6596 28/02/96	Ravimangalam, Maru: South Alumkadavu P.O.,
85909	Deepthi T.R. T.N. Ramachandra Panicker	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6739 07/02/97	Thoppil West House Thodupuzha East P.O., Distt. Idukki.

85910	Devarajan S. Krishnan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6535 21/10/95	Kizhakevalappurackal Chittoor, Puthupetta am PO, Thodupuzha, Idukki.
85911	Devi Prasad P. Sankaran P.K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6531 21/10/95	Pootakrishni (House) K zhaikkath FC., Kudiavalay Kozhikkoda.
85912	Divya Ravindran N. Ravindran Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6601 03/05/96	T.C. 9/2646, "Sri Divyam" Elenkom Gardens, Vellayambalam, Thiruvandrum
85913	Dushanthan V. Vasudevan P.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6327 29/04/94	Madathilezhikkath Veedu Kummil PO Kadakkal (Via) Kollam
85914	G.P. Siddhi K.P. Purushothaman Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6555 24/11/95	'Oushadhi', Fort (Was: Nade) Thiruvananthapuram.
85915	Gafoor K. Ali K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6375 05/12/94	Koroth House, Cheruvayoor PO, Vazhakkad Distt. Malappuram.
85916	Ganga B.S. N. Soman	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6478 28/04/95	"Sreebhavenam" Puthiyavila South Pettoly Market PO., Aleppuzha.
85917	Ganga D.S. K.K. Devarajan	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6423 31/12/94	Thirumutam, Agesthiacodu, Anchal PO., Distt. Kollam.
85918	Ganga K. Indranathan T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6387 19/12/94	Kanakkath House Palattukanna, Ollur PO., Thrissur.
85919	Geetha Sukumaran K.R. Sukumaran	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6319 28/04/94	Karthika Bhavan Kottackakom, Perinad PO., Kollam.
85920	Geetha Bhasi A. Bhasakaran	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6722 02/01/97	'Geethalayam' Karamcode PO., Distt. Kollam.
85921	Geetha Bhaskar R.B. G. Bhasakara Pillai	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6315 28/04/94	R.B. Cottage, Mahadeveswaram Kilimanoor, Thiruvananthapuram.
85922	Geetha K. Kochukunju C.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6457 27/04/95	Puthen Veedu, Munukkingara Kavalayoor PO. Varkala, Thiruvananthapuram.
85923	Geetha Kumari A.S. S. Sadasivan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6307 28/04/94	'Sree Vihar', T.C. 7/1031, Maruthankuzhy Kanjirampara PO., Thiruvananthapuram.

85924	Geetha Mary Thomas K.C. Thomas	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6467 27/04/95	TC XV/1740-1, Charsania Kowdilar PC., Dist. Trivandrum.
85925	Geetha R.K. T. Kesava Fisherody	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6678 15/07/96	Padma Vihar theyarkulangara Cherai PO., Thrissur.
85926	Geetha V.P. Govindan P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6377 05/12/94	Padathil House PO. Pathayakunnu, Vie Thalassery, Dist. Kannur.
85927	Geethakrishnan G P.N. Gopalakrishna Pillai	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6550 23/11/95	'Sangeetha', Mudavanmugal Poojapura PC., Thiruvananthapuram.
85928	Genesh K.C. Prabhakaran K.C.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6432 04/01/95	"Prabha Nives" PO. Nhangattini Via Fattambi, Palakkad.
85929	George Joseph Joseph Sebastian	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1994	6413 31/12/94	Menecherry House Manjanakad Road, Narakkal PO., Cochin.
85930	George F. Foulose P.C.	BAMS Dr. MGR Med., Univ., Chennai, 1995	6585 12/01/95	Parathuvayalil, Keezhilam PO Perumbavoor (Via) Karunagappally, Kollam.
85931	George T.L. T.L. Leon	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6540 22/11/95	Thanickal Kodankandath PO. Mundoor, Thrissur.
85932	Gilby Thomas Thomas John	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6449 26/04/95	"Prasanth" Anandappally PO. Adoor, Dist. Pathanamthitta.
85933	Gigli John P. John G.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6372 05/12/94	Padamilethil House Punnepra PO., Alappuzha.
85934	Gigimol P. D. Pappechan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6641 14/05/96	Ezhuthupurakkal House Mulamkunnathukavu, Trichur.
85935	Gill Jyothy R.N. G. Nesamony	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6492 25/08/95	TC/13/527, KV-53, Kalavithar Lane, Kunnukuzhy PO., Thiruvananthapuram.
85936	Gireesh Krishnan T. A. Krishnankutty Nair	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6691 19/09/96	Thottath House, PO. Pooppathy (Via) Poyya, Thrissur.
85937	Gireesh Kumar B. K. Bharatan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6505 09/10/95	Srambickal Palace Pandalam PO., Pathanamthitta.

85938	Govindankutty Menon R S Menon A. G. S.	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6370 22/11/94	H.No.V/832, Palace Road, Mattancherry, Kochi. Distt. Ernakulam.
85939	Harindrar Nair R. P. Reghavan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6409 31/12/94	"Hari Krishna" Perumpazhuthoor P.O., Neyyattinkara (Via), Thiruvananthapuram.
85940	Harikumar G. K. G. Gopalakrishnan Nair	BAMS Dr.MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6568 24/11/95	Lakshmi Nilas, P.O. Nedumkunnam, Kottayam.
85941	Hassar A.F. Pareeth A.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6352 05/09/94	Attupurath, Udumbennoor P.O., Thodupuzha, Idukki.
85942	Hemalatha N. N. Neelakantan Potti	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6716 23/11/96	'Upasana' Pandalam, Pathanamthitta.
85943	Honeylal D.L. Divakaran N.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6431 04/01/95	Lal Bhavan Faylkkuzhi Oachira P.O., Kollam
85944	Indira P.V. Achutha Varier K.V.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6321 29/04/94	Puthiyedath Variem Thachinganadam P.O., Pattikad (Via), Malappuram.
85945	Indu K. P. Krishnakutty Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6621 03/05/96	Krishnendu, T.C.28/1045, Sreekanthaswaram, Fort P.O., Thiruvananthapuram.
85946	Indu S.R. N.Soman	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6314 28/04/94	'Sringhala' Kokkothamangalam P.O., Cherthala, Distt. Alappuzha.
85947	Indu V. N. Appukuttan Pillai	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6474 28/04/95	Palliyadil House Kalangara Bhagom Chavara P.O., Kollam.
85948	Indu Vasudevan M. Vasudevan Pillai	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6450 26/04/95	"Sandhya Ragam" Asramam West, Kollam.
85949	Indulal U. P.N. Unniappan Moothathu	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore, 1993	6335 23/06/94	Brahma Vihar Mannarasala P.O., Aleppuzha.
85950	Ivy Thomas T.V. Thomas	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6366 22/11/94	Annievettil Ooramana P.O., Muvattupuzha (Via) Ernakulam.

85951	Jacqueline M. Paul Martin	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6558 09/10/95	Anchilla Mansion Maruthadi PO., Kollam.
85952	Jagdish Kumar K.P. M.P. Balakrishna Narar	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1994	6412 31/12/94	"Saket" Aliyur PO., Distt. Kozhikode
85953	Jalmon T. George T.V. Varghese	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6498 09/10/95	Thattupuram Thazhuvankunnu PO., Ernakulam.
85954	Jain E.V. E.K. Viswambaran	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6595 26/02/96	Ettungapoady House Kalady PO., Distt. Ernakulam.
85955	James Cyrilac K.J. Kuruvilla Cyrilac	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6566 24/11/95	Kanhyarakath Ramapuram PO., Kottayam.
85956	Jaseela T.E. T.K. Bukhary	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6565 24/11/95	Thamarassery House Edappally North PO Kochi, Ernakulam.
85957	Jashi Dinakaran K. Dinakaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6615 03/05/96	Kareeparamba, Kuttikkole PO., Taliparamba, Kannur.
85958	Jaya Mohan P.D. Mohanan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6653 24/05/96	"Seroj" South Fort Mavelikara, Aleppuzha.
85959	Jayachandran N. N. Indira	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6736 22/01/97	Nattuvely House, Kizhuthani, PO., Thamissery, Thrissur.
85960	Jayadasan P. Sukumaran P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6545 23/11/95	Pulekkal House Kundalessery PO., Palakkad
85961	Jayagopalan K.G. Gopalakrishnan K.P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6632 14/05/96	Kolathal Kalarickal House Pounore PO. (Via) Parappur, Thrissur.
85962	Jayakumari T. Thankamma	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6501 09/10/95	Vijaya Bhavanam, Kottavila) Manampuzha PO., Kadampnadu S., Kunnathoor, Kollam.
85963	Jayalakshmy S. P. Radhakrishnan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6549 23/11/95	"Swathy", T.C. II/3034 Pattom PO., Thiruvananthapuram.
85964	Jayalekshmi L. Bhaskaran Nair V.R.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6453 26/04/95	Pullyoorveedu Cheriyaakonni PO., Thiruvananthapuram.

85935	Jayan D. K. Demodan	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1995	6502 09/10/95	Pallathu Thekkethil Eyoor South, Kearikad PO, Alappuzha.
85936	Jayan M.N. Vasudevan Namboodiri M.N.	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6357 13/05/94	Mele Narippatte Mana PC Kara Mana Via Cherpulessse V, Palanghat
85937	Jayaprakash L.B. D. Behuleyan	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6640 14/05/96	"Apsaras" Ayiroopere PO (Via) Pothencode, Thiruvananthapuram
85938	Jayaretna R. G. Bhaskaran	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6649 24/05/96	Jaya Nivas, Kalakkodu PC Bhoothakulan Kollam
85939	Jayasree A. T.F. Balakrishnan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6466 27/04/95	Ananda Eihayan Coruttambalam PO., Thiruvananthapuram
85970	Jayasree M.N. S. Narayana Pillai	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6556 24/11/95	T.C.4/2241, Kochuniarackal Kuravankoriam, Kowdia PC., Thiruvananthapuram.
85971	Jayasree P. A.V. Ramanathan Nair	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6667 25/05/96	Govindaputhu Eihavanam CMC VII Nedumbrakadu Cherthala PO., Alappuzha.
85972	Jenson T.J. T.V. Jacob	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1995	6510 09/10/95	Tholal House, Kandakkedavu PO. Kochi, Distt. Ernakulam.
85973	Jerom V. Kurian V.M. Kurian	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1995	6499 09/10/95	Valamperampil House, Villoanni PO. Arpookara, Kottayam.
85974	Jigeesh P.F. P.J. Purushothaman Namboodiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6629 14/05/96	Paikkattumana Kizhuppilikara PO. (Via) Katloor, Thrissur.
85975	Jijimol R. K.V. Rajappan	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6648 24/05/96	Raj Nivas, CMC 16 Cherthala PO., Alappuzha.
85976	Jijo Jose C.V. Joseph	BAMS Univ. of Kerala, 1993	6311 28/04/94	Cheeramkuzhy, Elamgulam, Koorali, Distt. Kottayam.
85977	Joji Mallakel M.A. Iyyonny	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6533 21/10/95	Maliakkal House PO. Puthen Peedikka, Thrissur.

85978	Joshi K.V. K.N. Vasudevan	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1995	6581 12/01/95	Kunikulath House Perinjalam PC., Thrissur.
85979	Jularani P. Sreedharan T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6416 31/12/94	Thekkenmedathil PO Pinarayi (Via) Thalassery, Distt. Kappur.
85980	Julie Michael C.C. Michael	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6635 14/05/96	Chidivankandath House Thalora PC., Thrissur
85981	Jyothi K. P. Unnikrishna Menon	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6634 14/05/96	Kumatheni House Arimpur PC., Thrissur
85982	Jyothi Lekshmi H. K.V. Heridas	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1994	6439 28/01/95	Lekshmi Nivas, Mulakuzha PO. Chengannur, Alappuzha.
85983	Jyothi Prekash K.S. K.V. Sathyananth	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6448 07/04/95	Prakash Hospital Karikkamuri, Emakulam, Cochin.
85984	Jyothi R. Gangadharan C.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6456 27/04/95	Rema Sadan, Kudaloor Balaramapuram PC., Thiruvananthapuram.
85985	Jyothi S. N. Sadasivan Nali	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6733 22/01/97	Nanathuputhen House Kidanganncor PC. Mezhuvell (Via) Distt. Pathanamthitta.
85986	Krishnakumar R. Ramakrishna Pillai	BAMS M.G. Univ., Kottayam., 1995	6508 09/10/95	Vrindaranam, Chathiyara, Thamarekulam PO.
85987	Krishnan N. Narayanan M.P.	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai, 1995	6541 23/11/95	'Karthika, Opp. Temple Post. Pady, Thrissur.
85988	Krishnan V.V. V.V. Viswanbaran Vaidya	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6605 03/05/96	Vallomparambath Panickassery Lokamakeswaram Kodungallur, Trichur.
85989	Krishnakutty K.K. K.V. Krishnan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6517 10/10/95	Kodakkattil House Kurumpilavu PO. (Via) Pazuvilla, Trichur
85990	Krishna Prabha K.P. Prabhakaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6354 05/09/94	Nechiyil House, Karalmanna PO., Cherpalachery, Palakkad
85991	Kunheedu P.K. Veeran	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6519 10/10/95	Puthen Veettil House PO. Karippur, (Via) Kondotty, Distt. Malappuram.

85992	Kusumam Joseph Joseph P.T.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6403 20/12/94	Plethmograph House Puthantheem PC, Palam, Thiruvalla Via, Distt. Pathanamthitta, Kanniy House, Irachandi FC Thrissur
85993	Lal K.S. K. Sidharthan	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6752 29/03/97	
85994	Lalitha Shal S. Krishnan P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6356 05/09/94	Cherukunnathu Veedu Mukhamuri, Mannady P.O. (Via) Erathu, Pathanamthitta.
85995	Lalitha V.P. V.P. Apukutty Vydier	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6438 28/01/95	Vaiyaparambil House Vailikkunnu North Post Kadalandi Nagaram (Via) Tiru.
85996	Lalitha O. O. Kumaran Vydier	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6664 25/05/96	'Orhayoth' Erumala PO, Orkkatteri, Bagagara,
85997	Latha K.R. K.V. Rajan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6506 09/10/95	Kajirathin Kottayil Arathuvazhy PC., Alappuzha
85998	Lathakumari K. Krishnan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6332 04/06/94	Sai Bhavan, Puthuvaiykonam Dhanuvachapuram PO., Distt. Thiruvananthapuram.
85999	Leena B. K. Bhaskaran Nair	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6717 23/11/96	'Pranthana', Thiruvangadu Thalassery-3, Kannur.
86000	Leena Thomas J. Thomas	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6569 24/11/95	Thekkevila House Anupama Nagar, Muttada PO, Thiruvananthapuram.
86001	Leena V.M. V. Vasudevan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6666 25/05/96	Vembola Mana Venganelloor PO, Chelakara (Via), Thrissur.
86002	Lekha V.K. R. Krishnan Nadar	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6748 07/02/97	Ramavilas, Pappanamcode PO, Thiruvananthapuram.
86003	Liju Mathew Mathew Pothan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6404 20/12/94	Elappunkal House Vennikulam PO., Tiruvalla, Distt. Pathanamthitta.
86004	Lizy S. Sivanandan	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6380 19/12/94	Annandha Bhavan, Thattamala PO., Kollam.

86005	Lovely Philip E.J. Philipose	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6657 24/05/96	Elevumoodil Thekkekutty House, Perumpanachy PO., Changanacherry, Kottayam
86006	Lynda Menon Gopinathan Menon	BAMS Univ of Calicut, Calicut, 1996	6627 21/10/95	Parikkuttil House Pazhakkara, Annallur PO. Chakkudy, Thrissur.
86007	Madanachandran C.M. Madhavan C.N.	BAMS Univ of Kerala, 1994	6427 02/01/95	Kaivayadham Ammakantakara, Adur PO., Distt. Patnamthitta.
86008	Madhava Chandran V.L. Swanthia Menon	BAMS Univ of Kerala, 1995	6491 25/08/95	"Vadakoot", Tagore Street Desabhimani Road, Kabor, Kochi, Ernakulam
86009	Madhu D. Dileshan K.	BAMS Univ of Kerala, 1996	6633 14/05/96	Kayithengil, Sekthikulangara, Kollam.
86010	Madhu K.M. K.A. Muraliedharan	BAMS Univ of Calicut, Calicut, 1996	6536 21/10/95	Kailasa Mandiram Kottackal, Distt. Malappuram.
86011	Madhusoodhanam P.P. Kumaran	BAMS Univ of Calicut, Calicut, 1994	6430 03/01/95	"Peeleri", Kadambel Kanur PO., Kanur.
86012	Madu R. Das Rajindas K.	BAMS Univ of Calicut, Calicut, 1994	6386 19/12/94	"Poomima" Kannangath Lane, M.G. Road, Thrissu
86013	Mahadevan L. Lakshmana Sharma	BAMS Univ of Madras, Madras, 1993	6702 11/11/96	C/o Mr. Rengaswamy T.C. 16/621(2), Near Krishna Temple, Kochar Road, Thiruvananthapuram.
86014	Makkarukutty K.A. K.K. Ahmed Vaidyan	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6714 23/11/96	Kadavilparambil House Aroor P.O., Alappuzha.
86015	Mani J.R. Janardhanan Nair	BAMS Univ of Kerala, 1994	6407 30/12/94	Radhavihar 3/23, Near RMLPS, Attingal.
86016	Manikantan K.P. M. Gangadharan Nair	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6607 03/05/96	C.N.S. Chikitsalayam Mezhathur PO., (Via) Tritala, Palakkad.
86017	Manohar Babu C.N. C. Narayanan Vaidyar	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6692 19/09/96	A.V. Vaidyasala T.B. Road, Ottapalam, Distt. Palakkad

86018	Atanaji M. Madhavan Pillai	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1995	6511 10/10/95	Moornamkuzhott House Chandanathoppu P.O., Kollam.
86019	Mancy Vijayar A.V C. Vijayan	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6561 24/11/95	Maresh Giri, Oruvathilkottan Anayara P.O., Thiruvananthapuram.
86020	Manoj Kumar T. K. Krishnan	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6622 03/05/96	Kalathyera House Puliyanur Pottavoor P.O., Kesaragad
86021	Manu Das Gopidas N.	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6485 28/04/95	"Palazhi" Kongal Paravur P.O. Kollam
86022	Martin P. Paul F.P. Paul	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6654 24/05/96	Parappully House Kaduppassen P.O., Thrissur
86023	Mary Smitha Giles K. K.J. Giles	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6668 25/05/96	Koikara House, Chempakassery Jn., Alwaye, Ernakulam.
86024	Maya Balakrishnan Eialakrishnan N.S.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6460 27/04/95	"Chemicose," T.C.19/2325 Thirumala, Thiruvandrum
86025	Maya Gopinath T.K. Gopinath	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6727 22/01/97	Vallyaveetil, Edathanattukara P.O. (Via) Alanelloor, Distt. Palakkad.
86026	Maya M. Govindan Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6339 25/07/94	"Sree Shankari Udayanagar P.O., Haripuram, Distt. Kasaragod.
86027	Maya R. Shenoy Raveendria Shenoy	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6389 19/12/94	Mallekal House, Pattanacaud P.O. Shertthallay, Distt. Alleppey.
86028	Maya S. A.K. Sreedharan	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6729 22/01/97	"Sreevilas," Amalagiri P.O., Kottayam.
86029	Mayadevi R. P.K. Chandrasekharan Nair	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6731 22/01/97	Madappalilil, Thuravoor P.O. Cherthale, Alappuzha
86030	Mayaja K.S. K.K. Surendran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6630 14/05/96	Kallat House, Aloor P.O. Mettom (Via) Thrissur.

86031	Mayaja R. K.K. Rajan	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6663 25/05/96	"Rosaima" Pathirippatta P.O. Kakkattil (Via) Kozhikode.
86032	Meera D. K. Demodaran Namboodiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6811 03/05/96	"Ranjini", J.N. Road Perintalmanna P.O., Malappuram.
86033	Mini Antony P.D. Antony	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6700 24/10/96	Pottakkal House, Muringoor Chalakudy (Via), Thrissur.
86034	Mini C.R. F. Ravindranath	BAMS M.G. Univ., Kottayam., 1995	6507 09/10/95	Chelackal House Elangavam, Varappetty P.O., Kothamangalam.
86035	Mini K.V. Velayudhan K.A	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6393 19/12/94	Kallattuvaleppil House P.O. R.V. Puram, Adiyara, Thrissur.
86036	Mini Mala P.S. Papanasavelu	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6421 31/12/94	T.C. 9/774, Piavethala House, Vellayambalam, Thiruvananthapuram.
86037	Mini N.R. P.G. Narayana Varma	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6333 18/06/94	C/o Anil Varma Vadakke Malliyakkal S.N. Junction Tripunithura, Ernakulam.
86038	Mini S. Muraliedhar Muraliedharan Pillai K.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6483 28/04/95	Maveill House, Varavila P.O. Vavvakkavu, Kollam.
86039	Mohamed Rafi M. Mohamed Sali A.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6487 07/07/95	Sheeba Manzil, Alamcode P.O. Attingal, Trivandrum.
86040	Mohamed Sulaiman K.K. Sadakkathulla Moulavi K.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6704 11/11/96	Krimpanakkal House Palikunnu, Wandoor., Malappuram.
86041	Mohammedali P.K. Ahamed P.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6401 20/12/94	"Sesix" P.O. Karippur (Via) Kondotty, Distt. Malappuram.
86042	Mohan N.K. Kesavan N.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6396 19/12/94	"Geethalayam" Manisseri P.O., Palakkad.
86043	Mohandas R. P.V. Ramchandran	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6586 12/01/95	"Swathy" House, P.O. Vellinazy, Palakkad.
86044	Muhammed Razi K.M. Muhammed Kunju	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6336 19/07/94	Munthag Manzil Kodannoor, Madathara P.O., Kollam.

86045	Munammac Shafi K S K. P. Shamsudeen	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6331 17/05/94	Rossar's Villa Chemur and or, Punalu P.O., Distt. Kollam
86046	Mukesh P. K. F. T. Kumaran	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai, 1995	6577 20/10/95	Plessery House, Poovathussery P.O., Annamaraeda, Thirissur.
86047	Muruge Das R. R. Ravindran	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6659 24/05/96	Krishna Kripaparikottil House Tattamangalam P.O., Distt. Palghat
86048	Narsamma Thampy Thampy Chacko	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1994	6334 23/06/94	Raji Villa, Pallickachira P.O. Paipad, Changanacherry, Distt. Kottayam
86049	Narayanan K. M. Madhavan Nemboodilipad K. M.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1990	6526 21/10/95	Kallurmana, Edavikode Malappuram.
86050	Narayanan N. Narayanan Namboodiri	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6603 03/05/96	Neelakattu Mana Koothaikulilam, Ernakulam.
86051	Navaneetha Kamath S. Sreekarakamath G.	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6645 24/05/96	"Sree Santhi" A N Furam West Alappuzha.
86052	Nazar E. Ebrahim Kunju A.	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6623 03/05/96	Rahim Building Appachippara, Tholcode P.O. Thiruvananthapuram.
86053	Nisha Mary Eapen P. E. Eapen	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6476 28/04/95	Padavupurackal T.C. 3/309, Muttada, Thiruvananthapuram.
86054	Noushed Ali T.P. Moyinkutty	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6520 10/10/95	Thachaparamban House Mundengara, Edavanna P.O., Malappuram.
86055	Noushed E. K. P. P. Mayan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6658 24/05/96	Nasmina Manzil Neervell P.O., (Via) Nirmalagiri, Kannur.
86056	Nuja Karunesh K. Karunesan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6464 27/04/95	Cherupunna Vila Veedu Kudangavila P.O. Neyyattinkara, Trivandrum.
86057	Padmagiriesan K. Sankaran Vydhar K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6705 11/11/96	C/o Sankaran Vydhar K. Ayur. Drug Merchant Nilambur Road, Wandoor P.O., Malappuram.

86058	Fadmesheenan K P Fadmanabhan Nembiar T. F.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6343 25/07/94	Kodakkaltery Puthiya Veedu Chalacode PO., Payyanur, Kannur.
86059	Pillai Radha Nancekumar Nandakumara Pillai S.	BAMS Univ. of Poona, Pune, 1995	6445 18/03/95	HIG-24, Poona Nagar Opp. Pvt. Bus Stand Aluva.
86060	Prebha Varma N.K. K.C. Kerala Varma Raja	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6443 18/03/95	Parimantathu Kovilekom Thirunellur PC, Shertalla, Alleppey.
86061	Prebhu Rajan B. Bhargavan K.R.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6529 21/10/95	Attuvayalil Puthen Veedu Pattathanam, Kollam.
86062	Prakasan V.P. Kunhikannan V.P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6698 24/10/96	V.P. House, PC, Azhiyur. Kozhikode.
86063	Prakash T.S. Sankaran Namboodiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6342 25/07/94	Thekkedatt Mana (PO) Cheruplassery, Distt. Palakkad.
86064	Pramod G. Gopikuttan Nair P.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6465 27/04/95	"Prasadam", Mangad PO., Kollam.
86065	Pramod Kumar K.S. Sankaran K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6383 19/12/94	Karakkat House Peramangalam PO., Thrissur.
86066	Prasad M. K.T. Aravindakshamenon	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6637 14/05/96	Sree Nilayam, Varkkara PO., Thrissur.
86067	Prasad V. Kammath V.V. Kammath	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6405 20/12/94	Alungal House, Kadathy Muvattupuzha, Market PO., Ernakulam.
86068	Prasannakumari B. S. Nanoo	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6480 28/04/95	"Prasanna Sadanani" Puravoorakonam Karakulam PO., Trivandrum.
86069	Prasanth K. S.K. Padmabha Panicker	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6340 25/07/94	Kadakam Thezhath House East Vazhayoor PO., Malappuram.
86070	Prasobh A.R. N. Raghavan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6455 26/04/95	Ananda Bhavan, Velamanoor Parippally (Via), Kollam.

86071	Preveen P. V. S. Vidyadharan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1996	6673 25/06/96	T.C. 25/1914, Thiampoor V/est Thiruvananthapuram.
86072	Freetha S. N. Sankaran Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6548 23/11/95	'Prathibha', T.C. 9/2-14, Sankar Road Sastha mangalam Thiruvananthapuram.
86073	Freetha T.K. T.E. Kuffy Krishnan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1996	6631 14/05/96	Elezathoor House Kaiparambu P.O., Thrissur
86074	Freethi Devadas V. V.K. Devadas	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1996	6573 20/12/95	C/O Dr. P.H. Shaji Poovalthumkardavil House Pananged, Distt. Thrissur.
86075	Freeya K.S. M. Kochukrishnan	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6741 07/02/97	Priva Bhevan Kollayil P.O. Madathaa (Via) Distt. Thiruvananthapuram.
86076	Fremachandran K. K. Madhavan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1996	6696 24/10/96	'Geethabhavan' P.O. Manikoth, Kannargad, Kasaragod.
86077	Prince Alex Alexander Mathew	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6312 28/04/94	Sankarathil, Kizhakkupuram P.O., Kumbasha, Distt. Pathanamthitta.
86078	Priva S. A.K. Sreedharan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6730 22/01/97	Sreevilas, Amalagiri P.O., Kottayam.
86079	Priva Sekhar L. V. Rajasekharan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6672 25/05/96	"Narayaneeyam" Elanjil Lane, Pulimoodu, Thiruvananthapuram.
86080	Pushpa Rani A.R. G. Appukuttan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6563 24/11/95	Shine Villa, Kuttiyani Panthalacode P.O., Thiruvananthapuram.
86081	Ragesh D. Cheeran Davy Cheeran	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1994	6408 31/12/94	Cheeran's House Main Road, Chalissery P.O., Palakkad.
86082	Raghavan P.K. C.K. Krishnan	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6742 07/02/97	Chittilakkattu Kottumpuzha P.O. Kothamangalam (Via) Ernakulam.
86083	Raghavan R. K. Ramachandra Panicker	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6746 07/02/97	'Ramanilayam' Kesavan Nair Lane Poojappura, Trivandrum.
86084	Raghu A. T.P. Krishna Pisharady	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6348 26/07/94	Ratna Nivas, Railway Bridge Road, Chalakudy.

86095	Rahmathulla P. Alikutty P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6701 25/10/96	"KHYRJUNIVAS", Near A.V.C. Kottakkal P.O. Edarkode, Distt. Malappuram.
86096	Raj Narayan C.N. C. Narayanan Vaidyar	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6588 12/01/95	Anya Vaidyodayam Vaidyasala T.B. Road, Ottapalam, Palakkad.
86097	Raja Hariprasad A. T.K. Achuthan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6683 06/08/96	'JAYAHARI', Ashtamichira P.O., Thrissur.
86098	Rajan P.D. M. David	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6726 21/01/97	Pallivila Veedu, Karumanoor Parassala P.O., Distt. Thiruvananthapuram.
86099	Rajani A. Nayar N. Ayyappan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6309 28/04/94	"Revathy", Kariyam Sikariyam P.O. Thiruvananthapuram.
86090	Rajesh D. K. Divakaran	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6680 24/05/96	Lalshmi Nivas Kumaramengalam P.C., Thodupuzha.
86091	Rajesh N S N.K. Sreedharan	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6661 25/05/96	Nedumparambil House Ayyankavu Temple Road, Irinjalakuda P.O., Thrissur
86092	Rajeshkumar K. K.P. Nareyanan Nambiar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6609 03/05/96	'Narayanan Nivas' Kottayam Poyil P.O. Pathayakunnu (Via), Kannur.
86093	Rajitha Sekhar S. G. Rajasekhara Panicker	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6320 28/04/94	Kalkoil House Nanglarkulangara P.O., Alappuzha.
86094	Rajkumar B. N. Bhaskaran	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6325 29/04/94	Rajendra Bhavan Ezhukone P.O., Distt. Kollam
86095	Rathish Kumar K. K. Achuthan	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6690 17/09/96	Sivananda Mandiram Kurunathur P.O. Karimbam (Via), Kannur.
86096	Ravikumar K. Raghavan V.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6397 19/12/94	"Rathalayam" Pandamangalam, Kottakkal, Distt. Malappuram.
86097	Ravikumar G. K. Govindakurup	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6503 09/10/95	Kallianisseril Iippakulam P.O., Rallickal Kayamkulam, Alappuzha.

86098	Ravindran V. Sachdanandan E.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6384 19/12/94	Edakkunni Variam Chazhur P.O., Thrissur.
86099	Raziya K.B. K.P. Bayco	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6436 28/01/95	Kolengattuparambil House, P.O. Katticoor, Distt. Thrissur.
86100	Reza S.R. N. Sivadasan	BAMS Devi Anilya Univ., Indore, 1994	6571 20/12/95	Kaitheri Veedu P.O., Mundalore, Kannur.
86101	Reghunadhar A.K. Kochukuriju N.	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6338 25/07/94	Alapuzha Veedu Chingoli, Karthikappally, Alleppey.
86102	Regina Mathew R.V. Mathew	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1996	6707 11/11/96	40/1246, ROSE DALE Devagiri, Kozhikkode-8, Kozhikkode.
86103	Reji Thomas E.M. Thomas	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6598 26/02/96	Maduckayil House, Kozha P.O., Kuravilangad, Kottayam.
86104	Rejith A. Anandan S.	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6482 28/04/95	"Adhira" Thazhuthala Kottiyam P.O., Kollam.
86105	Rejunath E.K. E.K. Vijayan Vaidyal	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6755 29/03/97	Erattapallyyalli Kaikuliathingal, Katampazhipuram, Palakkad.
86106	Rekha M.V. M.N. Vijayan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6376 05/12/94	Mundakkal House Elamakkara P.O. Kochi, Ernakulam.
86107	Rekha R. M.R. Raman	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6446 18/03/95	"Prathibha" Ollukara, Distt. Thrissur.
86108	Rekha Varma V. G. Kerala Varma	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1993	6305 28/04/94	"Lakshmi", Guruvayoccrappan College P.O. Kozhikkode,
86109	Remadevi A.B. Thankappan Pillai V.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6472 28/04/95	C/o Dr. B.S. Pradeep Kumari Pazhampallil Veedu Thaimarakudy, Kottarakara, Distt. Kollam.
86110	Remiathu Beevi P.O. Muhammed Rawther	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6437 28/01/95	Vaiyavilla Puthen Veedu Thornalloor, Pandalam P.O., Distt. Pathanamthitta.
86111	Roshan Divan M. Syed Divan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6720 23/11/96	'Blue Mount', Krishnapuram P.O., Kayamkulam, Alapuzha.

86112	Siebithe F. Kunthalan P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6351 05/09/94	"Sangeetha" PO Eranthikkal, (Via) Eliathur, Distt. Kozhikode
86113	Sachithroy T.P. N.K. Padmanabhan	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1995	6590 16/02/96	Thuruthi Palai House Kadavanthra PO, Kochi, Ernakulam.
86114	Sajan Kumar S. Somasajan S.	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6721 29/11/96	Vasanthalayam Elampazhannoor PO, Chadayamangalam (Vilg) Kollam.
86115	Sajee Prasad G. Shermugha Prasad	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1997	6754 29/03/97	Ganga Bhavan, Koonayil S. Paravoor PO., Kollam.
86116	Sajikumar E.A. E. Ayyappan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6543 23/11/95	Sandhya Malar, T.C.19/1842-3 Kesavan Nair Road, Pujappura, Thiruvananthapuram. S.N. Vilasam, Pulimood Jn. Mundakkal, Kollam.
86117	Sajiyakumar R. Rajappan V.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6458 27/04/95	Nadaraj Bhavan Attarikam, Omaliur PO., Distt. Pathanamthitta.
86118	Saju N. Rajan N. Nadarajan	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6422 31/12/94	Sankoorikal House Near Govt. Hospital Narakkal PO., Ernakulam.
86119	Sally Paul U.V. Paul	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6703 11/11/96	Kizhakkie Veedu Odanavattom PO. Kottarakara, Kollam.
86120	Sam George K.V. George	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6681 06/08/96	"Sarita Nivas", PO. Chowva, Distt. Kannur.
86121	Sandeep P. P.K. Purushothaman	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6712 11/11/96	"Kusum" Near Lions School Koppan, Palakkad.
86122	Sandhya Vijayanathan Vijayanathan K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6344 25/07/94	Sports Land, Old Thirumala, Alappuzha, Thiruvananthapuram.
86123	Sangeetha Sachidanand K. Sachidananda Pai	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6504 09/10/95	Manathanath Meethal Perambra PO., Kozhikode.
86124	Sanil Kumar M.M. N. Balan Vaidyar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6514 10/10/95	

86125	Sankaran Nambudiri V.M. Madhavan Nembroodiri V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6381 19/12/94	Vishnupuram Cherumoola, Kativellur FO., Kannur.
86126	Santhosh Kumar K.S. Kunjan K.	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6626 04/05/96	Sreekumar Mandiram Mangalathukkam Kattachal Kuzhi PO., Balaramkulam.
86127	Santhosh K.S. K.S. Sambhudevan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1996	6534 21/10/95	Kodappully House PO. Kizhakkummuri Peringottu kara, Thrissur.
86128	Sareena K. Pasra P. Kamal Pashe	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6594 19/02/96	Pathanayath House Erjathala PO., Aluva, Distt. Ernakulam.
86129	Sareena N. Ahamed Kuffy N.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6355 05/09/94	Palakkuzhiyil House FO. Muttanchery (Via) Narikkuni, Kozhikode.
86130	Satheedevi P.S. Padmarabha Panicker N.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6428 02/01/95	'Sree Ganga' Padmilam PO. Nooranad, Alleppey.
86131	Satheesh Kumar C. K. Vasudevan Nambiar	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1993	6682 06/08/96	"PRASANTHI", Puthanpalay PO. Guruvayur, Thrissur.
86132	Sathisan K. Madhavan K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6374 05/12/94	Kanathoor House Mavicherry. PO. Payyanur, Kannur.
86133	Sathyanarayanan K. Karunakaran Pillai S.	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6371 05/12/94	Sree Ram Mandir Mularikadakom, Kollam.
86134	Sathyanarayanan P.K. P.K. Bhaskaran Vaidyar	BAMS Bharathiar Univ., Coimbatore, 1993	6642 14/05/96	'Lekshmi Nives' Chethalloor PO., Mannarghat, Palakkad.
86135	Savi T.L. T.P. Lonappan	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai, 1995	6544 23/11/95	Thankadan House, Muleyannathukavu PO., Thrissur.
86136	Sebastian Francis K. K. J. Francis	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6751 29/03/97	Kizhakkootte House Cherarayam, Kunnankulam, Distt. Thrissur.
86137	Seema Vasudevan S. Vasudevan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6551 24/11/95	Oorakath House Puthurkara, Ayyanthole, Thrissur.

86138	Sethumadhavan F. Raman P.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6345 25/07/94	Pezhiparambil House PO. Athevanand (Via) Tirur, Malappuram.
86139	Shahina P.K. K.K. Abonacker	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6886 06/08/96	Parakkambalath House Elettil PC, Koduvally (Via) Kozhikode.
86140	Shahram Kannoth Vasapatti K.E. Mukundan	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6414 31/12/94	Meemalivas, P.O. Pukkot Thalassery, Kannur.
86141	Shaik Abdul Latheef K. Alav.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6524 10/95	Ka'ukulam (Natees Manzi) PO Chalavara, Dist. Palakkad.
86142	Shaji Joseph Joseph K.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6420 31/12/94	Kaleetu Vila Puthen Veedu Karkom PO., Kottarakkara, Kollam.
86143	Shaji K Sreedharan K	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6350 05/09/94	Kannoth House PO., Kallachi, Kozhikode
86144	Shaji M.V. Lakshmanan M.V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6379 19/12/94	Pandikasala Valappil Meladv PO., Kannamkulam Kozhikode.
86145	Shaji N. K.P. Raman	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6679 06/08/96	'Ramanilayam', Kadirur PO. Thalassery (Via) Kannur.
86146	Shajimon E.P Vasudevagurukkal E.P.	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1995	6497 09/10/95	C.V.N. Katar (PO) Kaduthuruthy, Kottayam
86147	Shamla Padiyath Ibrahim P.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6391 19/12/94	"Shabnam" (Padiyath) Kavli West Kodungallur, Thrissur.
86148	Shareenadas A.C. Shanmukhadass	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6644 23/05/96	'Yuvatha' PO. Eranielkall (Via) Elathur, Kozhikode.
86149	Sharmed Khan M. Mohammed Easheer M.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6452 26/04/95	"Shajara", Station Kadavu Kazhakkuttom PO., Distt. Thiruvananthapuram.
86150	Sharmila E.P. Karappan V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6347 26/07/94	Elayadam Poyil House Vengeri PO., Kozhikode.
86151	Shayi P. A.O. Pappen	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6572 20/12/95	Sreerangam, Thazhakara PO. Mavelikara, Alappuzha.

86152	Shreeja C.U. C.M. Unnichakkal	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6616 14/05/96	Cheruvarammal House Manakulangara P.O., Kottalaka Thirissur.
86153	Shreeja K.K. Dattadaran K.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6708 11/11/96	Keachamkandy House P.O. Kattissery, Kozhikkode.
86154	Shreeja Menon Menon P.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6394 19/12/94	Srivalsam Kakkadithara Lane Thiruthoor, Temple Road, Ancheri P.O., Thirissur
86155	Shreeja K. Nair K.N. Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6341 25/07/94	Kailenparambil House Mukkoodu P.O., Mulavana, Distt. Kollam.
86156	Shreeja S. Sreenivasan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6477 28/04/95	"Sheela Bhavar" Villabhogom, Nedunganda P.O., Via Kadakkavoo Distt. Thiruvananthapuram.
86157	Shreene Mol K.S. K.P. Somanathan Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6617 03/05/96	S.D.V.A. Pharmacy S. Battery P.O., Wayanad.
86158	Shriya Varma S. Somanvarma	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6628 14/05/96	Sree Nilayam, Varakkara P.O., Thirissur.
86159	Shireesya B R. Bhaskaran	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6509 09/10/95	Sreepuram, Yeroor P.O., Kollam.
86160	Sherly Devanni A.T. Divaniasios	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6463 27/04/95	"Ampliyam", North Aryad P.O., Aleppuzh.
86161	Sherly Gopalan A.N. Gopalan	BAMS Devi Ahilya Univ., Indore, 1995	6582 12/01/96	Thiruvananthapuram. "Ranjana" A.78 Kanaka Nagar Kadilar P.O., Trivandrum.
86162	Shirmy C.F. C.V. Francis	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6738 22/01/97	Choooparambil House SFX Church Road, H.No.XXXVII/313 Kallor, Kochi Ernakulam.
86163	Shiny S. Raj Dharma Raj	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6625 04/05/96	Shanthibhavan Pandits Colony, Kowdilar P.O., Thiruvananthapuram.
86164	Shivkumar S. Surendran P.U.	BAMS Dr.MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6677 20/06/96	"Saparnika", Koodal P.O., Pathanamthitta.
86165	Shobha M.C. Chindan Vaidya M.V.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6378 05/12/94	"Shobha Nivas" Kallikode P.O., Cheruvathur (Via) Kattaragode.

86166	Shyam Prakash K. K. Chakravarthy Rha	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1996	687 13/08/96	appuukku kuttase P.O. Petta, Kasargod
86167	Shyam V.L. K.S. Viswanathan Pillai	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6749 29/05/97	Chikkulathu kkaase Vayarkam, Nalakkal P.O. Krishnappuram (Via) Kayamkulam, Alappuzha
86168	Shyla V. Vallab S.A.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6369 22/11/94	Sunudha Mandiram Ratnakal, Vettoor P.O., Varkala, Thiruvananthapuram
86169	Shym E.	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6719 23/11/96	'Aarabhi, Thekkavilla P.O. Kollam
86170	Siji C.S. Sreesadevan O.S.	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1994	6360 15/11/94	Siji Bhavan Payed P.O., Thiruvananthapuram
86171	Sindhu A. S. Velappan	BAMS Univ. of Calicut Calicut 1996	6627 10/05/96	Sowparnika, Mullakara Mannuthy P.O., Thrissur
86172	Sindhu Antony (C.C. Antony)	BAMS M.G. Univ., Kottayam 1996	6728 22/01/97	Plot No
86173	Sindhu B. Elabu N.	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6737 22/01/97	'Sindhu Bhavanam' Kocamthuruth, Kuthiathode P.O. Cherthala, Alappuzha
86174	Sindhu K. E. Radhakrishnan Nair	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6665 25/05/96	Sindhu Nivas, Kalkassery P.O., Chittattukara (Via), Thrissur
86175	Sindhu M. K.S. Madhavan	BAMS M.G. Univ., Kottayam 1995	6512 10/10/95	Souriamakili House Ramapuram P.O., Distt. Kottayam
86176	Sindhu L. N.K. Sreedharan	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai, 1996	6539 22/11/95	Nedumparambali House Ayyankavu Road P.O. Injalakuda, Thrissur
86177	Sirajudheen P. P. Hussain	BAMS Dr. MGR. Med. Univ., Chennai, 1996	6575 20/12/95	Poozhikkal House Kari South, Edarikode P.O., Malappuram
86178	Sisy A.N.	BAMS Univ. of Calicut Calicut 1996	6711 11/11/96	Manjaly House, Chungal, Mattathur P.O. Thrissur
86179	Sivakaran T.S. Subrahmanyam Namboothiri	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6330 29/04/94	Thottathilmana Panjal P.O., Cheruthuruthy (Via) Distt. Thrissur

86130	Sivakumari P. K. Appukutty	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6624 04/05/96	"Veena" Chirakkal a Road Kamranam, Pappanar code P.O., Thiruvananthapuram.
86131	Smije A.F. Lakshmanan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6349 26/07/96	"Radha Nivas" P.O. Mundelur, Pezhassery, Distt. Kannur.
86132	Smrithi Divakaran K. Divakaran	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6614 03/05/96	"Smrithi", Eranthikkal P.O., Kozhikode.
86133	Sobha K. K. Narayanan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6616 03/05/96	Kartha House, Pallikurup P.O., Mannarkad, Palakkad.
86134	Sobhana K.K. Kunjian K.K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6609 24/10/96	Karikutty House P.O. Marottichal, Thrissur.
86135	Soloman P.C. F. Christian	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6489 07/07/95	Christubhavan, Kanjirankulam Thiruvananthapuram.
86136	Solomon A. F. Augeslinose	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6747 07/02/97	Potentevilla (Salomandiram) Koduvila P.O., East Kallada, Distt. Kollam.
86137	Somaraian V. Vasudevan	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1995	6500 09/10/95	Chackiparampil House Karuvatta North P.O., Alappuzha
86138	Sooriasas K. Sivan Kana	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6578 11/01/96	Subhavan, Anandapuram P.O., Thrissur.
86139	Sree Raj Kunnasseril K. Sankaran Nambodiri	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6618 03/05/96	Kuttippurath House Mampetta, Manaseri P.O., Muttam, Kozhikkode.
86190	Sreeja K. Pillai M.K.K. Pillai	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6643 14/05/96	Sree Nilayam, Anchery P.O., Thrissur.
86191	Sreeja Rani T. K. Balakrishnan Nair	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6523 11/10/95	'Abhilash', Arakurassi Mannarkad P.O., Palakkad.
86192	Sreekala Devi G.O. Gangadharan Pillai N.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6479 28/04/95	"Ganga" Venkavilla Irinchayam P.O., Nedumangad, Trivandrum.
86193	Sreekumar K. Sreedharan Nair K.	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6579 11/01/96	Kundattumadham, Asamannoor Perumbavoor, Ernakulam.

86194	Sreekumar P. Prabhakaran Jinnithar	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6553 24/11/95	Punnaiparambil Chingoli PO., Alappuzha.
86195	Sreelekha K.L. N. Ravindran Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6570 20/12/95	'Sraeragam' Myakkad PO., Kollam.
86196	Sreelekha S. Gopalakrishnan Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6459 27/04/95	'Jyothis' Thulamparambil South, Harpad, Alappuzha.
86197	Sreemase., K. Madhavan Nair K.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6697 24/10/96	'Geehebhavan' Chemmad, PO., Tirurangedi Malappuram.
86198	Sreevidya K.P. K.P. Sivanvazhunnar	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6655 24/05/96	Anyavadya Madhoni Perikamana Illam Nellikud, Balla (PO) Ananddasram (Via), Kasaragod. Chakkalakkal Karayampedon, PO. Varandarappilly, Thrissur.
86199	Stephan C.G. C.V. George	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6706 11/11/96	Leishmi Nivas Peringala PO., Chengannoor
86200	Subhash Kumar K.N. K.N. Narayanan Asani	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6424 31/12/94	7/890, Vettankarakavu, Near Ayyappan Temple PO Kalapathy, Palakkad. Asha Mandir, Pazhaveedu PO. Alleppey.
86201	Subramaniam P. P. S. Parameswaran	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1988	6599 09/03/96	Lilly Cottage Kudappanakunnu PO., Distt. Thiruvananthapuram.
86202	Sudamkumar Paul Sujan Chandrapaul	BAMS Univ. of Calcutta, Kolkata, 1996	6698 03/05/96	Sannidhyadeep, Placaud Adichanalloor PO., Kollam.
86203	Sudarsan P.J. P.S. Jayarose	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6322 29/04/94	Kariappilly House Ponelkara, Elamakkara PO., Ernakulam.
86204	Sudesh M.S. M.K. Sadanandan	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6619 03/05/96	Keerthi Ganeshgiri Shornur, Palghat.
86205	Sudha K.N. K.K. Narayanan	BAMS Dr MGR Med. Univ. Chennai, 1996	6674 20/06/96	
86206	Sudhir P.A. Viswanathan P	BAMS M.G.Univ., Kottayam, 1996	6651 24/05/96	

86207	Sunthir Raj N. M. Nadarajan	BAMS Dr MGR Med. Univ., Chennai. 1996	6680 06/08/96	Kailath House, Meni Saldiam Palakkochira PO., Palakk., Thiruvalla, Pathanamthitta T.C. 11/90/9, N.N.R.A. 94, Beken Lane, Nanthancode. Thiruvananthapuram.
86208	Sundipkumar Paul Sujan Chandra Paul	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1995	6584 12/01/95	Jyothis, Thirumangalam Neyyattinkara PO
86209	Sunatha S.J. Sukumaran J.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6562 24/11/95	Thavalathadathi Vadavucode P.C., Ernakulam
86210	Sujana Balen T. Eelakrishnan Assari K.R.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6406 20/12/94	"Padmalayam" Sanskrit College Road, Tripunithura, Ernakulam.
86211	Sujit S. Warriar Sankarankuty Warriar V	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6398 19/12/94	"Krishna Kripa" Pullikkottil House Kozhikulampu, Tattamangalam PO., Palakkad
86212	Suma R. Raveendran R.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut. 1994	6388 19/12/94	Sanu Sedanam Ayra PO. Parassala, Thiruvananthapuram.
86213	Sumedha Sanu V.R. Varnanan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6567 24/11/95	
86214	Sunil K. John K. John	BAMS Univ. of Kerala, 1997	6744 07/02/97	'Ananda Bhavan' Enathu PO. Distt. Pathanamthitta.
86215	Sunil Kumar V.G. Gopalan P.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6484 28/04/95	"Poorniam" Cheruvell, Chullimanoor PO., Nedumangad, Trivandrum.
86216	Sunilkumar S. S. Sudhakaran	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6328 29/04/94	Suresh Bhavan Vavara Ambalam, Pothencode PO., Thiruvananthapuram.
86217	Sunilkumar S. K. Surendran Nair	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6461 27/04/95	"Susi" Chennilode Kurnarapuram, Medical College, Thiruvananthapuram.
86218	Sunilkumar V. V.R. Vasudevan	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6326 29/04/94	Narayanavilasom Nannathukavu, Pothencode PO., Thiruvananthapuram.
86219	Sunitha Kumari K.K. Krishnan Nair P.N.	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6732 22/01/97	Kolatharayathu House Vadavucode PO. Distt. Ernakulam.

81220	Sunithe S. C. K. Saravama Pillai	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6647 24/05/96	Kondoor, Ezhumattor, Parthiananthitta.
81221	Sunithe S. Nair Sukumaran Nal	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1994	6411 31/12/94	"Krishna Nilas" Muddickal PC, Perumbavoor, Ernakulam.
81222	Sonia Wilson P. F. Wilson Iype	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6639 14/05/96	Pattikkottai, Greentown, M.O. Karu PO., Thrissur.
81223	Suresh Babu I.B. I.V. Balan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6530 21/10/95	Iyyani House, Chazhu PO, Thrissur.
81224	Suresh Kumar B. Elhakaran G.	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6367 22/11/94	Sreevilasom, Thevaracode Russellouram PO., Balaramapuram (Via) Thiruvananthapuram.
81225	Suresh N.P. N.P. Kunthraman Vaidyar	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6694 24/10/96	"Enpees", Chombala, Distt. Kozhikode. Varadarappilly, Thrissur.
81226	Susha R. P.R. Revindran	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6610 03/05/96	House No.52, Kowdiar Gardens Jawaharnagar PO., Thiruvananthapuram.
81227	Swapna C. G. Chandrasekhara Pillai	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6435 12/01/95	Ambalayam, Palackal Thevalakara PO., Kollam.
81228	Swapna Chandran Ramchandran Nait E.	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6373 06/12/94	"Sopanam", Thiruvankulam PO., Distt. Ernakulam.
81229	Swapna K.S. K.V. Sreedharan	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6559 24/11/95	Sweepalayam, T.C.18/709(1) Kunneappuzha, Aramada PO. Thiruvananthapuram.
81230	Teena Thampy T. Thampy	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6473 26/04/95	Monie Dale, Patrathanam, Kollam
81231	Thajudeen P.M. P.F. Mohamed	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1995	6532 21/10/95	Panikkaveetil House PO. Edassery, Thailikulam, Thrissur.
81232	Thiruvikraman V. V.K. Subrahmanyam Namboodiri	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore, 1990	6415 31/12/94	Veluthat Mana, PO. Kavanchery (Via) Mangalam, Tirur. Malappuram.

86233	Uma K. Sankar K.M. Sankaran	BAMS I.A.G. Univ., Kottayam, 1996	6723 02/01/97	'Idaya Nilas' PO, Thiruvananthapuram, Thiruvananthapuram.
86234	Uma S. P. Bhaskara Kurup	BAMS Univ. of Kerala, 1996	6488 07/07/95	Sree Saliyam, Mangad Lane Karamana, Thiruvananthapuram
86235	Umesh V.U. V. Upendra Shenoy	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6652 24/05/96	"Sangeetha", Mannam Nagar P.C. Pandalam, Pathra Namthitta.
86236	Unnikrishnan T. Kunhappan	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1994	6400 19/12/94	Thachevakkal House PO, Niramaruthur (Vila) Tirur, Melappuram.
86237	Vadakkan Delta David V.V. David	BAMS Univ. of Poona, Pune, 1995	6597 26/02/96	Vadakkan House, PO. Kurnal (Velur-Trichur, Distt. Thrissur.
86238	Vasudevan K. Karunakaran	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6494 25/03/95	Madathil Veedu Ashtamudi, Kollam.
86239	Vasudevan Nambi A. A. Athiyoor Narayanan Nambi	BAMS Univ. of Calicut, Calicut, 1996	6710 11/11/96	Thakkatt Mana Kizhakkumpattukara East Fort PO., PB No. 718, Thrissur.
86240	Vasudevan V.N. V.N.C. Narayanan Nambodini	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6583 12/01/96	Vaidyamadam PO. Mezhathur (Vila) Thrithala, Distt. Palakkad.
86241	Veena Panicker M.S. P.K. Surendranath Panicker	BAMS Univ. of Kerala, 1994	6308 28/04/94	'Madhurima', T.C. 30/2024, Anayara PO., Thiruvananthapuram.
86242	Vijayakumar C.A. M.A. Aravindakshan	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1997	6753 29/03/97	Chattratil House Muriyad PO. Thrissur.
86243	Vijayashree K. Vijayachandran	BAMS M.G. Univ., Kottayam, 1996	6802 03/05/96	Susutha Bhavan Hospital Road, Kollam
86244	Vikas V.R. V.R. Dharmadathan	BAMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	6580 12/01/96	Vikas Villa PO. Rayarangoth Badagara, Kozhikkode.
86245	Vinitha T. Thankappan P.	BAMS Univ. of Kerala, 1995	6481 28/04/95	"Shaji Bhavan", Mulammoodu, Eruthavoor Belaramapuram PO., Distt. Trivandrum.

81246	Vinod C. M.A. Chathukutti	BAMS M.S. Unk., Kottayam, 1996	6718 23/11/86	Mulloly House, V.R. Puzem FO Chalakudy, Thrissur
81247	Vinodkumar M. P.K. Ikhthar	BAMS Dr MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6604 03/06/86	Meera Bhavan Pattenam, Vadakkethala PO, Ernakulam
81248	Yadunandanan K.P. K.F.G. Peniker	BAMS Dr MGR Med. Univ., Chennai, 1996	6687 12/01/86	K.F. Yadunandanan 13/1777 Chalappuram FO Kozhikode
81249	Yamina A. C. Raghavan Nair	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1996	6542 23/11/85	Karathil House Munnad P.O. Chengale (Vla), Distt. Kasaragod
81250	Yogesh F.F. Pillakka' Freblakaran	BAMS M.S. Unk., Kottayam, 1996	6715 23/11/86	Pillakkal House Madakkara, Irinave PO, Kainjir

P. R. SHARMA
Registrar

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE
KERALA

PART - III - SIDDHA

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
2196	Ananthiy Alias Sudalai Vadivoo P. P. Pitchiah	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1992	97 16/03/95	W/o S. Ganesan T.C. 50/1145, "Saroj" Thaliyal, Karamana PO., Thiruvananthapuram.
2197	Baskaran K. Kirubachary G.R.	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1991	95 26/07/94	C/o Krishnamoorthy T.C. 27/801, Visrama Amba Nagar, Vanchiyoor, Thiruvananthapuram.
2198	Chenthivel N. V. Nanda Gopal	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	101 09/10/95	1, Vegneswara Street Chadiyan Villal Noyyor Post, Distt. K.K., Tamillandu.
2199	Ganesh Kumar S. M. Suruyandi	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1991	118 19/09/96	4/9, Ramayah Gowder St Muthukamu Lane, Cumbum Madurai, T. Nedu.
2200	Jeyechandran G. A. Gabriel	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1996	120 11/11/96	6/16 B, Reethapurem PO Kanyakumari, Tamil Nadu.
2201	Jeyaram B. S. Balu	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1993	108 22/11/95	20, Kuzhivestor St. Aruppukottai, Kamarajar,
2202	Johnsi Rani R. A. Reethamony	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1991	107 21/10/95	Prakrithi Apartment Lal Tourist Home Buildings Tampanoor, Trivandrum.
2203	Justus Antony Savari Muthu	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	104 11/10/95	Justus Bhavan, Tharuvai, Manavalakurichy, Kankulam Taluk, Kanyakumari. (TN)
2204	Kabilan N. Natarajan	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	106 21/10/95	1356, NGO 'B' Colony Tirunelveli, Kattabomman, Distt. Tamil Nadu.
2205	Kamalakannan D. S. Dharmaraj	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1992	117 18/09/96	Kamatchiamman Koil St. Gudalur Veeran Aalagumuthu
2206	Kannan K.P. K. Ponnalargowder	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1992	116 18/09/96	Kannan Hospital Odalipatty, Madurai Distt. Tamil Nadu.
2207	Kumararaja G. G. Gandhi	BSMS M.K. Univ., Madurai, 1990	114 18/09/96	38/15, Kallamma Curnbum, Tamil Nadu. Street, Madurai Distt. Tamil Nadu.

2208	Mohan Das N. Nela ayan	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	102 11/10/95	9/30, Velvilai St. Manavalakurichi PO, Kalkulam Taluk, Distt. Kanyakumari (TN); Puthukkadi Street Manavalakurichi, Kanyakumari, Tamil Nadu
2209	Muthukumar N.J. Narayanan Chettiar Jagathanima	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	103 11/10/95	
2210	Muthuvel A. Arumugham V.	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	105 11/10/95	H-1, PH IV, New Housing Board Colony, Thamrapathy Nagar, Tirunelveli
2211	Nagarani L. S. Lakshmanan	BSMS M.K. Univ. Madurai, 1990	119 25/10/96	Renganathapuram Kamarajapuram PO, Bodi (Via), Madurai.
2212	Paul Durai Mani Mozhian I. Thomas G.	BSMS M.K. Univ. Madurai, 1994	94 26/07/94	21-105, Mutta Vilai Arumanai PO., Kanyakumari.
2213	Pitchiah Kumar M. A. Murugan	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	99 09/10/95	Plot No.4 18th Cross St. Maharaja Nagar, Tirunelveli, Kattabomman, Tirunelveli.
2214	Rama V. G. Vetrivel	BSMS M.K. Univ. Madurai, 1990	111 22/11/95	B.139 NGO A. Colony, Tirunelveli.
2215	Selvakumar M. A. Madan	BSMS M.K. Univ. Madurai, 1992	109 22/11/95	Thirumalaiapuram Colony Ramanathapuram (PO) Sivagiri, Distt. Tirunelveli, Tamil Nadu.
2216	Shabu George M. M. George	BSMS M.K. Univ. Madurai, 1993	93 28/04/94	S/o Mr. M. George Autoshop Kodayarkilthangal PO., Kanyakumari.
2217	Shvakumar P. Paramashivan S.	BSMS M.K. Univ. Madurai, 1992	110 22/11/95	20-6-3(3) Meenatchi Chettiar St., South Street Aruppukkottai.
2218	Sundararajan U. Sudhalal Muthu	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1994	100 09/10/95	19 A, Rajendra Nagar Palayam Kottai, Tirunelveli.
2219	Suresh Kumar C.R. Ramalan C.	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	98 28/04/95	98-B-5, Beach Road, Irulappapuram Opp. Porimudi Hospital Nagercoil, Distt. Kanyakumari, Tamil Nadu.
2220	Thamodharan S. Sakthivel J.	BSMS Dr. MGR Med. Univ., Chennai, 1995	115 18/09/96	7, Iyappa Samy Kovil Street, Moorthinayakanpatty, Odalipatty (Via) Madurai Distt. Tamil Nadu.

C/o R. Subramaniam, Karayalar
Meenambalam, Jawahar Nagar, Nungu St.
Shencottah, Nellore Dist.
21, Salai Street, Kokkinakulam
Tirunelveli, Tamil Nadu

113
04/05/96

96
26/07/94

BSMS
M.K. Univ. Madurai,
1989

BSMS
M.K. Univ. Madurai,
1991

Uchimall S.
M. Sankara Linga Korar

Velayudhan N
Hellelaoppan S.

2221

2222

P. R. SHARMA
Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi